

श्रीरत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुस्तक नं० ४२.

श्रीरत्नप्रभाकर मद्भगवत्त्वयोत्तेषु दाः॥

श्रीघ्रबोध या थोकड़ा प्रवन्ध

भाग १० वाँ

प्रथम विमाण

समाप्त

श्रीमदुपकेश गच्छीय मुनि
धी हारा सुन्दरजी (गयवर मुनिजा)

प्रांशुक-

श्रीमध फलोधी सुपना वर्गेश की आमदानी से

प्रथम-प्रकर्ता-

मधराज मुण्ठोत फलोधी

प्रकाशकता श्रीदुर्गाप्रसाद के प्रवन्ध से ना सुखोउपहार
जी ग्रस, अजमेर में गुटिन हुआ,

श्रीरत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला ३३.

श्रीरत्नप्रभमूरीश्वर विद्यारथी ज्ञान ॥

४४

श्रीघ्रबोध या थोकड़ा प्रबन्ध

भाग १०

संग्रहक

श्रीमदुपकेश गच्छीय मुनि
श्री ज्ञान सुन्दरजी (गयवर मुनिजी)

प्रबन्धक-

श्रीसध फलोधी सुपना वर्गैरह की आमदानी से

प्रबन्धकत्ता-

मेघराज मुण्ठोत फलोधी

प्रबन्धकत्ता श्रीदुर्गाप्रिसाद के प्रबन्ध से श्री सुखदेवचहाय
चैत, एस, अर्जुन, ये, मुतिहा, हुआ,

[प्रथमांकुशि १०००]

[वर स० २४४०

॥ ॐ ॥

श्री रस्त्रभ सरीश्वर सद्गुरुमयो नमः
॥ श्री ॥

श्रीब्रिवोध या थोकडाप्रवन्ध

भाग दशवां

अकृत देवनरेश्वर बन्दितम् विवृधमानव संस्तुतपूजितम् ।

कमललोचन रंजितनगरम् भविकपातकतामसभास्करम् ॥

थोकडा नं० १

चौबीस ठाणादार

अब प्रत्येक द्वार पर २४-२४ द्वार उत्तरेंगे जैसे पढ़िला गती द्वार इस पर नहि इन्द्रि कायादि चौबीस द्वारों में से कौन से द्वार प्रत्येक गती आश्री कितने २ भेद पावे सो लिखते हैं ।

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (१) गतीद्वार-नरकादि ४ गती | (१४) आहारिकद्वार-आहारिक- |
| (२) इन्द्रियद्वार-एकेन्द्रियादि | और अनाहारिक ३ |
| २ इन्द्रिय | (१५) गुणस्थानद्वार-मिथ्यात्वादि १४ |
| (३) कायद्वार=पृथ्वीआदि ६ काय | (१६) जीवद्वार-जीवके १४ भेद |
| (४) योगद्वार-मनादि १५योग | (१७) पर्याप्तिद्वार-अहारादि ३ |
| (५) वेदद्वार-खीपुष्पनपुष्पकउवेद | (१८) प्राणद्वार--थूत इन्द्री बहु- |
| (६) कायद्वार-सोलाकपाय
नो नोकपाय | प्राणादि १० |
| (७) ज्ञानद्वार-पांचज्ञन तीन ग्रन्थान | (१९) संज्ञाद्वार-अहारादि ४ संज्ञा |
| (८) संयमद्वार पांच संयम, संयमा-
संयम असंयम ७ | (२०) बायोगद्वार-साकार अणाकार २ |
| (९) दर्शनद्वार—चतुश्चादि ४ | (२१) दृष्टिद्वार-समदृष्टिदि ३ |
| (१०) लेश्याद्वार-कृष्णादि ३ | (२२) कर्मद्वार-ज्ञानावर्णादि ८ कर्म |
| (११) भवन्द्वार-भव्य और अभव्य २ | (२३) शरीर द्वार-आँदारकादि ५
शरीर |
| (१२) सब्बीद्वार-सब्बी और असब्बी २ | (२४) इत्यद्वार-२५ कपाय १५ |
| (१३) सम्यक्त्वद्वार-पांच सम्यक्त्व-
मिथ्यात्व और मिथ्या | योग १२ अर्वत ५ मिथ्यात्व
कुछ ४० |

गती द्वार १

क्रमसंख्या	नामद्वार	तरक क गति	त्रिष्ठुच क गति	मनुष्य क गति	देव गति मे	अपनी अपनी गति पाव
१	गतीद्वार	४	१	१	१	
२	हन्दाय	५	पचिद्रिय	पचो०	१ पचे०	१ पचे०
३	काय	६	असकाय	द्वकाया	१ त्रिस०	१ त्रिस०
४	गोग	१५	११	१३	१५	११
५	नेद	३२	नपु०	३	३	२स्त्री पु
६	क्षाय	२५	२३	२५	२५	२४
७	ज्ञार	५	५	६	८	१३
८	मयम	७	७	७	७	१३
९	दर्शन	४८	४८	४८	४८	१३
१०	लेश्या	२८	२८	२८	२८	१३
११	भव्य	२	२	२	२	१३
१२	सन्नी	२	१९	१२	१२	१३
१३	सम्यक्त्व	७	७	७	७	१३
१४	आहारिक	२	२	२	२	१३
१५	गुणस्था	१४	५	५	१४	१३
१६	जीवभेद	१४	५	१४	१४	१३
१७	पर्याप्ति	८	५	६	१०	१०
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०	१०
१९	सज्जा	४४	४४	४४	४४	१०
२०	उपयोग	२	२	२	२	१०
२१	दृष्टि	३	३	३	३	१०
२२	कर्म	११	११	११	११	१०
२३	शरीर	५	३	५	५	१०
२४	हतु	५७	५१	५५	५२	१०

नारकी देखता में जाए धार्मी धरस्ती वी मिलते हैं

देवता नारकी मन और माया एक साध्याख्ये हम वास्ते कही हैं

हन्द्रिय द्वार २

नं०	द्वार	एकेंद्रिय	बेरिद्रि	सरिद्री	चौईद्रि	पंचेद्री	
१	गती	४	१	१	१	१	१
२	इन्द्रि	५	१	१	१	१	अपने अपनी
३	काय	६	५	१	१	१	
४	योग	७	५	४	४	४	
५	वेद	८	३	१	१	१	
६	कपाय	२५	२३	२३	२३	२५	
७	ज्ञान	८	८	८	८	८	
८	संवाम	८	९	९	९	९	
९	दृश्यन	८	९	९	९	९	
१०	लेश्या	८	९	९	९	९	
११	भव्य	८	९	९	९	९	
१२	सन्त्री	८	९	९	९	९	
१३	सम्यक्ष	८	७	८	८	८	
१४	आहारिक	२	२	२	२	२	
१५	गुणस्थान	१४	१४	१४	१४	१४	
१६	जीवग भेद	१४	१४	१४	१४	१४	
१७	पर्याप्ति	६	६	६	६	६	
१८	प्राण	१०	८	८	८	१०	
१९	संज्ञा	८	८	८	८	८	
२०	उपयोग	२	२	२	२	२	
२१	द्रष्टा	३	३	३	३	३	
२२	कर्म	८	८	८	८	८	
२३	शरीर	५	५	५	५	५	
२४	हेतु	५७	४१	४०	४०	५७	

१३-१४गु.
अनेन्द्रिया

काय ठार २

नू	द्वार	पृष्ठा	अधर	तेऽ	वार	ब्रह्मां	प्रस
१	गतो	४	३	१	१	१	४
२	इन्द्र	५	२	१	१	१	५
३	काय	६	३	१	१	१	६
४	योग	७	४	१	१	१	७
५	वद	८	५	१	१	१	८
६	कपाय	९	६	१	१	१	९
७	शात	१०	७	१	१	१	१०
८	स्थम	११	८	१	१	१	११
९	दशन	१२	९	१	१	१	१२
१०	केश्या	१३	१०	१	१	१	१३
११	भाज	१४	११	१	१	१	१४
१२	सुखी	१५	१२	१	१	१	१५
१३	सम्यक्त्व	१६	१३	१	१	१	१६
१४	आहारिक	१७	१४	१	१	१	१७
१५	गुणस्थान	१८	१५	१	१	१	१८
१६	लोदभेद	१९	१६	१	१	१	१९
१७	दर्यालि	२०	१७	१	१	१	२०
१८	प्राण	२१	१८	१	१	१	२१
१९	मदा	२२	१९	१	१	१	२२
२०	उपयोग	२३	२०	१	१	१	२३
२१	इत्यी	२४	२१	१	१	१	२४
२२	कर्म	२५	२२	१	१	१	२५
२३	शारीर	२६	२३	१	१	१	२६
२४	इतु	२७	२४	१	१	१	२७

योग द्वार ४

सं०	द्वार	मनका ३	इयवहार म. ३	बचनका ३	इयवहार व. ३
१	गती	४	४	५	४
२	इन्द्रि	५	१	१	१
३	काय	६	१	१	१
४	योग	७	अपना	अपना	अपना
५	वेद	८	३	३	३
६	कपाय	९	२५	२५	२५
७	ज्ञान	१०	७	७	७
८	क्षयम	११	६	६	६
९	दर्शन	१२	३।४	३।४	३।४
१०	लेश्या	१३	६	६	६
११	भव्य	१४	२	२	२
१२	सन्नी	१५	९	९	९
१३	सम्यक्त्व	१६	७	७	७
१४	अहारिक	१७	२	२	२
१५	गुणस्थान	१८	१३।१२	१३।१२	१३।१२
१६	जीव भेद	१९	१३।१२	१३।१२	१३।१२
१७	पर्यासि	२०	६	६	६
१८	प्राण	२१	१०	१०	१०
१९	संज्ञा	२२	४	४	४
२०	उपयोग	२३	२	२	२
२१	द्रष्टी	२४	५	५	५
२२	कर्म	२५	५	५	५
२३	शरीर	२६	५	५	५
२४	हेतु	२७	५	५	५

काय का योग ७ ढारे ४।

नू	दार	भौ० २	बें० २	आ० २	काम०
१	गतो	४	०	४	४
२	इन्द्री	५	५	३	५
३	काय	६	६	२	६
४	योग	१५	अपना	अपना	अपना
५	वेद	३	३	३	३
६	कथाय	२५	२५	२५	२५
७	ज्ञान	८	८	७	८
८	मयम	७	७	४	८
९	दर्शन	८	८	३	८
१०	केन्या	८	८	४	८
११	भूय	०	०	२	१
१२	संग्री	२	२	२	१
१३	अस्थिरता	७	७	७	७
१४	अहारिक	२	१	१	१
१५	गुणाभाव	१४	१३१६	७१५	१०५
१६	भाव भै	१४	१४१८	४	१०
१७	पर्यासा	८	८	३	८
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०
१९	मत्ता	८	४	४	४
२०	उपर्योग	२	२	२	२
२१	स्त्रो	३	३	३	१
२२	इमे	८	८	८	८
२३	शरीर	५	३	३	३
२४	इनु	५७	५२	५२	५२

वेद धार ५

नं०	धार	खो	पुष्प	नपुष्प
१	यती	४	३	३
२	इन्द्रि	५	१ पंचे	५
३	काय	६	१ त्रिस	६
४	योग	२५	१५	१५
५	वेद	२३	१	२७
६	कपाय	२५	२३	५
७	ज्ञान	८	७	७
८	संयम	७	४	५
९	दर्शन	४	३	३
१०	लेश्या	६	२	२
११	भव्य	२	२	२
१२	सन्धी	२	२	२
१३	सम्यक्त्व	७	७	७
१४	आहारिक	८	२	२
१५	गुणस्था	१४	१४	१४
१६	जीव भेद	१४	१४	१४
१७	पर्याप्ति	६	१०	१०
१८	पाण्य	१०	१०	१०
१९	संज्ञा	४	४	४
२०	उपयोग	२	२	२
२१	इष्टी	३	३	३
२२	कर्म	८	८	८
२३	शरीर	५	५	५
२४	हंतु	५७	५५	५५

कपाय दार-६

मा०	दार ।	अनुतान०	अप्रत्या०	प्रत्या०	सज्ज०	दासादि०	वेद०
		४	४	४	४	४	४
१	गती	४	४	४	४	४	४
२	हन्दिव	४	४	४	४	४	४
३	काय	४	४	४	४	४	४
४	योग	४	४	४	४	४	४
५	नद	४	४	४	४	४	४
६	कपाय	४	४	४	४	४	४
७	ज्ञान	४	४	४	४	४	४
८	संयम	४	४	४	४	४	४
९	दर्शन	४	४	४	४	४	४
१०	लेश्या	४	४	४	४	४	४
११	भव्य	४	४	४	४	४	४
१२	सन्त्री	४	४	४	४	४	४
१३	सम्यक्त्व	४	४	४	४	४	४
१४	आहारिक	४	४	४	४	४	४
१५	पुणरथान	४	४	४	४	४	४
१६	जीव भेद	४	४	४	४	४	४
१७	पर्याप्ति	४	४	४	४	४	४
१८	प्राण	४	४	४	४	४	४
१९	संज्ञा	४	४	४	४	४	४
२०	उपयोग	४	४	४	४	४	४
२१	इष्टी	४	४	४	४	४	४
२२	कर्म	४	४	४	४	४	४
२३	शरीर	४	४	४	४	४	४
२४	इतु	४	४	४	४	४	४

पहले ४ वे द्वारां में लिखा है।

ज्ञान धार ७

नं०	धार	म०शु०	अ०	म०	के०	म०	म०शु०	वि०
१२	गती	४५	४	१०१	१०१	१०५	४५	४
	इन्द्रि	५६	४	१००	१०१	१३३	५६	१०३
	काय	१५	१	१५५	१४८	३५	३५	३५
	योग	१५	३	१५३	१३३	०	२५	२५
	वेद	३	३	२१	१३	०	२५	२५
	कपाय	२५	२१	२१	१३	०	२५	२५
	ज्ञान	५	५	७	७	०	१०१	१०१
	संयम	७	७	७	७	०	१०१	१०१
	दर्शन	४	४	११	११	०	१०१	१०१
	लेश्या	२	२	१२	१२	०	१०१	१०१
	भव्य	२	२	१२	१२	०	१०१	१०१
	सन्त्री	२	२	१२	१२	०	१०१	१०१
१३	सम्यक्त्व	७	७	१४	१४	०	१०१	१०१
१४	आहारिक	२	२	१०	१०	०	१०१	१०१
१५	गुणस्थान	१४४	१०	१०	१०	०	१०१	१०१
१६	जीवभेद	१४	६	१०	१०	०	१०१	१०१
१७	पर्याप्ति	६	६	१०	१०	०	१०१	१०१
१८	प्राण	१०	१०	१४	१०	०	१०१	१०१
१९	संज्ञा	४	४	१४	१४	०	१०१	१०१
२०	उपचोय	२	२	१२	१२	०	१०१	१०१
२१	द्रष्टी	५	५	१५	१५	०	१०१	१०१
२२	कर्म	५	५	१५	१५	०	१०१	१०१
२३	शरीर	५	५	१५	१५	०	१०१	१०१
२४	हेतु	५७	५७	५२	५२	०	५५	५५

सुधार द्वारा

नू.	द्वारा	सरो षो	प०	सु०	पर्याप्त	संयम संयम	असंगम
१	गती	४	१	१	१	२	५
२	इन्द्रिय	५	१	१	१	१	५
३	काय	६	१	१	१	१	६
४	योग	१५	१४	१४	१४	१२	१३
५	वेद	३	३	३	०	३	३
६	कथाय	८५	१३	१२	१	७	१५
७	ज्ञान	८	४	४	४	३	८
८	संयम	७	अपना	अपना	अपना	एव	८
९	दर्शन	४	३	३	३	३	४
१०	लेश्य	८	६	६	२	१	८
११	भव्य	२	१	१	१	१	१
१२	सन्नी	२	१	१	१	१	१
१३	सम्यक्षव	७	४	४	२	४	४
१४	आहारिक	२	१	१	१	१	१
१५	गणेश्या०	१४	४	४	४	१	१५
१६	जीवभेद	१४	११	११	११	११	१६
१७	पर्याप्ति	५	६	६	६	५	६
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१९	सङ्ग	४	४	०	०	४	४
२०	उपयोग	२	२	०	२	२	२
२१	द्रष्टा०	३	१	१	१	१	३
२२	कमे०	५	८	८	८	८	८
२३	शरीर	५	५	५	५	५	५
२४	हेतु	५५	२७	२२	१०	११	५५

दर्शन दारा ह।

मेरा	प्राप्ति	दक्षिण	शशुद्धि	प्रत्याहार	वेगवद्
१	गर्व	४	४	४	१
२	दंडी	२	५	८	५-७
३	काल	२	५	६	५-६
४	सोन	१४	१४	१५	५-६
५	देह	१५	१५	१५	५-६
६	प्राप्ति	१५	१५	१५	५-६
७	दान	१५	१५	१५	५-६
८	संदेश	१५	१५	१५	५-६
९	दृश्यमान	१५	१५	१५	५-६
१०	दृश्य	१५	१५	१५	५-६
११	सहारी	१५	१५	१५	५-६
१२	सम्पदवाय	१५	१५	१५	५-६
१३	सम्पदवाय	१५	१५	१५	५-६
१४	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
१५	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
१६	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
१७	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
१८	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
१९	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२०	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२१	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२२	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२३	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२४	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२५	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२६	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२७	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२८	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
२९	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६
३०	संपदवाय	१५	१५	१५	५-६

लेख्यांकार १०

नूमा	द्वारा	हेत्युनिज कापोत	तेजु	प्रग	शुद्ध
१	गती	५८	५८	३	२०
२	इन्द्रि	५५	५५	२९	११
३	काय	५५	५५	२९	११
४	योग	१५५	१५५	१५५	१५५
५	वेद	२५	२५	२५	३
६	क्षण	२५	२५	२५	२५
७	ज्ञान	२५	२५	२५	२५
८	संयम	२५	२५	२५	२५
९	दर्शन	२५	२५	२५	२५
१०	लेख्या	अपनी अपना	एव	एव	एव
११	भव्य	२८	२८	२८	२८
१२	सत्त्वी	२८	२८	२८	२८
१३	प्रभ्यक्त्व	२७	२७	२७	२७
१४	अहारिक	२८	२८	२८	२८
१५	गुणस्थान	१४	१४	१४	१४
१६	जीव भद्र	१४	१४	१४	१४
१७	पर्याप्ति	१५	१५	१५	१५
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०
१९	उक्ता	५४	५४	५४	५४
२०	उपयोग	२५	२५	२५	२५
२१	उटी	२५	२५	२५	२५
२२	हम	१५	१५	१५	१५
२३	शरीर	५७	५७	५७	५७
२४	द्वा	५७	५७	५७	५७

भव्य और सन्नी द्वार ११-१२.

मं.	द्वार	भव्य	अभव्य	सन्नी	असन्नी
१	गति	४	४	४	४
२	हान्त्रिय	५	५	११	५
३	काय	६	६	१५	६
४	योग	१५	१५	१५	१५
५	वेद	३	३	२५	७
६	कषाय	२५	२५	२५	२५
७	ज्ञान	८	८	७	७
८	सयम	७	७	७	७
९	दर्शन	४	४	६	६
१०	लेश्या	६	६	६	६
११	भव्य	२	अपना	२	२
१२	सन्नी	२	अपना	२	अपना
१३	सम्यक्त्व	७	७	७	२
१४	अहारिक	२	२	२	२
१५	गुणस्थान	१४	१४	१२	१२
१६	जीवभेद	१४	१४	१२	१२
१७	पर्याप्ति	६	६	६	६
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०
१९	संज्ञा	४	४	४	४
२०	उपयोग	२	२	२	२
२१	द्रष्टी	३	३	३	३
२२	कर्म	८	८	८	८
२३	शरीर	५	५	५	५
२४	हेतु	५७	५७	५७	५७
			५५		५६

आहारिक द्वार १४ प्राण द्वार ३८

अनुक्रम	द्वार	तदात्	अवात्	इंद्रिय	स्पृहात्	मूल	वर्ण
१	गताद्वार	४	४	४	४	४	४
२	इन्द्रीय	५	५	५	५	५	५
३	काय	१५	१५	१५	१५	१५	१५
४	योग	१५	१५	१५	१५	१५	१५
५	वेद	२५	२५	२५	२५	२५	२५
६	कृपाय	२५	२५	२५	२५	२५	२५
७	ज्ञान	७	७	७	७	७	७
८	संयम	७	७	७	७	७	७
९	दर्शन	७	७	७	७	७	७
१०	लेश्या	७	७	७	७	७	७
११	भव्य	२	२	२	२	२	२
१२	वक्षी	२	२	२	२	२	२
१३	सम्बद्धत्व	७	७	७	७	७	७
१४	आहारिक	२	२	२	२	२	२
१५	गुणस्था १४	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१६	जीवभेद १४	१५	१५	१५	१५	१५	१५
१७	पर्याति	६	६	६	६	६	६
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१९	संज्ञा	८	८	८	८	८	८
२०	उपयोग	८	८	८	८	८	८
२१	हृष्टि	८	८	८	८	८	८
२२	कर्म	८	८	८	८	८	८
२३	शरीर	८	८	८	८	८	८
२४	हंतु	५७	५७	५७	५७	५७	५७

ગુણસ્થાન ડાર ૩૫

નં	દાર	પિલાયા	સાઠ	મિઠા	અવ.	દેખાં	પ્રા	અપ્રા
૧	ગતી	૪	૪	૪	૪	૨	૧	૧
૨	હન્દ્રિ	૫	૫	૫	૫	૧૨	૧૪	૧૪
૩	કાય	૩	૩	૩	૩	૩	૩	૩
૪	ચોગ	૨	૨	૨	૨	૭	૬	૬
૫	વેડ	૩	૩	૩	૩	૩	૩	૩
૬	કપાય	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨
૭	જ્ઞાન	૨	૨	૨	૨	૩	૩	૩
૮	સયમ	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨
૯	દર્શન	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨
૧૦	લેશયા	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨
૧૧	મચ્ય	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨
૧૨	સન્ની	૨	૨	૨	૨	૧૦	૧૦	૧૦
૧૩	ગમ્યકત્ત્વ	૭	૭	૭	૭	૧	૧	૧
૧૪	આદ્ધારિક	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨
૧૫	ગુણસ્થાન	૧૪	૧૪	૧૪	૧૪	૧૦	૧૦	૧૦
૧૬	જીવભદ	૧૪	૧૪	૧૪	૧૪	૧૦	૧૦	૧૦
૧૭	પદ્યાસ્તિ	૬	૬	૬	૬	૧૦	૧૦	૧૦
૧૮	પાણ	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૪	૧૪	૧૪
૧૯	સિંહા	૪	૪	૪	૪	૨	૨	૨
૨૦	ઉપયોગ	૨	૨	૨	૨	૧	૧	૧
૨૧	દૃષ્ટિ	૩	૩	૩	૩	૧	૧	૧
૨૨	કર્મ	૩	૩	૩	૩	૪	૪	૪
૨૩	શરીર	૫	૫	૫	૫	૫	૫	૫
૨૪	હતુ	૫૭	૫૫	૫૫	૫૫	૪૩	૪૦	૪૦

गुण स्थानक द्वार ३५

नं०	द्वार	भिन्नो	प्रनिन्नो	सु०	उप०	जी०	स०	अ०
१८	गती	४	१	१	१	१	१	१
१९	इन्द्रिय	५	१	१	१	१	०	१
२०	काय	६	१	१	१	१	०	१
२१	योग	७	१	१	१	१	०	१
२२	वेद	८	१	१	१	१	०	१
२३	कषाय	९	१	१	१	१	०	१
२४	ज्ञान	१०	१	१	१	१	०	१
२५	संयम	११	१	१	१	१	०	१
२६	दर्शन	१२	१	१	१	१	०	१
२७	लेश्य	१३	१	१	१	१	०	१
२८	भवय	१४	१	१	१	१	०	१
२९	सच्ची	१५	१	१	१	१	०	१
३०	सम्यक्त्व	१६	१	१	१	१	०	१
३१	आहारिक	१७	१	१	१	१	०	१
३२	वणस्पति	१८	१	१	१	१	०	१
३३	जीवभेद	१९	१	१	१	१	०	१
३४	पर्याप्ति	२०	१	१	१	१	०	१
३५	प्राण	२१	१	१	१	१	०	१
३६	सज्जा	२२	१	१	१	१	०	१
३७	उपयोग	२३	१	१	१	१	०	१
३८	द्रष्टा	२४	१	१	१	१	०	१
३९	कर्म	२५	१	१	१	१	०	१
४०	शर्वद	२६	१	१	१	१	०	१
४१	हेतु	२७	१	१	१	१	०	१

जीव भेद धार १६

सं	धार	कु० २	ख० २	घ० २	त० ०
१	गति	४	१	१	१
२	इन्द्रिय	५	१	२	३
३	काय	६	५	१	१
४	योग	१५	३।८	२।३	२।३
५	वेद	३	१	१	२
६	कपाय	२५	२३	२३	२३
७	ज्ञान	५	२	४।२	४।२
८	संयम	७	१	१	१
९	दर्शन	४	१	१	१
१०	लेश्या	६	३	३	३
११	भव्य	२	२	२	२
१२	सञ्ची	२	१	१	१
१३	सम्यक्त्व	७	१	१	१
१४	अहारिक	२	१	१	१
१५	शुण्णस्थान	१४	१	१	१
१६	जीवभेद	१४	१	१	१
१७	पर्याप्ति	६	३।४	४।५	४।५
१८	प्राण	१०	३।४	४।६	६।७
१९	सङ्का	४	४	४	४
२०	उपर्योग	२	२	२	२
२१	द्रष्टी	३	१	१	१
२२	कर्म	८	८	८	८
२३	शरीर	५	३।।	३।४	३
२४	देतु	५७	३६	३७।४०	३८।३८

जीव भेद

नू	प्रार.	चौं ० ३ अ०५ अ०७ अ०९०४	प्राप्ति. नू०५०८०
१	मती	४	४
२	इन्द्रिय	५	५
३	काय	५	५
४	योग	९५	९५
५	वेद	२५	२५
६	कृपाय	२५	२५
७	ज्ञान	१०	१०
८	संयन	२३	२३
९	दर्शन	८	८
१०	लेरया	२	२
११	भवय	२	२
१२	छन्नी	७	७
१३	सम्ब्रक्तव	२	२
१४	आहारिक	२	२
१५	गुरुस्थान	१४	१४
१६	जीवभेद	१४	१४
१७	पर्याप्ति	६	६
१८	प्राण	१०	१०
१९	संज्ञा	४	४
२०	उपयोग	४	४
२१	द्रष्टी	२	२
२२	कर्म	२	२
२३	शरीर	२	२
२४	हेतु	१	१
२५		१	१
२६		१	१
२७		१	१
२८		१	१
२९		१	१
३०		१	१
३१		१	१
३२		१	१
३३		१	१
३४		१	१
३५		१	१
३६		१	१
३७		१	१
३८		१	१
३९		१	१
४०		१	१
४१		१	१
४२		१	१
४३		१	१
४४		१	१
४५		१	१
४६		१	१
४७		१	१
४८		१	१
४९		१	१
५०		१	१
५१		१	१
५२		१	१
५३		१	१
५४		१	१
५५		१	१
५६		१	१
५७		१	१
५८		१	१
५९		१	१
६०		१	१
६१		१	१
६२		१	१
६३		१	१
६४		१	१
६५		१	१
६६		१	१
६७		१	१
६८		१	१
६९		१	१
७०		१	१
७१		१	१
७२		१	१
७३		१	१
७४		१	१
७५		१	१
७६		१	१
७७		१	१
७८		१	१
७९		१	१
८०		१	१
८१		१	१
८२		१	१
८३		१	१
८४		१	१
८५		१	१
८६		१	१
८७		१	१
८८		१	१
८९		१	१
९०		१	१
९१		१	१
९२		१	१
९३		१	१
९४		१	१
९५		१	१
९६		१	१
९७		१	१
९८		१	१
९९		१	१
१००		१	१
१०१		१	१
१०२		१	१
१०३		१	१
१०४		१	१
१०५		१	१
१०६		१	१
१०७		१	१
१०८		१	१
१०९		१	१
११०		१	१
१११		१	१
११२		१	१
११३		१	१
११४		१	१
११५		१	१
११६		१	१
११७		१	१
११८		१	१
११९		१	१
१२०		१	१
१२१		१	१
१२२		१	१
१२३		१	१
१२४		१	१
१२५		१	१
१२६		१	१
१२७		१	१
१२८		१	१
१२९		१	१
१३०		१	१
१३१		१	१
१३२		१	१
१३३		१	१
१३४		१	१
१३५		१	१
१३६		१	१
१३७		१	१
१३८		१	१
१३९		१	१
१४०		१	१
१४१		१	१
१४२		१	१
१४३		१	१
१४४		१	१
१४५		१	१
१४६		१	१
१४७		१	१
१४८		१	१
१४९		१	१
१५०		१	१
१५१		१	१
१५२		१	१
१५३		१	१
१५४		१	१
१५५		१	१
१५६		१	१
१५७		१	१
१५८		१	१
१५९		१	१
१६०		१	१
१६१		१	१
१६२		१	१
१६३		१	१
१६४		१	१
१६५		१	१
१६६		१	१
१६७		१	१
१६८		१	१
१६९		१	१
१७०		१	१
१७१		१	१
१७२		१	१
१७३		१	१
१७४		१	१
१७५		१	१
१७६		१	१
१७७		१	१
१७८		१	१
१७९		१	१
१८०		१	१
१८१		१	१
१८२		१	१
१८३		१	१
१८४		१	१
१८५		१	१
१८६		१	१
१८७		१	१
१८८		१	१
१८९		१	१
१९०		१	१
१९१		१	१
१९२		१	१
१९३		१	१
१९४		१	१
१९५		१	१
१९६		१	१
१९७		१	१
१९८		१	१
१९९		१	१
२००		१	१
२०१		१	१
२०२		१	१
२०३		१	१
२०४		१	१
२०५		१	१
२०६		१	१
२०७		१	१
२०८		१	१
२०९		१	१
२१०		१	१
२११		१	१
२१२		१	१
२१३		१	१
२१४		१	१
२१५		१	१
२१६		१	१
२१७		१	१
२१८		१	१
२१९		१	१
२२०		१	१
२२१		१	१
२२२		१	१
२२३		१	१
२२४		१	१
२२५		१	१
२२६		१	१
२२७		१	१
२२८		१	१
२२९		१	१
२३०		१	१
२३१		१	१
२३२		१	१
२३३		१	१
२३४		१	१
२३५		१	१
२३६		१	१
२३७		१	१
२३८		१	१
२३९		१	१
२४०		१	१
२४१		१	१
२४२		१	१
२४३		१	१
२४४		१	१
२४५		१	१
२४६		१	१
२४७		१	१
२४८		१	१
२४९		१	१
२५०		१	१
२५१		१	१
२५२		१	१
२५३		१	१
२५४		१	१
२५५		१	१
२५६		१	१
२५७		१	१
२५८		१	१
२५९		१	१
२६०		१	१
२६१		१	१
२६२		१	१
२६३		१	१
२६४		१	१
२६५		१	१
२६६		१	१
२६७		१	१
२६८		१	१
२६९		१	१
२७०		१	१
२७१		१	१
२७२		१	१
२७३		१	१
२७४		१	१
२७५		१	१
२७६		१	१
२७७		१	१
२७८		१	१
२७९		१	१
२८०		१	१
२८१		१	१
२८२		१	१
२८३		१	१
२८४		१	१
२८५		१	१
२८६		१	१
२८७		१	१
२८८		१	१
२८९		१	१
२९०		१	१
२९१		१	१
२९२		१	१
२९३		१	१
२९४		१	१
२९५		१	१
२९६		१	१
२९७		१	१
२९८		१	१
२९९		१	१
३००		१	१

पर्याप्ति द्वारा १७-१८-१९-२०

नू	द्वार	पर्याप्ति	भावात	समय	लक्ष्य	ट्रायलेट
१	गोदी	४	४	४	४	४
२	इन्ड्रि	५	५	४	५	५
३	वाम	६	६	२	१	५
४	योग	१५	१५	१५	१५	१५
५	बद्र	३	३	३	३	३
६	दपाय	२५	२५	२५	२५	२५
७	हात	११	११	८	८	८
८	खदम	७	७	७	७	७
९	दशन	४	४	४	४	४
१०	लेश्या	२	२	२	२	२
११	भव्य	२	२	२	२	२
१२	सूची	२	२	२	२	२
१३	सम्यकत्व	७	७	७	७	७
१४	आहारिक	२	२	२	२	२
१५	गुणस्थान	१४	१४	१४	१४	१४
१६	जीवभेद	१४	१४	१०	१	१०
१७	पर्याप्ति	६	भवनी	अवनी	अवनी	अवनी
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०	१०
१९	सज्जा	४	४	४	४	४
२०	वपयांग	२	२	२	२	२
२१	द्रष्टी	३	३	३	३	३
२२	कर्म	८	८	८	८	८
२३	शरीर	५	५	५	५	५
२४	हेतु	५७	५७	५७	५७	५७

हृषी-कर्म-शरीर द्वार २१-२२-२३

नं०	द्वार	स०	मि०	मिश०	कर्मद	अ० ते.को.	वै०	अहा०
१	गती	४	४	४	४	२-४	५	१
२	इन्द्रीय	४	५	१	५	५	२	१
३	काय	१	६	१	६	२	२	१
४	योग	१५	१२	१०	३	१५	१०	१०
५	वेद	२३	३	३	३	२५	२७	२५
६	कपाय	२१	२४	२१	२४	२८	४	१३
७	ज्ञान	५	५	५	५	२	२	१४
८	संचम	७	९	९	७	७	७	१४
९	दर्शन	७	९	९	७	७	७	१४
१०	लेश्या	६	६	६	६	२	२	१४
११	भव्य	९	२	२	२	२	२	१४
१२	सन्नी	२	२	२	२	२	२	१४
१३	सम्यक्त्व	५	२	२	२	२	२	१४
१४	अहारिक	२	१	१	१	१	१	१४
१५	गुण	१२	१६	१६	१४	१४	१०	१०
१६	जीव	६	६	६	६	६	६	१०
१७	पर्याप्ता	६	६	६	६	६	६	१०
१८	प्राण	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१९	संज्ञा	४	४	४	४	४	४	१०
२०	उपयोग	२	२	२	२	२	२	१०
२१	दृष्टि	अ०	अ०	अ०	अ०	अ०	५	५
२२	कर्म	८	८	८	८	८	५	५
२३	शरीर	५	५	५	५	५	५	५
२४	हेतु	४६	४५	४३	४३	५७	५७	२१
						अपना	अपना	अपना
						५७	५२	२१

हेतु द्वार २४

न०	द्वार	सिध्यात्म ५	अनुच्छ १२	कपाय ८८	योग १५
१	गती	४	४	४	
२	इन्द्रिय				
३	काय				
४	योग				
५	मेद				
६	कपाय	२५	११	२५	
७	ज्ञान				
८	संयम				
९	दर्शन				
१०	लेश्या				
११	भव्य				
१२	संत्री				
१३	सम्यक्त्व				
१४	अहारिक	२	२		
१५	गुणस्थान	१४			
१६	जीव भेद	१४			
१७	पर्याप्ति				
१८	प्राण	१०	१०		
१९	सद्ग	२	२		
२०	उपयोग				
२१	दृष्टि				
२२	कर्म				
२३	शरीर				
२४	तु	५७	५५	५५	५५

योग द्वार से है।

धोकड़ा नं० २

कहुप्रूत—प्रश्न वाशटीयो

नं०	सर्वणि	जीव	गुण०	चेत	उप०	करया
१	वासुदेवकि आगति में	१	४	१०	७	४
२	हाश्वादि समहष्टि	६	५	१५	७	८
३	अब्रती मन योगी में	९	३	१२	८	८
४	एकान्त सज्जी समहष्टि अब्रती	२	२	१३	७	८
५	अप्रमत्त हाश्वादि	१	१	११	३	८
६	तेजुलेसी एवेंट्री	१	१	१२	३	८
७	अमर गुणस्थान में	१	१	१०	१०	८
८	अमर गु० छद्मस्थ	१	१	१०	१०	८
९	अमर गु० चमन्ति	१	१	११	११	८
१०	यथात्त चा० संयोगी	१	५	८	८	८
११	गुणस्थान के चमन्ति में	१	४	५	५	८
१२	सचोर्गी गु०	१	४	१३	१०	८
१३	छद्मस्थ गु०	१	४	१३	१०	८
१४	सक्षपाय गु०	१	४	१३	१०	८
१५	सबेदी गु०	१	४	१४	७	८
१६	ब्रती छद्मस्थ गु०	१	५	१४	७	८
१७	अप्रमत्त छद्मस्थ०	१	१	११	७	८
१८	हासादि सबति	१	१	१४	७	८
१९	हासादि अप्रमत्त	१	१	११	७	८
२०	ब्रती सक्षपाय	१	१	१४	७	८
२१	ब्रती सबेदी	१	१	१४	७	८
२२	ब्रती छद्मस्थ	१	१	१४	७	८
२३	नष्टहष्टि सबेदी	१	१	१५	७	८
२४	सप्तहष्टि सक्षपाय	१	१	१५	७	८
२५	वाट वहे ता जीव में	१	१	१०	१०	८

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सञ्चम्

जाहेर खबर १

— : —

निवेदन है कि अगर आप लोग स्वल्प परिश्रम द्वारा जैसे सिद्धान्तों का तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हों तो इन पुस्तकों को अवश्य पढ़िये वहोत कम नकले मिलक में हैं।

शीघ्रोध अथवा थोकड़ा प्रबन्ध भाग १—२—३—४—५—६—७—८—९—१० उन्हीं दश भागों में कुल थोकड़ा ११५ हैं छपाने का खरचा रु० २।) होने पर यी ज्ञानवृद्धि के लिये किसत रु० १ रखा है जल्दी गंगा लीजिये।

हिन्दी टैप अच्छा बहिया कागज सुन्दर टाइटल भय तीन निरीमा लेखोंका उत्तर सहित कागद, हुन्डी, पेट, परपेट, और मगाड़ नामों किसत आठ आना

द्रव्याणुगोग ग्रथप प्रवेशिका	}
नन्दी शुत्र मूलपाठ	
दशवकालिक सुत्र मूलपाठ	

डाक खर्ची आने पर
तीनों किताबों भेट
बेजी जावेगा

पुस्तकोंकी आवादानी से अन्य पुस्तकों का पाइ जाती है

पत्ता—

श्री इत्तमाकर ज्ञान पुष्पमाला

रु० ५ फलोधी—सारबाह

जिला जोधपुर,

॥ श्री सद्गुरुमो नम ॥

श्रीमत्त्रभयदेव सूरियंथमाला

का

प्रथम गुच्छक
नित्य स्मरण पाठमाला

श्रीओआ ००६ आ जगम युग प्रशान भट्टारक
गुह्य गरनर जनाचाय श्रीजिन चारिन
सूरिजी महाराजक उपदेशमे
सहायक—

श्रीषक्त रावतमलजी भैस्हदानजी हाकिम कोठारि

प्रकाशक —

१० वालनन्दयनि पर पचास शाश्वत
तिगमणि त्रि शाश्वत रापतीण

कलकत्ता ।

मृत्य

(प्रथम खार) प्रमसदित पाठ करना सवत् १३३
श्री मरा २५० मन १२०



निवेदन ।

प्यारे सहवर्मी भाइयो बहुत दिनोंसे इस बातकी अभिलापा थी कि समाजमें किसी तरहसे धर्मका प्रचार बढ़े, और अपने धर्मके तत्वोंको, धर्मके गहन विषयोंको समझें, यह विषय इतना कठिन है याने इतना मुश्किल है कि जबतक कोई अपनि धार्मिक पुस्तकें न प्रकाशन होय तबतक (Public) सर्वसाधारण भाइयोंको यह बात नहीं मालूम हा सकति है कि हम लोगोंके नित्य कर्म क्या हैं, हमारेको प्रात कालमें क्या करणा चाहिये, अस्तु, इसि अभिलापाको पूर्ण करनेके लिये और उन्नतिका समय भी नजदीक आ जानेके सबव विकानेरके खरतर जैनाचार्य जगम जुग प्रधान भट्टारक श्रीजिन चारित्र सूरजी महाराजका शुभागमन इस कलकत्ता महानगरिमें हुआ, और साथहि श्रीजि महाराजसे इस विषयमें बातचीत हुई आपने सर्व श्रावकों को उपदेश दिया और सब श्रावकोंने यह निश्चय किया कि श्री अमयदेवसूरि ग्रथमालाके नामसे पुस्तकें प्रकाशितकर सबको फायद पहुंचाया जाय, उसि घरत श्रीयुक्त रावतमलजी भैरुदानजी हाकिम कोठारिने अपनि यह इच्छा प्रकट कि जो ग्रथम पुस्तकम खरच लगे वह म देनेको सहर्ष तैयार हू, यह ग्रथमालाका ग्रथम शुच्छ सबके सम्मुख उपस्थित है, इसम यही विषय है कि श्रावक श्राविका घरेह सब कोई सर्वे दोपहर सध्या कालमें साफ शुद्ध कर्पटे पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा कि तरफ मुह करके बैठे और एकाग्रचित्तमे पाठ करे जिसके प्रभावमें धर्म जाति रहे रोग शोक सब उपद्रव दूर हो जाय । म अपना परिथम तबही सफल समझूगा कि सर्व सज्जन इसमे फायदा उठाव । साधही धर्म पाठ हस्त लिखित पुस्तकोंमें तरह

तरहकं पाठांतर होनेसे यह टीक पता नहीं लगता की कौनसा पाठ टीक है इसलिये इसमें जो पाठाफेर रहा हो और दृष्टिके दोषमें जल्दीमें शूफ देखनेमें जो अशुद्धियें रह गई हों उसे पाठकवर्ग सुधार कर पढ़ें, और उनका मैं बहुत रुतब होऊंगा कि पत्र ढारा या मिलकर मेरि गलितयां मुजे दिखलावेगे जिससे वह अशुद्धियां भविष्यमें सुधार दी जाय श्रीशुभम् ॥

निवेदक—

पं० वालचन्द्रयति, जे० वी० के टी० ।

नोट—ग्रंथमालाका दूसरा गुच्छ गार्हस्थ्य-जीवन-रहस्य बहुत ही शीघ्र पाठकोकी सेवामें उपस्थित किया जायगा । इसमें बहुतही उपयोगी बातें लिखी गई हैं ।

निपानुकमणिका ।

संख्या	नाम	पत्र संख्या
१	नदकार मन्त्र	१
२	(सप्त स्मरण) अजिथजिय प्रथम	
"	स्मरणम् ।	१२
३	लघुअभितशाति छितीय स्मरणम्	५
४	नमिऊण नामक तृतीय स्मरणम्	७
५	गणधरदेव स्तुति चतुर्थ स्मरणम् -	८
६	गुरुपारतत्र नामक पचम स्मरणम्	१०
७	षष्ठि स्मरणम्	१२
८	उद्यसगाहरनामक सप्तम स्मरणम्	१३
९	श्रीभक्तामर स्तोत्र	१३
१०	श्रीतुद्गगाति	१७
११	श्रीजिन पजर स्तोत्र	२०
१२	श्रीमूर्यिमडल स्तोत्र	२२
१३	श्रीगौटिपाश्वर्जीस्तापन (वाणि ग्रहा)	२४

नोट——सप्तस्मरण निष्ठा पढ़ना (वाणि ग्रहा) रात्रीका पढ़ना आर सब प्रात कालमें पाठकरना । श्री फल्याणमस्तु ।

पुस्तक मिलनेका ठिकानाः—

श्री जैनध्येतावरमित्र मण्डप न०, २१ कैरिंगस्ट्रीट

कलकत्ता ।

दूसरा पता —

बड़ाउपासता । राघडी चौक श्रीपूज्यजी महाराजके पास,
बिकानेर ।

॥ अथ नित्यस्मरण पाठ ॥

॥ अथ नवकार मन्त्र ॥

गृहो अग्निहताण ॥१॥ गृहो सिद्धाण ॥२॥ गृहो आयरियाण ॥३॥
गृहो उद्यज्ञायाण ॥४॥ गृहो लाण मांपसाहृण ॥५॥ एसो पच
गृहुकारो ॥६॥ स पराप्रभ्यामणो ॥७॥ मगलाण च म रेभि ॥८॥
पठम हवद मगल ॥९॥ इति ॥

॥ अथ सप्त स्मरणानि प्रारम्भते ॥

॥ तत्र प्रथम ॥

॥ श्री वृहदजिनशातिस्मरण लिख्यते ॥

॥ अजिग्र जिग्रसन्नभय, सर्ति च पमत मन्त्रगयपाय ॥ जयगुरु
सति गुणाकरे, दायि जिण परे पण्डित्यामि ॥१॥ गाहा ॥ नवगय
मगुल भारे, तेह चिडल तपनिम्मल सहावे ॥ निर्मम महृष्यमावे,
थोमामि सुद्धिं सभ्मावे ॥२॥ गाहा ॥ नव दुरक षस्तीण, मन्त्र
पावणमतिण ॥ सथा अजिय सतीण, नमो अजिग्र सतिण ॥३॥
सिलोगा ॥ अजिय जिण सुहृष्पन्तण, तप पुरिसुत्तम नामदित्तण ॥
तहय धिड मड प्पत्तण, तपय जिणुत्तम मतिदित्तण ॥४॥ मा
गहिआ ॥ किरिआरिहि मन्त्रिग्र घम्म किलेमपिमुग्गयर, अजिग्र
निचिग्र च गुणेहि महामुणि सिद्धिगय ॥ अजिग्रस्म य मति महा
मुणिणाविग्र मतिकर, भयय मम निन्दुह धारणाय च नमस्त्रय ॥५॥

आर्लिंगगायं ॥ पुणि सा जड दुर्गकवारगां जटश्च विमग्नाह मुरककारगां ॥
 अजित्र्यं संति च भावउ, अभयकरं सरगां पवज्जहा ॥ ६ ॥ मागहिआ ॥
 अरद रइ तिमिर विरहिआ मुवरय जरमररण, सुर असुर गहल मुयगवइ
 पथय पणिवद्धां ॥ अजित्र्य महगविआ सुनय नय निउणमभयकरं
 गरणमुवमरित्रा शुनि दितिज्ञमहिआ भयय मुवगां ॥ ७ ॥ मंगथयं ॥
 तंच जिएउत्तम मुन्तम निज्ञम सन्तधरं श्रज्ञव महव खंतिविमुनि भमाहि
 निहि ॥ संतिअरं पणमामि दमुन्तमनित्ययरं, संति मुर्णा भम संति
 भमाहिवरं दिसउ ॥ ८ ॥ सोवाण्यं ॥ मावमियपुव्वपतिथिवं च वरहन्ति
 मथय पसन्त विल्यन्न संथित्र्यं थिर सरित्य वन्थं मयगल लीलाय-
 माण वर गंध हन्ति पन्थाण पतिथिवं संथवागिहं हतिहन्त्य वाहुं
 ध्रेतकणग रुथग, निरुवहय पिंजरं पवर लरकणो वचिअ सोमम चारु
 फ्लवं सुइ सुहमणामिराम परम रमणिज वरदेव दुंदुहि निनाय महुरयर
 सुहगिरं ॥ ९ ॥ वेढओ ॥ अजित्र्यं जिआगिराण, जित्र्य सव्वभयं भवो
 हरिउ ॥ पणमामि अहं पयओ, पावं पसमेड मे भयवं ॥ १० ॥
 रासालुद्धओ ॥ कुरु जणवय हतिण्णाउर नरीसरो पढमं तओ महाचक्रच
 द्विभोए महणभावो जो वावत्तरि पुरवर सहस्स वर गणगर णिगम
 जणवयवई वन्तीसारायवर सहस्साणुजाय मग्गो चउदस वर रथण
 नव महानिहि चउसडि सहस्स पवर जुवईण सुंदर वई चुलसी हय
 गय रह सय सहस्स सामी छन्नवइ गामं कोडि सामी आसिज्जो
 भारहंमि भयवं ॥ ११ ॥ वेढओ ॥ तं संति संतिकरं, संतिन्नं सव्व भया ॥
 संति थुणामि जिण, संति विहेउमे ॥ १२ ॥ रासानंदियं ॥ इरकागु
 विदेह नरीसर, नरवसहा मुणिवसहा ॥ नव सारय ससि सकलाणण,
 विगय तमा विहुअरया ॥ अजिउत्तम तेअ गुणेहि महामुणि, अमिय
 वलाविउल कुला ॥ पणमामि ते भवभय मूरण, जग सरणा भम
 सरणं ॥ १३ ॥ चित्तलेहा ॥ देव दाणविंद चंद्र सूरवंद हङ्ग तुङ्ग जिष्ठ
 परम, लङ्ग रुव ध्रेत रुप पट्ट सेअ सुङ्ग निझ्द धवल ॥ दंतपंति संति

भति किति मुति जुति गुति पर, द्रित्त तअरिदंगेश्च भव्य लोअ
 भापिअप्पमापणेय पद्ममे नमाहि ॥ १४ ॥ नारायना ॥ विमल
 मणिकलाइरेयसोम, पितिमिरमूर कलाइरेश्च तेश्च ॥ तियसवद्दग
 णाइरेय रुप, वरणिधर प्पवराइरेत्त्र सार ॥ १५ ॥ कुमुमलया ॥ सत्त
 य सया अजिश्च, सार्वर अबले अजिश्च ॥ तव सजमेय अजिश्च एस
 थुणामि जिण मजिश्च ॥ १६ ॥ भुञ्चगपरिरिंगिश्च ॥ सामगुणोहि
 पावद् न त नवमरय नसी, तेय गुणहि पावद् न त नवसरय रघी ॥
 स्त्रगुणाहि पावद् न त तिग्रम गणवद्, सारगुणाहि पावद् न त धरणि
 धरपदे ॥ १७ ॥ खिजियय ॥ निष्ठवर पत्तय तमरयरहिश्च, धीर
 जणयु अधिश्च चुअ कलिकलुम ॥ सतिसुहप्पत्तय तिगणण पयभ्रा,
 सतिमह महा मुणि भरण मुवणमे ॥ १८ ॥ जलिश्चय ॥ विणाओणय
 सिर रह अजलि, रिसिगण सुअ थिमिश्च ॥ वितुहारिव धणवद्
 नरवद्, तुअ महियश्चिश्च वह्ना ॥ आइ रगय सरय द्रिवायर, समहिश्च
 मणम तधमा ॥ गयणगण विहरण ममुडय, चारण गदिश्च
 मिरमा ॥ १९ ॥ किसजयमाला ॥ असुर गर्व परियनिश्च, किन्नरोरग
 नमसिश्च ॥ देव काडिमयमयुश्च, ममणसप परिशद्विश्च ॥ २० ॥
 सुमुह ॥ अभय अणह अरय अरय ॥ अजिश्च अजिश्च पयभ्रा
 पणमे ॥ २१ ॥ पिज्जुविलभिश्च ॥ आगयापर विमाण, दिव्य कण्ण
 रह तुरय पहकर सर्पह हुलिश्च ॥ सप्तममो गयण दुभिश्च, लुलिश्च
 चल कुडल गय निरीड माहत मउलिमाला ॥ २२ ॥ नेढग्रा ॥ ज
 मुरसगा सासुर सगा वर विज्ञा भति सुजुत्ता, आयर भूसिय
 सभमपिडिश्च सुठुसुविलिय सब्बवलोधा ॥ उत्तम कचण रयण
 पहविश्च भासुर भूसण भासुरिश्चगा, गायसमोणय भत्तिवमागय
 पजलिपेसिश्चसीम पणमा ॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ विऊण्याऊणता
 जिण, तिगुणमेय पुण्यापयाहिण ॥ पणमिझणय जिण सुरासुर,
 पमुझ्चा सभवणाइता गया ॥ २४ ॥ खित्तय ॥ त महामुणिमहपि

पंजलि, राग दोस्त भय मोह वन्निअं ॥ देवदाणव नरिंद्र वंदिअं, संति
 मुत्तम महातवं नमे ॥ २५ ॥ 'खित्तयं ॥ अंवरंतरविवारणिआहिं,
 ललिअ हंस वहुगामिणियाहिं ॥ पीण सोणिथण सालणिआहिं,
 सकल कमल ढललोआणिआहिं ॥ २६ ॥ दीवयं ॥ पीण निरंतर
 थणभरविणमिय गायत्नयाहिं, मणिकंचण पसिदिलमेहल सोहिअ
 सोणितडाहिं ॥ वर्गस्खिणिनेडर सतिलय वलय विभूमणियाहिं,
 इकर चउर मणोहर सुंदर दंसणियाहिं ॥ २७ ॥ चित्तरकरा ॥
 देवसुंदरीहिं पाय वंदिआय वंदिआय जस्स ते सुविक्रमाकमा अप्पणा
 निडातएहिं मंडणोहुणप्पगारणहिं केहिं केहिंवी अवंगतिलय पत्तलेह
 नामपहिं चिलएहिं संगयं गयाहिं भत्ति सन्निविड वंदणागयाहिं हुंति
 ते वंदिआ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ ॥ तमहं जिणचंदं, अजिअं
 जिअमोहं ॥ धुअसञ्चक्लेसं, पयओ पणमामि ॥ २९ ॥ नंदिअयं ॥
 थुअवंदिअस्सागिसिगण देवगणेहिं, तो देव वहृहिं, पयओ
 पणमिययस्सा ॥ जस्स जगुत्तमसासणयस्सा, भत्तिवसागयपि-
 डिअयाहिं ॥ देव वरच्छरसा वहुआहिं, सुरवररझुण पंडिअया
 हिं ॥ ३० ॥ भासुरयं ॥ वंस सह तंति ताल मे लिए तिउरकरामिराम
 सहमीसए कए अ, सुइसमाणणेओ सुद्ध सज्ज गीअ पाय जालधं
 ठिआहिं ॥ वलय मेहला कलावनेउरामिराम सह मीसए कए य
 देवनहिआहिं ॥ हाव भाव विभमप्पगारणहिं नच्चिउणअंग हारणहिं
 वंदिआय जस्स ते सुविक्रमाकमा ॥ तयं तिलोय सध्व सत्त संति-
 कारयं पसंत सध्व पाव दोस मेसहं नमामि संतिमुत्तमं जिणं ॥ ३१ ॥
 नारायओ ॥ कृत्त चामर पडागजूअ जब मंडिआ, झयवर मगर
 तुरण सींह सिरि बच्छ सुलंकणा ॥ दीव समुद्र मंदरदिसागयसोहिआ,
 सन्थिय वसह सीहसिरिवच्छसुलंकणा ॥ ३२ ॥ ललिअयं ॥ सहावलड्हा
 समप्पयड्हा, अद्वेस ढुड्हा शुणेहि जिड्हा ॥ पसायसिड्हा तवेण पुड्हा,
 सिरीहिं इड्हा रिसीहिं जुड्हा ॥ ३३ ॥ वाणवासिआ ॥ ते तवेण धुअ

सार पावया, सञ्चलोगहिंश मूल पावया ॥ सथुआ अजियसंति
 पायया, होनु मे सिव सुहाणदायया ॥ ३४ ॥ अपरतिका ॥ एव
 तत्र बल प्रिउल, युअ मण अजिग्र सति जिणन्नुयल ॥ बबगय कम्म
 रयमल, गइ गय सासय विमल ॥ ३५ ॥ गाहा ॥ त बहुगुणप्पसाय,
 मुरक सुहेण परमेण अप्रिसाय ॥ नासेड मे प्रिसाय, कुण्डश्च परि
 मापिग्र प्पमाय ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ त माएउ श्र नदि, पावेउग्र नदिमेण
 मभिनदि परिसाइवि मुहन्दिं, ममय दिसउ सजमे नदिं ॥ ३७ ॥
 गाहा ॥ परिक्र चाउम्मासे, सवच्छ्र राईएग्र दिग्रहेष्ट्र ॥
 माओ चो मध्वेहिंपि, उवसग्ग निगारणा एमा ॥ ३८ ॥ जा पढइ जाअ
 निसुण्ट, उमओ भालपि अजिय सतिथय ॥ न हुति तस्स रोगा,
 पुउप्पना विनामति ॥ ३९ ॥ जइ इन्द्रह परम पय, अहवा कित्ति
 सुगित्यड भुवणे । ता तेलु झुद्धरण, जिणप्रयणे आयर कुणह ॥४०॥
 इति श्रीगृहद जितशातिस्तवन प्रथमस्मरणम् ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीय लघु अजितशातिस्मरणम् ॥

उत्त्वासिङ्गमनरक निगायपहा दुर्द्वलण गिण, वदा रुण दिसत
 इन पयड निगाणम गावर्लि ॥ कुर्दिंदुज्जल दतकति मिसओ नीह त
 नाणकुर्ल, केरे दोपि दुर्ज्जल मालस जिणे थासामि खेमकरे ॥ १ ॥
 चरम जलहिनीर जामिणिज्जा जलीहि, खय समय समीर जो जिणिज्जा
 गईए ॥ सयज नहय लधा लधण जा पणहि, अजिय महव सर्ति सा
 समथा धुणेउ ॥ २ ॥ तहरिहु बहुमाणु ल्लासभतिभरण, गुण
 कणमिविकित्ते हामि चितामणि दृ ॥ अलमहव अचिता णतमाम-
 त्यओसिं, फलिदै लहु माश वद्विश्र यिन्द्रिग्र मे ॥३॥ सयलजयहिग्राण
 नामविसेण जाण, गिट्ठै लहु दुष्टा निद्राघट्ठह । नमिदुसुर विरीडू
 ग्यहु पायार्चिद, सयय मजिश सती त जिणदभिगदे ॥ ४ ॥ पसरइ

वर्णकिती वहूए देहदिती, विलमइ भुवि मिती जायए सुप्पविती ॥
 कुरइ परमतिती होइ संसारदिती, जिणजुअ पयभती हीअ चिंतोख-
 सती ॥ ५ ॥ ललिअपयपयारं भूरिदिव्यंगहारं, कुडघणरसभावो
 दारसिंगारसारं ॥ अणमिसरमणीज्ञ दंसगच्छे अभीया, इवपुणमणि
 वंधा कासि नद्वोवयारं ॥ ६ ॥ थुणह अजिअसंती ते कया सेस संति,
 कणयरथपसंगा द्वज्ञए जाणिमुती ॥ सरमसपरिंसा रंभिनिव्वाण-
 लच्छी, घणथणघुसि गिंकु पंकपिंगीकयव्व ॥ ७ ॥ वहुविहनयभंगं
 वत्युणिच्चं अगिच्चं, सद्सद्गमिलप्पा लप्पमें अगोंगं ॥ इय कुनय
 विहूङ्ग सुप्पसिद्धं च जेसिं, वथण मवय गिज्ञं ते जिगो संभरामि ॥ ८ ॥
 पसरइ तिय लोए ताव मोहंधयारं, भमइ जय मसनं तावभिच्छत्तद्वन्नं
 कुरइ कुडफलंता गंतगाणं सुपूरो, पयड मजियसंती भाण सूरो न
 जाव ॥ ९ ॥ अरि करि हरि तिगह गह्यु चाराहिवाही, समर, डमर
 मारी रुह खुदोवसगा ॥ पलय मजिअसंती कित्तणे भत्तिजंती,
 निविडतरतमोहा, भरकरालुंगिअव्व ॥ १० ॥ निविड्रुटिअदारु
 दित्तभाणगिजाला, परिगय मिव गोरं, चिंतिअं जाण रुवं ॥ कणय
 निहसरेहा कंतिचोरं करिज्ञा, चिरथिर मिह लच्छ गादसंथमिअव्व
 ॥ ११ ॥ अडविनिव डियाणं पथिवुत्तासिआणं, जलहि लहरि हीरं त्राण
 गुति डियाणं ॥ जलिअ जलण जाला लिंगिआणं च भाणं, जणयइ
 लहु संति संतिनाहा जिआणं ॥ १२ ॥ हरि करि पंरिकिरहं पक्क पाइक-
 पुन्नं सयलपुहवि रज्जं द्विउं आण सज्जं ॥ तण मिवपडिलगं जेजि
 णामुत्तिमगं, चरण मणुपवना हुंतु ते मे पसन्ना ॥ १३ ॥ ड्राणससि-
 वयणाहिं कुल्लनितुप्पलाहिं, थणभरनमिरीहिं मुहिगिज्ञोदरीहिं ॥
 ललिअ भुञ्जलयाहिं पीण सोणित्यलिहिं, सयसुर रमणीहिं वंदिआ
 जेसि पाया ॥ १४ ॥ अरिस किडिमकुह गंडि कासाइसार, खय जर
 वण लूआ साससोसोदराणि ॥ नहमुह दसगच्छी कुच्छिकश्चाइरोगे,
 मह जिणजुअ पाया सुप्पसाया हर्तु ॥ १५ ॥ इथ गुरुहता से परिकष

चाउमासे, जिग्रग्र दुग्धुन्त रथरे गा पवित्र । पढ़ह मुण्ड मिर्का पह
झाएह चित्ते, कुण्ड मुण्ड जिग्र जेण गाएह सिन्ध ॥६॥ इय विजया
जियस्तुपुत्र मिरिश्चित्तियजिग्रेमर, तह अदराप्रिससेगा तगाय पचम
चक्रीमर ॥ निथकर मालमम मनि जिग्रप्रलह मनश्च, कुरु मगल
मर हरसुदुरियमखिलपि धुमतह ॥७॥ ननि श्री लघु अजित
ग्रातिमरा द्विनीय म्मरणाम् ॥ २ ॥

॥ अथ नमिऊणनामक तृतीय स्मरणम् ॥

। नमिऊण पगाय मुरगण, चूडामणि किरणारजिश्च मुण्डिणा ॥
चलणज्ञुअल महाभय, पणास्तगा मध्य बुन्द्र ॥१॥ मडिय फर
चरण नह मुह, निउड नामा विव्रत लापगणा ॥ उठ महारोगानल,
फुलिंग निहदू सत्त्वगा ॥२॥ ते तुह चलणा राहण, सलिलजलिसेष्ठ
बहूद्य च्छाया ॥ वग दवदा गिरिपायहु त्र, पत्ता पुणो लच्छि ॥३॥
दुव्वाय दुभिय जलनिहि, उभमट कलोल भीसणारावे ॥ समत भय
प्रिसदुल, निज्ञामय मुंकगारो ॥४॥ अपिदलिय जाणपत्ता, दणेण
पावति इन्द्रिय कुल ॥ पाम जिण चलणा ज्ञुअल, निश्चित्तिय जे
नमति नरा ॥५॥ खर प्रणुद्य प्रलद्य, जालापनि मिलिय सयल
दुम गहणा ॥ डजमत मुद्द मिय घहु, भीसणारर भीसणमि घणो ॥६॥
जग गुरणो कमज्ञुअल, निराविय सयल तिद्वुअणामोअ ॥ जे
समरति मणुआ, न कुण्ड जलणो भय तेमि ॥७॥ ग्रिलमत भोग
भीसण, फुरिआरण नयगा तरल जीहाल ॥ उगा भुश्चग नपजलय,
मथह भीसणायार ॥८॥ मर्न्नति कीड सरिम, दूर परिच्छूद प्रिसम
प्रिस घेगा ॥ तुह नामरकर पुडमिड, मन गुरुआ नरा लांए ॥९॥
अट्टीसु भिल तपर, पुर्जिद सद्दूल महमीमासु ॥ भयगिहन्तु वन्न
कायर, उल्लुरिय परिअ मथासु ॥१०॥ अग्निलतमिह वमारा,

तुह नाह पगाम मित्तवावरा ॥ ववगय विग्ना सिग्नं, पना हिय
 इच्छियं डाणं ॥ १ ॥ पजलिआ नलनयण, दूरविअरियमुहं महाकायं ॥
 नह कुलिसधायविअलिअ, गडदकुभ अलाभोअं ॥ २ ॥ पगाय समंभम
 पायिय, नहमणिमाणिक पडिअ पडिमस्स ॥ तुह वयण पहरगधरा,
 सीहं कुडंपि न गणंति ॥ ३ ॥ ससिधवल दंतमुसलं, दीहकखललाल
 वहृ उच्छ्राहं ॥ महुपिंग नयणजुअलं, ससलिल नव जलहरायारं
 ॥ ४ ॥ भीमे महागडं, अच्चा सचंपि ते नवि गिणंति ॥ जे तुम्ह
 चलण जुअलं मुणिवइ तुंगं समलीणा ॥ ५ ॥ समरम्मि तिरक
 खगा, भिघ्नाय पविद्व उद्धुयकवंधे ॥ कुंतविणिभिन्न करि कलह
 मुक्षिकार पउरंम्मि ॥ ६ ॥ निजिय दप्पुद्वर रिनर्गिंद, निवहा
 भडा जसं धवलं ॥ पावंति पाव पसमिण, पासजिण तुहप्पभावेण
 ॥ ७ ॥ रोग जल जलण विसहर, चोरारि मइंद गय रण भयाइ ॥
 पास जिणनाम संकित्तणेण पसमंति सध्वाइ ॥ ८ ॥ एवं महा
 भयहरं, पास जिणिंदस्स संथवमुआरं ॥ भविय जणाणंदयरं, कल्लाण
 परंपरनिहाणं ॥ ९ ॥ राय भय जरक ररकस, कुसुमिण डुस्सउण
 रिरक पीडासु ॥ संभासुदोसु पंथे, उवसगे तहय रयणीसु ॥ १० ॥
 जो पढइ जो अ निसुणइ, ताणं कइणो य माणतुंगस्स ॥ पासो पावं
 पसमेउ, सयल भुवणविअ चलणो ॥ ११ ॥ इति श्रीपार्श्वजिन स्तवनं
 त्रुतीयं स्मरणं संपूर्णम् ॥ ३ ॥

॥ अथ गणधर देवस्तुति चतुर्थं स्मरणं प्रारंभः ॥

॥ तं जयउ जए तित्थं, जमिथ तिन्धाहिवेण वीरेण ॥ समं
 पवत्तियंभव्व सत्त संताणसुह जणयं ॥ १ ॥ तासिय सयलकिलेसा
 निहय कुलेसा पसत्थ सुहलेसा ॥ सिरिवद्वमाण तित्थस्स मंगलं
 दितु ते अरिहा ॥ २ ॥ निहट्कम्मवीआ, वीआपरमेडिणो
 गुणसमिज्ञा ॥ सिङ्गा तिजय पसिङ्गा, हणांतु दुत्थाणि तित्थस्स ॥ ३ ॥

आयार मायरता, पचपयार मया पयामता ॥ आयरिक्षा तद तिथ,
 निदृष्ट कुतित्य पयासतु ॥ ४ ॥ मम्मसुव्य वायगावायगाय, सिअग्राय
 वायगा गाए ॥ पवयगा पटणीय कए, वला तु सापस्म मधस्म ॥ ५ ॥
 निश्चाणसात्त्वज्ञुय, माहूग जगिअ साप माहज्ञा ॥ निश्चिष्टभावगा
 ते, हयनु परमेष्ठिणो जहणो ॥ ६ ॥ जेलागुगय गाल, निव्वागफन
 च चरणमविद्वा ॥ निथम्म दमण त, मगुलमुगणेऽ मिदियर ॥ ७ ॥
 निलक्ष्मो मुयधम्मो, ममगा भवगि वगा कय मम्मो ॥ गुणमुठि
 अस्स मधस्म, मगल मम्ममिह दिमउ ॥ ८ ॥ रम्मो चरित धम्मो
 सपापिअ भवगमत्त मित्रमम्मो ॥ नीमेस किलेसहरो, हयउ सया
 सयल मधस्म ॥ ९ ॥ गुणगण गुणोगुणो गियमुह मइलो कुणतु
 तिथस्स । मिरिच्छमाणप्रपयडिअस्म बुंमज समगम्स ॥ १० ॥
 लिपपडिवरकाजरका, गोमुह भायग गयमुह पमुरका । मिरि वभ
 मति महिआ, कय नयररका मित्र दिनु ॥ ११ ॥ घ्राप पटिदृयटिवा
 मिद्दा मिद्दार्या पवयगास्म ॥ चक्केमरि यहर्द्वा, मति मुरा दि
 मउ मुरकाणि ॥ १२ ॥ मोलम विज्ञा देवीओ, दिनु मधस्स मङ्गल
 विउल ॥ आदुत्ता महिआओ, विमुअ मुयदेवयाइ सम ॥ १३ ॥
 जिण मामगा कय गरझ, जग्का चउर्द्दाम मामगा मुरादि ॥ मुद
 भावा मताय, तिथस्स सया पणामतु ॥ १४ ॥ जिणपवयगमिस
 निरया, विरया कुप हाउ सापहामण्ये ॥ येपार्य वराविज्ञ, तिथ
 महवनु मतिशरा ॥ १५ ॥ जिणममय मिद्दसुमग, यहिय माशग ज
 यणि माहनो ॥ गीयरई गीद्वज्जसो, सपरियारो मित्र दिमउ ॥ १६ ॥
 गिहगुत गिल जन्मपल, घणपर्य थामि देव देवीओ ॥ जिल मा
 सणटिवार, हुहाणि माशाणि निहणतु ॥ १७ ॥ शमदिमिपानाम
 रिक्तपालया नवगादा मनरक्तना ॥ जारणि राहुगाहुकाजरास
 कुलिमद्द पहरेहि ॥ १८ ॥ सहकाल कटपहि, मविष्ठियरेहि खाज
 खेलाहि ॥ मले मायप गुह, दिमतु मधस्म मधस्म ॥ १९ ॥

भवणवद् वाग्मंतर, जोइस वेमाणिआ य जे देवा ॥ धरगिंद सक
 सहिआ, दलंतु दुरिआइ तित्यस्स ॥ २० ॥ चक्रं जस्स जलंतं,
 गच्छइ पुरओपणासिय तमोहं ॥ तंतित्यस्स भगवां, नमो नमो वद्ध
 माणस्स ॥ २१ ॥ सो जयउ जिगां वीरो, जम्सज्जविसास्तां जएजयइ ॥
 सिद्धिपह सासगं कुपह, नासगं सब्बभय महां ॥ २२ ॥ सिरि
 उसभसेग पमुहा, हयभय निवहा दिसंतु तित्यस्स ॥ सब्ब जिगां
 गणिहारिणो णहं वंक्षियं सब्बं ॥ २३ ॥ सिरि वद्धमाण तित्थाहिवेण
 तित्यं समणियं जस्स ॥ समं सुहम्म सामी, दिसउ सुहं
 सयल संघस्स ॥ २४ ॥ पयइएभहिया जे, भदाणि दिसंतु सयल-
 संघस्स ॥ इयसुरा विहु सम्म, जिणगणहर कहिय कारिस्स ॥ २५ ॥
 इय जो पढइ तिसंभं, दुस्सज्जभं तस्स नान्य किंपि जए ॥ जिणदत्ता-
 णाएटिओ, सानिड्डिअड्डोसुइहोई ॥ २६ ॥ इति श्रीगणधरदेवस्तुति-
 नामकं चतुर्थं स्मरणं ॥ ४ ॥

अथ गुरपारतङ्गनामकं पंचमं स्मरणम् ॥

मयरहियं गुणगण रथण, सायरं सायरं पणमिऊणं ॥ सुगुरुजण
 पारतंतं, उवहिव्व थुणामि तं चेव ॥ १ ॥ निम्महिय मोह जोहा, निह
 य विरोहा पणहु संदेहा ॥ पणयंगि वग्ग दाविअ, सुहंसंदोहा सुगुण
 रेहा ॥ २ ॥ पत्तसुजइत्त सोहा, समत्त परतित्य जाणिय संखोहा ।
 पडिभग्ग मोह जोहा दंसिअ सुमहथ सत्थोहा ॥ ३ ॥ परिहरिअ
 सत्थवाहा, हय दुह दाहा सिवंब तरुसाहा ॥ संपाविअ
 सुहलाहा, खीरोदहिगुव्व अगगाहा ॥ ४ ॥ सुगुणजण जणि यपुज्जा
 सज्जोनिहवज्ज गहिअ पवज्जा ॥ सिवसुह साहण सज्जा, भवगिरि गुरु
 चूरणे वज्जा ॥ ५ ॥ अज्जसुहम्मणमुहा ; गुणगण निवहा सुरिंद विहिअ
 महा ॥ ताण तिसंभं नामं, नामं न पणासइ जियाणं ॥ ६ ॥ पडिवज्जिअ

जिण देवा, देवायरिओ दुरत भवहारी ॥ सिरि नमचद री सू,
 उज्जोग्रण सरियो सुगुर ॥ ७ ॥ मिरि वद्माण सूरी, पयडीक्य
 सूरि मत माहापा ॥ पटिह्य कसाय पसरा, सरय ससकुन्न सुह
 जणओ ॥ ८ ॥ सुहसीज चोर चप्परण, पचलो निश्चला जिणमयमि ॥
 जुगपवर सुद्धसिद्धत, जाणओ पण्य भुगुण जणो ॥ ९ ॥ पुरओ दुल्जह
 महि वल्लहस्स, अणहिल्ज वाढए पयड ॥ मुझाप्रिआरिझण, सीहेणप
 दब्बर्तिजगिय गया ॥ १० ॥ दसमत्थरयनिसिविष्कुरत सच्छद
 सूरिमय तिमिर ॥ सूरणव सूरि जिणे सरेण, हयमहिश्र दा
 सेण ॥ ११ ॥ सुकइत्त पत्त कित्ती, पयडिअ गुत्ती पसत सुहमुत्ती ।
 पहय परवाइ दित्ती, जिणचढ जईसरो मती ॥ १२ ॥ पयडिअ नग
 सुत्तत्य, रयणुकोमो पणामिअ पश्चोसो । भवभीय भविश्र जणमण,
 कयसतो सो निगय दोसो ॥ १३ ॥ जुग पवरागम सार परुणा
 करणवधुरोघणिअ । सिरि अभयदेव सूरी, मुणिपवरो पगम पसम
 • वरो ॥ १४ ॥ क्य सा यय सतासा, हरिव्य सारग भग्ग सदेहो ।
 गय समय दप्प दलणा, आसाइअ पत्र कन्वर मा ॥ १५ ॥ भीमभव
 काणणामिअ, दमिअ गुरुणयण रयण सदेहो । नीसेस सत्त गुरुआ, सूरी
 जिणवल्लहा जयइ ॥ १६ ॥ उवरिटिअ सच्च रणो, चउरणुओग प्पहाण
 मच्चरणो । असम मयराय महणा, उडमुहो सहइ जस्स करो ॥ १७ ॥
 दसिअ निम्मल निश्चल, दंतगणा गणिय सावओत्य भओ । गुरुगिरि
 गटआ सरहुव्य, सूरि जिणवल्लहो होत्या ॥ १८ ॥ जुग पवरागम
 पीऊमपाणि पीणिय मणाक्या भव्या । जेण जिणवल्लहेण, गुरुणा
 त सावहा चदे ॥ १९ ॥ पिष्कुरिय पत्र पवयण, मिरोमणी घूढ
 दुब्बह खमाय । जा सेसाण सेसुब्ब सहइ सत्ताण ताणकरा ॥ २० ॥
 सच्चरिद्वाणा महीण, सुगुरुण पारतत मुब्बहइ । जयइ जिणदत्त सूरी,
 सिरि निलआ पण्य मुणितिजआ ॥ २१ ॥ इति श्रीगुरुपारत-यनामक
 पचमस्मरणम् ॥ ५ ॥

॥ अथ श्रीपष्टुस्मरणम् ॥

सिंघमवहरड विग्धं, जिणवीराणाणु गामि संवर्स्स . सिरि
पासजिणो थंभण, पुरहिंओ निहिंआनिहो ॥ १ ॥ गोयम सुहम्म पमुहा,
गणवइणो विहिय भव्व सत्तसुहा ॥ सिरि वद्धमाण जिणति, न्य
खुत्ययंते कुणंतु सया ॥ २ ॥ सकाइणो सुराजे, जिण वेयावच्च कारिणो
संति ॥ अवहरिय विग्धं संदा, हवंतु ते संव संतिकरा ॥ ३ ॥ सिरि
थंभणय हिय पाससामि पय पउम पणव पाणीण ॥ निद्वलिय दुरिय
विंदो, धरणिंदो हरड दुरिआइ ॥ ४ ॥ गोमुह पमुरक जरका, पडिहय
पडिवरक परक लरका ते ॥ कयसगुण संव ररका, हवंतु संपत्त सिव
सुरका ॥ ५ ॥ अप्पडिचका पमुहा, जिण सासण देवयावि जिण
पणिया ॥ सिद्धाइया संमया, हवंतु संवर्स्स विग्धहरा ॥ ६ ॥ सकाए
सासच्छउरपुरहिंओ, वद्धमाण जिण भत्तो ॥ सिरि वंभ संति जरका,
ररकउ संधं पयत्तेण ॥ ७ ॥ खित्तगिह गुत्त संताण देस देवाहि देवया
ताओ ॥ निक्षुइ पुर पहिआण, भव्वाण कुणंतु सुरकाणि ॥ ८ ॥ चकेसरि
चकधरा, विहिपहरिउहिन्न कंधरा धणिय ॥ सिवसरण लगा
संवर्स्स, सव्वहा हरड विग्धाणि ॥ ९ ॥ तित्थवई वद्धमाणो, जिणेसरो
संगथो सुसंवेण जिणचंदो भयदेवो, ररकउ जिणवल्लह पहूम ॥ १० ॥
सो जयड वद्धमाणो, जिणेसरो णेसरव्व हयतिमिरो ॥ जिणचंदा
भयदेवा, पहुणो जिणवल्लहा जेअ ॥ ११ ॥ गुरु जिणवल्लह पाए,
भयदेव पहुत्त दायगे चंदे ॥ जिणचंद जिणेसरवद्धमाण तित्थस्स
बुढ़िकए ॥ १२ ॥ जिणदत्ताणं सम्म, मध्यंति कुणंति जेय कारंति ॥ मणसा
वयसा वउसा, जयंतु साहमिअा तेवि ॥ १३ ॥ जिणदत्त गुणे
नाणाइणो, सया जे धरंति धारंति ॥ दंसिअसिअ वायपए, नमामि
साहम्म आ तेवि ॥ १४ ॥ इत पष्ठं स्मरणम् ॥ ६ ॥

॥ अथ उवसग्नहर नामक सप्तम स्मरणम् ॥

उवसग्नहर पास, पास घदामि कम्मधण मुक्त । पिमहर विस-
निज्ञास, मगलकल्लाण आग्रास ॥ १ ॥ इत्यादि । भवेभवेपासजिणचद
पर्यत सपूर्ण कहना ॥ २ ॥ इति श्रीपार्वजिन स्तपन सप्तम स्मरणम्
॥ ३ ॥ इति सप्तस्मरणसमाप्तम् ॥

॥ अथ भक्तामरस्तोत्र प्रारभ्यते ॥

भक्तामरणतमोलिमणिप्रभाणा, मुद्योतकलितपापतमोवितानम् ॥
सम्यक् प्रणाम्य जिनपादयुग युगादा, वालवन भवजले पतता
जनानाम् ॥ ४ ॥ य सस्तुत मकलचाटमयतच्चबोधा, दुद्धृत
षुद्दिपदुभि सुखलोकनाथै ॥ स्तोऽवृद्गंगवितयचित्तहर्सदाई, स्तोप्ये
विजाह मरि त प्रथम जिनेऽम् ॥ ५ ॥ युग्म ॥ बुद्धथा विना पि
विदुर्धार्चितपादपीठ, स्तोनु समुद्यतमतिर्विगतपोऽहम् ॥ वाल
प्रिहाय जलसस्थितमिंदु विव, मन्य क इन्द्राति जन महमा ग्रहीतुम् ॥
॥ ६ ॥ वक्तु गुणान् गुणममुद गशाककातान्, करस्ते ज्ञम सुखुर
प्रतिमाऽपि बुद्धथा ॥ कल्पातकालपवनोद्धतनक्रचक, को वा तरी
तुमलमतु निधि भुजाभ्याम् ॥ ७ ॥ सोऽह तथापि तव भक्तिपशान्मुनीश
कर्तु स्तव विगतशक्तिरपि ग्रवृत्त ॥ प्रीत्यामवीयमविचार्य मृगो मृगेऽ,
नाभ्येति किं निजशिशो प्ररिपालनाथम् ॥ ८ ॥ अल्यश्रुत श्रुतवता
परिहासधाम, त्वद्विक्षिरेष मुखरीकुरते वलान्मा ॥ यत्कोकिल किल
मधौ मधुर विरौति, तच्छाटचान्नकलिकानिकरैकहेतु ॥ ९ ॥
त्वत्सस्तवेन भवसततिसनिवद, पाप ज्ञाणात् ज्ञयमुर्पति शरीरमाजाम् ॥
आक्रात लोकमलिनीलमशेषमाणु, सूर्याणुभिन्नमिव शावसमधकारम् ॥ १० ॥
मत्वेति नाय तत्र सस्तपन मयेद, मारम्यते तनुधियापि तव प्रभा
धात् ॥ चेतो हरिष्यति सता नजिनीदलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुर्पति
ननुद्विंदुः ॥ ११ ॥ आस्ता तवस्तवनमस्तममस्तदोष, त्वत्सक्तथापि

जगतां दुरितानि हंति ॥ दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभव, पद्माकरेषु
 जलजानि विकाशमांजि ॥ ६ ॥ नात्यद्वृतं भुवनभूपणभूत नाथ,
 भूतेगुणेभुवि भवंतमभिष्टुवंतः ॥ तुल्या भवंति भवतो ननु ते न किं
 वा, भूत्याश्रितं य इह नामममं करोति ॥ ७० ॥ द्वाद्वा भवंतमनिमेप-
 विलोकनीयं, नान्यत्र तोपमुपयाति जनस्य चलु ॥ पीत्वा पथ
 शशिकरद्युति दुर्घर्सिधो, ज्ञारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत् ॥ ७१ ॥
 यैः शांतरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितन्त्रिभुवनैकललामभूत ॥
 तावंत एव खलु तेष्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि स्पमस्ति
 ॥ ७२ ॥ वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेवहारि, निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयो-
 पमानम् ॥ विवं कलंकमलिनं क्व निशा करस्य, यद्वासरे भवति
 पांडुपलाशकल्यम् ॥ ७३ ॥ संपूर्णमंडलशशांककलाकलाप, शुभ्रा
 शुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ॥ ये संश्रिता स्त्रिजगदीश्वरनाथसेकं,
 कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥ ७४ ॥ चित्रं किमत्र यदि ते
 विदशांगनाभि, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् ॥ कल्यांतकाल-
 मरुता चलिताचलेन, किं मंद्राद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ॥ ७५ ॥
 निर्वृमवर्त्तिरपवर्जिततेलपूरः, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोपि ॥ गम्यो
 न जातु मरुतां चलिताचलानां, द्रीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः
 ॥ ७६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोपि सहसा
 युगपञ्जगंति ॥ नांभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः, सूर्यातिशायिमहिमासि
 मुर्नांद्रं लोके ॥ ७७ ॥ नित्योदयं दलितमोहमहांधकारं, गम्यं न राहुवदनस्य
 न वारिदानाम् ॥ विभ्राजते तव मुखाद्वजमनलपकांति, विद्योतयजगद-
 पूर्वशशांकविवम् ॥ ७८ ॥ किं शर्वरीपु शशिनाहि विवस्वता वा,
 युष्मन्मुखेदुदलितेषु तमस्सु नाथ ॥ निष्पन्नशालिवन शालिनि जीव-
 लोके, कार्यं कियज्जलधरैज्जलभारनप्रैः ॥ ७९ ॥ ग्यानं यथा त्वयि
 विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ॥ तेजःस्फुरन्म-
 णिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काचशक्ले किरणाकुलेऽपि ॥ ८० ॥

मन्ये ग्रह हरिहरान्य पर दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति ॥
 किं वीक्षितेन भगता भुवि येन नाथ, कश्चिभन्नो हरति नाथ
 भवातरेपि ॥ २१ ॥ स्त्रीणा शतानि शतशो जनयति पुत्रान्, नान्या
 सुन त्वदुपम जननी प्रसन्ना ॥ भवा दिग्गो दधति भानि सहवररिंगम,
 प्रान्येऽपि दिग्जन्यति स्फुरदगुजालम् ॥ २२ ॥ त्वामामनति मुनय परम
 पुमाम, मादित्यपराममल तमम परस्तात् । त्वामेऽपि सम्यगुपलभ्य
 जयति मृगु, नान्य गिरि शिवपदम्य मुर्नीद्रपथा ॥ २३ ॥ त्वा
 भव्यय विभुमचिल्यमसत्यमाद्य, प्रह्लाणमीरपरमनतमनगकेतुम् ।
 योगीश्वर विद्वितयोगमनेकमेषु, शानम्बुद्धपममल प्रपदति भूत ॥ २४ ॥
 बुद्धस्त्वमेऽपि विद्वाचित्तुद्विवोधात्, त्वं गकगेऽसि भुपनप्रयगकर-
 त्वात् ॥ धातामि ग्रीर गिरि मार्गपिरेऽपि गानात्, व्यक्त त्वमेऽपि भगवन्
 पुरायोन्नमोऽसि ॥ २५ ॥ तुम्य नमस्त्रिभुपनार्त्तिहराय नाथ, तुम्य नम
 क्षितितलामलभूपणाय । तुम्य नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुम्य नमो
 जिनभग्नोदधिगोपणाय ॥ २६ ॥ को विम्मयोऽपि यदि नाम गुणोर्जोगे,
 स्व मधितो निरपकाश तथा मुर्नीश ॥ नैषम्यात्तपिद्वाथ्रयजातगर्वं,
 स्वप्नातरेऽपि न कट्टाचिद्दोषितोऽसि ॥ २७ ॥ उद्वेरणोऽस्तरस्त्रिन
 मुमयूख, माभानि रूपममल भगतो नितातम् ॥ स्पष्टेल्लसस्तिरण
 मस्ततमोऽप्तिनां विव र्तोरिद पयोधर पार्वत्यर्ति ॥ २८ ॥ सिंहासने
 मणिमयूराणिताधिविच्छे । विभ्राजते तप वषु कनकावदातम्
 विव वियद्विलमदगुलतापिनान्, तुगोऽप्यादिगिरसीप सहस्र-
 रस्मे ॥ २९ ॥ कुदामडातचलचामरचाम्भोम, विभ्राजते तप
 वषु कलथौतकातम् । उद्यन्त्रग्राकशुचिनिर्कर्त्तारिधार, मुच्येस्तट
 मुरगिरेगिरि ग्रातकाभम् ॥ ३० ॥ त्रयय तप विभानि
 गशाककात, मुद्ये स्थित स्यगिनभानुकरप्रतापम् ॥ भुजापलप्रकर
 जालविवृद्धज्ञोम, प्रत्यापयत्प्रिजगत परमेश्वरल्यम् ॥ ३१ ॥ उद्विद्वहे
 मनपकजपुजकानी, पर्युल्जमदसमयूखगिराभिरामो । पादौ परानि

तव यत्र जिनेंद्र धन्तः, पञ्चानि तत्र विद्युथाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्यं
 यथा तव विभूतिरभूजिनेंद्र, धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य । याद्वक्
 प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकारा, ताद्वककुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि
 ॥ ३३ ॥ श्चयोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल, मत्तभ्रमद्भ्रमरनादवि-
 वृद्धकोपम् ॥ ऐरावताभमिभमुद्धतमापतंतं, द्वाद्वा भयं भवति नो
 भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ । भिन्नेभकुंभगलदुज्ज्वलगोणिताक्ष, मुक्ताफल-
 प्रकरभूषितभूमिभागः ॥ वद्वक्रमः क्रमगतं हरिणाश्रिपाऽपि, नाकामति
 क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥ कल्पांतकाल पवनोद्वतव्यहृकल्पं,
 दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल मुत्सुलिंगम् ॥ विश्वं जिघत्सुमिव संमुख-
 मापतंतं, त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषपम् ॥ ३६ ॥ रक्तेन्द्रणं समद-
 कोकिलकंठनीलं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्कणमापतंतम् ॥ आकामति
 क्रमयुगेन निरस्तशंक, स्त्वन्नामनागदभनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥
 वलात्तुरंगगजगर्जितभीमनाद, माजौ वलं वलवतामयि भूपतीनाम् ॥
 उद्यद्विचाकरमयूखशिखापविद्धं, त्वकीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति
 ॥ ३८ ॥ कुंताश्रभिन्नगजशोणित वारिवाह, वेगावतारतरणातुरयोध-
 भीमे । युडे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा, स्त्वत्पादपंकजवनाश्रयिणो
 लभंते ॥ ३९ ॥ अंभोनिधौ चुभितभीपणनक्तनक, पाठीनपीटभय-
 दोलवणवाडवाद्यौ ॥ रंगत्तरंगशिखरस्थितंयानपात्रा, खासं विहाय
 भवतः स्मरणाद्वजंति ॥ ४० ॥ उद्धूतभीपणजलोदरभारभुश्चाः, शोच्यां
 दशामुपगताश्चयुतजीविताशाः । त्वत्पादपंकजरजो मृतदिग्धदेहा,
 मत्त्वा भवन्ति मकरव्यजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥ श्रापादकंठमुखरुद्धलवेष्टि-
 तांगा, गाढं वृहन्निगडकोटिनिवृष्टजंघाः ॥ त्वन्नाममंत्र मनिशं मनुजाः
 स्मरन्तः, सद्य स्वयं विगतवंधभया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्तद्विषेद्मृग-
 राजदवानलाहि, संग्रामवारिधिमहोदरवंशनोत्थं । तस्याशु नाशमुप-
 याति भयं भियेव, यस्तावकं स्तवभिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥
 स्तोत्रस्तजं तवजिनेंद्र गुणैर्निवद्धां, भस्या मया रुचिरवर्णं विवित-

पुण्याम् । धत्तेजसो य इह कठगलामजन्म, न माननुगमयेगा समुपेति
लहमी । ४४ । इति भक्तामरस्तोत्र स्वपूर्णम् ॥

॥ अथ वृद्धशातिर्लिख्यते ॥

॥ भो भा भाया शृणुतवचन प्रस्तुत मर्त्र मेतत्, ये यात्रायां
श्रिभुवनगुरोराहना भक्तिभाज । तेषां शातिर्मर्यतु भवतामर्हदादि
प्रभावा, द्वाराग्यश्रीवृत्तिमनिकरी कलेशविद्यगदेतु ॥१॥ भो भो भव्य
जोका इह दि भरतैरामत विदेह समवाना, समस्ततीर्थस्ता जन्मन्या
सन प्रकणानन्तर अयधिना विज्ञाय सौधर्माधिपति सुधोपाघटाचा
लवानन्तर सफलमुगासुरंडे मह समागत्य सविनयमर्हद्वारक गृही
त्वा, गत्वा कनकादिशृगे, विहितज्ञामिरेक, शान्तिमुद्घोषयति,
ततोऽद्वृतानुकारमिति श्रुत्वा, महाजना येन गतम्न पथा ॥ इति
भव्यजने सह समागत्य, स्नात्रपीठं स्नात्र विधाय, शान्तिमुद्घोषयामि ॥
तन्यूजायाप्राप्नात्रादि महाभवानन्तर ॥ इति शृन्या कर्णं दत्या निश
म्यता स्वाहा ॥ ॐ पुण्याह २, प्रीयता ३, भगवन्तौर्द्दन्तः मरणा,
मर्त्रदर्शिन ॥ श्रेणाक्षयनाशा, श्रेणाक्षयमहिता श्रेणाक्षयपुञ्ज्या श्रेणोक्षये
श्वरा, श्रेणोक्षयोन्तरस्त्र ॥ ॐ श्रीकैरजज्ञानी ५, निर्वाणी ६, सागर
७, महायग ८, विमल ९, सर्वानुभूति १०, धीधर ११, दत्त १२, दामोदर
१३, सुतेजा १४, स्वामी १५, सुनिष्ठुयत १६, सुमति १७, शिष्यगति १८,
अस्ताग १९, नमीश्वर २०, श्रान्तिल २१, यगाधर २२, छताव २३, सप्रति २४;
एते अतीत ॥ चतुर्मिश्रतिरियकरा ॥

॥ ॐ श्रीकृष्णम १, अक्षित २, समय ३, अभिनन्दन ४, सुमति ५,
पद्मप्रभ ६, सुपार्ण्य ७, चढप्रभ ८, सुविधि ९, शीतल १०, श्रेयांस ११,

वासुपूज्य १२, विमल १३, अनन्त १४, धर्म १५, जांति १६, कुंशु १७,
अर १८, मलिल १९, मुनिसुवत २०, नमि २१, नेमि २२, पाश्व २३,
घड्हमान २४, एते वर्तमानजिनाः ॥

॥ ऊँ श्रीपद्मनाभ १, सूरदेव २, सुपाश्व ३, स्वयंप्रभु ४, सर्वानु
भूति ५, देवश्रुत ह, उदय ७, पेढाल, ८, पोष्टिल ९, शतकीर्ति १०,
सुवत ११, अग्रम १२, निष्काशय १३, निष्पुलाक १४, निर्मम १५,
चित्रगुप्ति १६, समाधि २७, संवर १८, यशोधर १९, विजय २०,
मलिल २१, देव २२, अनन्तवीर्य २३, भद्रकर २४, ॥ एते भावि-
तिर्थकराः जिनाः ॥ जान्ताः जान्तिकरा भवतु मुनयो मुनिप्रवरा,
रिषु विजयदुर्भिक्षकान्तरेषु दुर्गमागेषु रक्षतुवो नित्यं ॥ ऊँ श्री-
नामि १, जितशत्रु २, जितारि ३, संवर ४, मेघ ५ः धर ह, प्रतिष्ठ
७; महसेन नरेश्वर ८, सुग्रीव ९, दृढरथ १०, विष्णु ११, वासु
पूज्य १२ः कृतवर्म १३, सिंहसेन १४ भानु १५, विश्वसेन १६, सूर १७
सुदर्शन १८, कुंभ १९, सुमित्र २०, विजय २१, समुद्रविजय २२,
अश्वसेन २३; सिद्धार्थ २४ ॥ इति वर्तमान चतुर्विंशतिजिनजनकाः ॥

॥ ऊँ श्रीमहदेवा १. विजया २, सेना ३, सिद्धार्था ४, सुमंगला ५,
सुसीमा ६, पृथिवीमाता ७, लक्ष्मणा ८; रामा ९ः नन्दा १०, विष्णु ११,
जया १२; श्यामा १३, सुयशा १४, सुवता १५, अचिरा १६, श्री १७,
देवी १८, प्रभावती १९, पद्मा २०, वप्ना २१ः शिवा २२, वामा २३,
विसला २४, ॥ इति वर्तमान जिनजनन्यः ॥

॥ ऊँ श्रीगोमुख १, महायज्ञ २, त्रिमुख ३, यज्ञनायक ४; तुवरु ५.
कुसुम ह, मातंग ७, विजय ८, अजित ह, ब्रह्मा १०, यज्ञराज ११,
कुमार १२, पण्मुख १३, पाताल १४, किन्नर १५, गरुड १६; गंधर्व
१७, यज्ञराज १८, कुवेर १९, वरुण २०, भृकुटि २१, गोमेघ २२,
पाश्व २३, व्रक्षशांति २४, ॥ इति वर्तमानजिनयज्ञा ॥

॥ ॐ चक्रेश्वरी १, अजितवला २, दुरितारि ३, काली ४, महा
काली ५, श्यामा ६, शाता ७, भृकुटि ८, सुनारका ९, आशोका १०,
मानवी ११, चडा १२, विदिता १३, अकुणा १४, कदप्पा १५, निर्वाणी
१६, वला १७, धारिणी १८, धरणप्रिया १९, नरदत्ता २०, गांधारी २१
आविका २२; पद्माधती २३, सिद्धायिका २४ वर्तमानचतुर्विंशति
तीर्थ्यकरणासनदेव्य ॥

॥ ॐ ह्रीं श्रीं धृति कीर्ति, काति, शुद्धि, लहस्ती, मेधा, विद्या,
साधन, प्रवेशनिवेशनेषु, सुप्रहीतनामानो जयति ते जिनेन्द्रा ॥ , ॐ
रोहिणी १, प्रज्ञानि २, वज्रशृङ्खला ३, घज्ञाकुणा ४, चक्रेश्वरी ५, पुरुष
दत्ता ६, काली ७, महाकाली ८, गौरी ९, गाधारी १०, सर्वालभमहा
ज्वाला ११, मानवी १२, वैरोऽव्या १३, अच्छुप्ता १४, मानसी १५,
महामानसी १६, एता पाडश विद्यादेव्यो रक्षतु मे स्वाहा ॥ ॐ आ
चाय्योंपाद्यायप्रभृतिचातुर्वर्णस्य श्रीथ्रमणसवस्य शातिर्भवतु, ॐ प्रहा
श्च उद्सूर्यागारकुधवृहस्पतिशुक्लनैश्चरत्तराहुकेतुसहिता सलोकपाला
सामयमवरुणकुवेरवासवादित्यस्कन्दपिनायक ये चान्येऽपि ग्रामनगर
क्षेत्रदेवताद्यस्ते मर्ते प्रीयता ॥ २ ॥ अक्षीणकोणकोष्ठागारा नरण
तयस्च भवतु स्वाहा । ॐ पुत्रमित्रभ्रातृकलप्रसुहत्सवधिवधुवगम
हिता नित्य चामाद प्रमोदकारिणो भवतु ॥ अस्मिन्स्च भूमडले आय
तननिशासिना माधुमाध्वी थापकथागिकाणा, गगोपमर्ग व्याधिदुग्ध
दौर्मनस्यागमनाय गांतिभवतु ॥ ॐ तुष्टि पुष्टिकदिवृद्धि माङ्गल्या
स्त्रवा भवतु ॥ मदा प्रानुर्भूतार्थि दुरितानि पापानि जाम्यतु गत्रय
पराइसुखा भवतु स्वाहा ॥ श्रीमतेशांतिनायाय, जम शातिविधायिने ॥
ब्रजाक्षयस्यामूराधीश, मुकुटाभ्यर्चिताहृये ॥ १ ॥ शाति जातिश्च.
श्रीमान्, शार्ति दिशतु मे गुरु ॥ शातिरेव सदातेषा, येषा शातिर्गुहे
गृहे ॥ २ ॥ ॐ उमृष्टरिष्टदुष्ट, प्रहगतिदु स्वमदुर्निमित्तादि ॥ स
पादितदितसप्त, नामग्रहण जयति शातेः ॥ ३ ॥ श्रीमध्यपौरजनपद,

राजाधिपराजसंनिवेशानाम् ॥ गोष्ठीपुरमुखानां, व्याहरण्व्याहरच्छ्रां
तिम् ॥ ४ ॥ श्रीश्रमणसंघस्य शांतिर्भवतु, श्रीपौरलोकस्य शांतिर्भवतु ॥
श्रीजनपदानां शांतिर्भवतु, श्रीराजाधिपानां शांतिर्भवतु, श्रीराजसंनि
वेशानां शांतिर्भवतु, श्रीगोप्तिकानां शांतिर्भवतु, उँ स्वाहा ॥ २ ॥ अँ
हीं श्रीं पार्श्वनाथाय स्वाहा ॥ एवा शांतिः प्रतिष्ठायात्रास्त्रावसानेषु,
शांतिकलशं गृहीत्वा, कुंकुमचंदनकर्पूरागरधृपवासकुसुमांजलिसमेतः,
स्त्रात्रपीठे श्रीसंघसमेतः, शुचिः शुचिवपुः पुण्यवस्थश्चन्दनाभरणालंकृतः,
चन्दनतिलकं विधाय पुण्यमालां कंडे कृत्वा, शांतिमुद्घोषयित्वा शांति
पानीयं मस्तके दातव्यमिति ॥ नृत्यंति नृत्यं मणिपुण्यवर्ष, सूजंति
गायंति च मंगलानि ॥ स्त्रोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान्, कल्याण
भाजांहि जिनाभिषेके ॥ १ ॥ अहं तिथ्यरमाया शिवादेवी, तुम्हनय
रनिवासिनी ॥ अम्ह शिवं तुम्ह शिवं, असुहोवसमं शिवं भवतु
स्वाहा ॥ २ ॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ॥
दोषाः प्रयांतु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ २ ॥ उपसर्गाः त्ययं
यांति, छिद्यन्ते विद्ववह्यः ॥ मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे
॥ ३ ॥ इति श्रीबृद्धशांतिः समाप्ता ॥

॥ अथ जिनपंजरस्त्रोत्रं लिख्यते ॥

॥ अँ हीं श्रीं अहं अहं भूम्यो नमोनमः, अँ हीं श्रीं अहं सिद्धेभ्यो
नमोनमः ॥ अँ हीं श्रीं अहं आचार्येभ्यो नमोनमः ॥ अँ हीं श्रीं
अहं उपाध्यायेभ्यो नमोनमः ॥ अँ हीं श्रीं अहं श्रीगौतमस्वामिप्रमुख
सर्वसाधुभ्यो नमोनमः ॥ १ ॥ एष पञ्च नमस्कारः, सर्वं पापन्तर्यकरः ॥
मंगलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलं ॥ २ ॥ अँ हीं श्रीं जयेवि
जये अहं परमात्मने नमः ॥ कमलप्रभसूर्द्धो, भाषते जिनपंजरं ॥ ३ ॥
एकमन्त्रोपवासेन, त्रिकालं यः पठेदिदं ॥ मनोभिलपितं सर्वं फलं
सलभते ध्रुवं ॥ ४ ॥ भूशय्या ब्रह्मचर्येण, क्रोधलोभविवर्जितः ॥

देवनामं पवित्रात्मा । परमासेलंभते फल ॥ ५ ॥ अर्हत स्थापयेन्मूर्भि
 सिद्धं चकुर्लजाटके ॥ आचार्यं थोत्रयोर्मध्ये, उपाध्याय तु धाणके ॥६॥
 साधुवृद्ध मुखस्थाग्ने, मन शुद्ध विधाय च ॥ सूर्यचद्रनिरोधेन, सुधी
 सर्वाधिसिद्धये ७ ॥ दक्षिणे मदनछेपी, वामपाञ्चे स्थिता जिन ॥
 अगमपिषु सर्पद्व , परमेष्ठी शिवकर ॥ ८ ॥ पूर्वांशा श्रीजिनो रक्षे,
 दामर्यां रिजितेन्द्रिय ॥ दक्षिणाशा पर व्रह्म, नैमृति च पिकालवित्
 ॥ ९ ॥ पश्चिमांशा जगन्नाथो, वायर्यां परमेश्वर ॥ उत्तरा तीर्थकृत
 मर्यां, मीणानां च निरजन ॥ १० ॥ पाताल भगवानर्द्द, ज्ञाकाश
 पुस्तपोत्तम ॥ रोहिणीप्रमुखा देव्यो, रक्षतु सकल कुल ॥ ११ ॥
 मृपमो मस्तक रक्षे, दक्षितापि चिलोच्चने ॥^१ सभय कर्णयुगल,
 नासिका चाभिनदन ॥ १२ ॥ ओष्ठों श्रीसुमतीरक्षेत्, दत्तान्प
 ज्ञाप्रसो विभु ॥ जिहा सुषार्घ्येत्रोय, लालु चद्रप्रसा विभु ॥ १३ ॥
 कठ श्रीसुमिधीरक्षेत्, हृदय श्रीसुशीतल ॥ थेयामा वाहुयुगल,
 वासुपूज्य करद्वय ॥ १४ ॥ अगुलीर्पिमलो रक्षे, दनतोऽसौ स्तनावपि ॥
 सुधमोप्युदरास्तीनि, श्रीगातिनांभिमडल ॥ १५ ॥ श्रीकुरुर्गुहक रक्षे,
 दरो रोमकटीतट ॥ मलिलरूप पृथिवग, जगे च मुनिसुघ्रत ॥ १६ ॥
 पादगुलीर्मी रक्षेत्, श्रीनेमिभ्वरणाद्य ॥ श्रीपाश्वनाथ सर्वांग
 घर्ङमानप्रिच्छदामक ॥ १७ ॥ पृथगी जलतेजस्क, वाय्वाकाशमय
 जगत् ॥ रक्षेदग्रेपपापेष्यो, चीतरागो निरजन ॥ १८ ॥ राज्यद्वार
 इगशाने घा, मग्नामे गतुसक्ते ॥ व्याघ्रचौगण्यिसपादि भूतप्रेत
 भयाथिते ॥ १९ ॥ अकालमरण भ्राते, दार्थ्यापत्समाथित ॥
 अपुत्रन्ये महादोषे, मूर्दस्त्वे रोगपीडिते ॥ २० ॥ डाकिनी शाकिनीग्रस्ते,
 महाप्रहगणाहिते ॥ नद्युत्तारेऽत्य धैपम्ये, व्यमने चापदि स्मरंत् ॥ २१ ॥
 प्रातरंघ समुथाय, यः स्मरेजिनपजर ॥ तस्य किञ्चिद्ग्रय नास्ति,
 जग्यते मुखसपद ॥ २२ ॥ जिनपजरनामेद, य स्मरत्यनुजासर ।
 कमलश्वराजद्र, श्रियस जग्नते नर ॥ २३ ॥ प्रात समुथाय पठेत्

कृतज्ञो, यः स्तोत्रमेतजिनपंजराख्यं ॥ आसाद्येत्सः कमलप्रभाख्यं,
लद्धर्मां मनोवांछित पूरणाय ॥ २४ ॥ श्रीरुद्रपलतीयवरेण्यगच्छ, देव
प्रभाचार्यपदाव्जहंसः ॥ वार्दीद्रचूडामणिरेप ज्ञैनो, जीयाद् गुह
श्रीकमलप्रभाख्यः ॥ २५ ॥ इति श्रीजिनपंजरस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

॥ अथ ऋषिमंडल स्तोत्र लिख्यते ॥

आद्यंताक्षरसंलक्ष्य । मक्षरंव्याप्ययतस्थितं । अशिव्वालासमनाद ।
विंदुरेखा समन्वितं ॥ १ ॥ अशिव्वालासमाक्रांतं । मनोमलविशोधकं ।
देवीप्यमानं हृत्यज्ञे । तत्पद्मनौमिनिर्मलं ॥ २ ॥ अहंमित्यक्षरंत्रह्य ।
वाचकं परमेष्ठिनः । सिद्धचक्रस्यसद्वीजं । सर्वतः प्रणिदध्महे ॥ ३ ॥
ॐ नमोह्मद्भ्यर्हेभ्य । ॐ सिद्धेभ्योनमोनमः । ॐ नमः सर्वसूरिभ्य ।
उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ॥ ४ ॥ ॐ नमः सर्वसाधुभ्य । ॐ ज्ञानेभ्यो
नमोनमः । ॐ नमस्तत्त्वद्विभ्य । चारित्रेभ्यस्तु ॐ नमः ॥ ५ ॥
श्रेयसेस्तु श्रियेस्त्वेत । दर्हदाद्यष्टकंशुभ्य । स्थानेष्वष्टुविन्यस्तं ।
पृथग्वीजसमन्वितं ॥ ६ ॥ आद्यं पद्मशिखारक्षे । त्परंरक्षेत्तुमस्तकं ।
तृतीयं रक्षेन्नेत्रेष्ठे । तुर्यरक्षेच्चनासिकां ॥ ७ ॥ पंचमंतुमुखंरक्षेत् ।
पष्ठंरक्षेच्चधंटिकां । नाभ्यंतंससमंरक्षे । द्रक्षेत्पादांतमष्टमं ॥ ८ ॥
पूर्वप्रणवतः सांतः । सरेफोङ्यद्विपंचपान् । सप्तष्टदशसूर्योकान् ।
श्रितोविंदुस्वारन् पृथक् ॥ ९ ॥ पूज्यनामाक्षरा आद्याः । पंचातोङ्गान-
दर्शन । चारित्रेभ्यो नमो मध्ये । ह्रींसांतहसमलंकृतः ॥ १० ॥ ॐ ।
ह्रीं । ह्रीं । हुँ । । हे । है । हौं । हौँ । हः । असिआउसाङ्गानदर्शन चारित्रेभ्यो
नमः ॥ *जंबूबूक्षधरोद्धीपः । क्षाराद्यविसमावृतः । अर्हदाद्यष्टकैरष्ट ।
काषाधिष्ठैरलंकृतः ॥ ११ ॥ तन्मध्य संगतोमेहः । कूदलकैरलंकृतः ।
उच्चैरुच्चैस्तरस्तार । स्तारा मंडलमंडित ॥ १२ ॥ तस्योपरिसकारांतं
वीजमध्यास्यसर्वगं । नमामिविवर्माहृत्यं । ललाटस्थं निरंजनं ॥ १३ ॥
अक्षयं निर्मलंशांतं । बहुलं जाङ्घतोजिभक्तं । निरीहंनिरहंकारं । सारं

मारतग्धन ॥ २४ ॥ अनुद्गत शुभ स्फोत । मातियक राजममन ।
 तामस विरसतुद्ध । तेजम शर्पीसम ॥ २५ ॥ माकारच निराकार ।
 मरम विरसपर । पगपर पगातीत । पगपर पगापर ॥ २६ ॥ एकवर्ण
 छिवणि च । विश्रणि तुयदणक । पचवर्णि महावर्ण । सपरन परा-
 पर ॥ २७ ॥ नसा निष्कातातुष । निर्दृत ग्रातियर्जित । निरजन
 निराकार । निर्तेप धीतसथय ॥ २८ ॥ ईश्वर ग्रहमतुद्ध । बुद्धसिंह
 मतगुरु । ज्योतीश्वप महादेव । लोकालोक प्रकाशक ॥ २९ ॥ अर्हद्वा-
 खस्तु धर्मात । नरेकापिदुमर्दित । तुयम्बरममायुको वहुधाना-
 दमालित ॥ २० ॥ अस्मिन धीजे म्यिना भावें । तृप्यभाद्याजिनोसमा-
 यग्निनिजेनिजेयुका । धात्यास्तप भगता ॥ २१ ॥ नार्थचउममाकारे ।
 विदुर्नीलममप्रभ । कलास्त्रास्तमासान । स्वार्णम भर्तोमुख ॥ २२ ॥
 गिर मलीन इकारो । विनीलोवर्णत मृत । गर्णातुमारमलीन
 तीर्थटमटास्तुम ॥ २३ ॥ चउप्रभपुण्डरी । नार्थम्यति समाप्तिरौ ।
 विदुमध्यगतौनेमि । मुग्रतौ जिनसत्तमो ॥ २४ ॥ पश्चप्रभग्रासुपुञ्जौ ।
 कलापद्मधिष्ठितौ । गिरदेव्यतिमलीरौ । पाष्यमहीजिनेश्वरौ ॥ २५ ॥
 शेषास्तीषट्टन भवे । हर स्याने नियोजिता । मायारीजाह्नव्यासा ।
 अचतुर्विजतिरक्षता ॥ २६ ॥ गतरागठेपमोहा । सप्तपापवित्तर्जिता ।
 सपदा भर्तकालेषु । ते भवतु जिनोक्तमा ॥ २७ ॥ देवदेवस्ययश्च
 तस्य चक्रम्य या विभा । तथाच्छ्रादित सवाहू मामादिनस्तु ढाकिनी
 ॥ २८ ॥ देवदेवस्य० । मामादिनस्तु राकिनी ॥ २९ ॥ देवद० ।
 मामादिनस्तु लाकिनी ॥ ३० ॥ देव० । मामादिनस्तु फाकिनी ॥ ३१ ॥
 देवद० । मामादिनस्तु शाकिनी ॥ ३२ ॥ देव० । मामादिनस्तु
 शाकिनी ॥ ३३ ॥ देव० । मामादिनस्तु पाकिनी ॥ ३४ ॥ देव० ।
 मामादिनस्तु एकगा ॥ ३५ ॥ देव० मामादिनस्तुराहसा ॥ ३७ ॥
 देव० । मामादिनस्तुयश्च ॥ ३८ ॥ देव० । मामादिनस्तु भित्ता
 ॥ ३९ ॥ देव० । मामादिनस्तु दुःजना ॥ ४० ॥ मामादिनस्तु

भूमिपाः ॥ ४१ ॥ श्रीगांतमस्ययामुद्रा । नस्यायामुविलब्धयः ।
 ताभिरभ्युद्यतज्योति । रहंसर्वनिश्चिवरः ॥ ४२ ॥ पातालवासिनो देवा ।
 देवाभूषिठिवासिनः । सर्वासिनोपि ये देवाः । सर्वे रक्षतु मामितः
 ॥ ४३ ॥ येऽवधिलब्धयो येतु । परमावधिलब्धयः । ते सर्वे
 मुनयोदेवाः । मांसंरक्षतु सर्वदा ॥ ४४ ॥ दुर्जनाभूतवेत्तालाः ।
 पिशाचामुद्गलास्तया । तेसर्वेषुपश्चाम्यतु । देवदेव प्रभावतः ॥ ४५ ॥
 अँ ह्रीश्चधृतिर्द्विद्विमी । गौरी चंडी सरस्वती । जयां वा विजया
 नित्या । क्षिणाजितामद् द्रवा ॥ ४६ ॥ कामांगाकामवाणाच । सानन्दा-
 नंदमालिनी । माया मायाविनी रौद्री । कला कालीकलिप्रिया ॥ ४७ ॥
 एताः सर्वामहादेव्यो । वर्त्ततेयाजगत्तये । महासर्वाः प्रयच्छक्षतु ।
 कांतिंकीर्तिं धृतिं मर्ति ॥ ४८ ॥ दिव्यो गोप्यः सुदुःप्राप्यः श्रीकृष्ण-
 मंडलस्तवः । भाषितस्तीर्थनाथेन जगत्ताण छ्रतेनष्टः ॥ ४९ ॥ रणे
 राजकुलेवहौ । जलेदुर्गे गजे हरौ । इमशाने विपिने घोरे । समृतौ
 रक्षति मानवं ॥ ५० ॥ राज्यंभ्रष्टा निजं राज्यं । पदभ्रष्टा निजं पदं ।
 लक्ष्मी भ्रष्टा निजां लक्ष्मीं । प्राप्नुवंति न संशयः ॥ ५१ ॥ भार्यार्थी
 लभते भार्यां । पुत्रार्थी लभते सुतं । वित्तार्थी लभते वित्तं । नरः
 स्मरण मात्रतः ॥ ५२ ॥ स्वर्णेऽरुप्येपटेकांस्ये । लिखित्वा यस्तुपूजयेत् ।
 तस्यैवायमहासिद्धिः । गृहेवसति शाश्वती ॥ ५३ ॥ भूर्यपत्रेलिखित्वेदं ।
 गलके मूर्ढिनिवा भुजं । धारितं सर्वदा दिव्यं । सर्वभीति विनाशकं
 ॥ ५४ ॥ भूतैःप्रतैर्गृह्यक्षैः । पिशाचैमुद्गलैर्मलैः । वातपित्तकफोद्रेकै-
 मुच्यते नात्रसंशयः ॥ ५५ ॥ भूर्मुखःस्वस्त्रयीपीठः । वर्त्तिनः शाश्वता
 जिनः । तैस्तु तैर्विदितैर्हृष्टे यत्कलं तत्कलं शुतौ ॥ ५६ ॥ एतद्गोप्यं
 महास्तोत्रं । न देयं यस्यकस्यचित् । मिथ्यात्ववासिने दत्ते । वाल-
 हत्यापदेपदे ॥ ५७ ॥ आचामादितपः कृत्वा । पूजयित्वाजिनावर्लीं
 अष्टसाहस्रिको'जापः । कार्यं स्तत्सिद्धिहेतवे ॥ ५८ ॥ शतमष्टोत्तरंग्रात ।
 येषां देव्याधयो देहे । तेषां नव्याधयो देहे । प्रभवंति नचापदः ॥ ५९ ॥

अष्टमासाऽवर्धियावत् । प्रात् प्रातस्तुय पठेत् स्तोत्रमेतमहातेजो ।
जिनर्विं स पश्यति ॥६०॥ दृष्टे सत्यर्हतोविवे भवेसप्तमके धूष ।
पदग्रान्जोतिशुद्धात्मा । परमानन्दनटित ॥६१॥ प्रिश्ववद्यो भवेध्याता
कल्याणानिचसोऽनुते । गन्धा स्थानपर सोपि । भूयस्तु न निवत्तते
॥६२॥ इदस्तोत्र महास्तोत्रो स्तुतिनामुत्तमपर । पठनात्स्मरणाज्ञापा
छम्यते पदमुत्तम ॥६३॥ इति श्रीऋषिमडलस्तोत्र ॥ सेषक
श्लोकान्निराकृत्यमूलमन्त्रकल्यानुसारेण । लिखित । गणि श्रीकृष्णा
कल्याणो पाठ्याये तस्योपरि मयापि लिखित इद स्तोत्र ॥

॥ अथ श्रीगौडीपार्वजिन वृद्धस्तमन लिं० ॥

॥ (दृढ़ा) गाणी ब्रह्मावादिनी । जागे जगविष्यात पामतला गुण
गापता । मुजमुख घस ज्यो भात ॥१॥ नारगेश्वराहलपुरे । अहमदा
बादै पास । गौडीनो धणी जागतो । सहनी पूरे आस ॥२॥ सुभ
बेला सुभद्रिन घडी महुरत एकमढाण । प्रतिमा ते इह पासनी ।
थड प्रतिष्ठा जाण ॥३॥ (ढाल) ॥ गुणहि विशाला मगलीक माला ।
चामानो सुत साचोजी । धण कणकचण मणि माणकदे । गौडीनो
धणी जाचौजी (गु०) ॥४॥ अणहलपुर पाटण मादे प्रतिमा । तुरक
तण प्रर हुतीजी । अभ्यनी भूमि अभ्यनी पीडा । अभ्यनी धालि
पिगूतो जी (गु०) ॥५॥ जाग तो जक्त जेहने काहिये । सुहणो तुरकनै
आपैजी । पास जिनेसर केरी प्रतिमा । सेषक तुझ सतापै जी (गु०) ॥६॥
प्रहऊटीने परगट कर जे । मेथा गोठीने देजे जी । अधिको
म केजे ओढ़ो मलेजे । टक्क पाचसे केजे जी (गु०) ॥७॥ नहिं आ
पिस तो मारीस मुरडीस । मोर बध बधास्येजी । पुत्र कलब धन
हय हायी तुझ । जान्ति धणी घर जास्ये जी (गु०) ॥८॥ मारग प
हिजो तुझने मिलस्यै । साहययाहजेगोठीजी । निजवट टीको चोखा
चेड्या । घस्तु बहै तसुपोडी जी (गु०) ॥९॥ ॥ (दृढ़ा) ॥ मनसुग्रीहनो
तुरकडो । मानं घचन प्रमाण । बीबीनसुहणा तणो । सभला धैसदि

नाण ॥१०॥ वीरी बोले तुरकने । बड़ा देव है कोय । अवसताव
परगटकरो । नहीं तरमरे सोय ॥११॥ पाछ्लीरात परोडीयि ।
पहली वंधै पाज सुहणा माहिसैठने संभलावै ज़ज़ राज ॥१२॥ (ढाल)
एम कही ज़ज़ आयो राते । सारथ वाहुने सुहणे जी । पासतणी
प्रतिमा तुलेजे । लेतो सिरमत धूणे जी (एम०) ॥१३॥ पांचसैटका
तेहने आये । अधिको म आपिस वालजी । जतन करी पहुचाडे
थानिक । प्रतिमा गुण संभारैजी (एम०) ॥१४॥ तुझने हांसी वहु
फलदायक । भाई गोठीने सुणजे जी । पूजीस प्रणामीश तेहनापाया ।
प्रहउठीने थुणजे जी (ए०) ॥१५॥ सुहणो देझने सुरचालयो । आपने
थांनक पहुतोजी । पाटण माँहें सारथवाहु । हीडे तुरकने जोतोजी
(ए०) ॥१६॥ तुरकै जातां दीठो गोठी । चोखा तिलक लिलाडै
जी । संकेत पहुतो साचोजाणि । बोलावै बहुलाडै जी (ए०) ॥१७॥
मुझ घरि प्रतिमा तुझने आपुं । पास जियेसर केरीजी । पांचसै
टका जो मुझ आये । मोलन मांगु केरीजी (ए०) ॥१८॥ नाणो देइ
प्रतिमालैइ । थानक पहुतो रंगैजी । केसरचंदन मृगमद घोली ।
विधसुंपूजा रंगैजी (ए०) ॥१९॥ गाढ़ी लड़ी रुती कीधी । ते मांहि
प्रतिमा राखै जी । अनुक्रम आव्यापरिकरमाहे । श्रीसंघने सुरसाखै
जी (ए०) ॥२०॥ उच्छ्रव दिन २ अविकाथाये । सत्तर भेद सनात्रो
जी । ठाम २ ना दरसण करवा । आवै लोक प्रभातो जी (ए०) ॥२१॥
(दुहा) ॥ इकदिन देखै अवधर्षु । परिकर पुरनो भङ्ग । जतनकरुं
प्रतिमा तणो । तीरथ अछे अभंग ॥२२॥ सुहणो आये सेठने । थल
अटवी उज्जाड । महिमा थास्यै अति वरणी । प्रतिमा तिहां पुहचाड
॥२३॥ कुशल खेम तिहां अछे । तुझने मुझने जाणि । संका छोडी
काम करि । करतो भकरि संकाणि ॥२४॥ (ढाल) ॥ पास मनोरथ
पूरा करै । वाहण एक वृषभ जो तरै । परिकरथी परियाणो करै ।
एक थल चढ़ि बीजो उतरै ॥२५॥ वारै केस आव्या जेतलै । प्रतिमा

नविच्चाले से तले । गोडी मनह विमासण थई । पास भुवन मडावू
सही ॥२५॥ आ अटरी किम करु प्रयाण । कुटको कोद्दनदीसे पाहला
देवल पास जिनेसर तणो । मडावु किम धरथेविना ॥२६॥ जल
पिन श्रीसधरहस्ये किहा । मिलापदो किम वाँ इहा । चितातुर
ययो निङ्गा लहे । जक्षराज आरोने कहै ॥२७॥ गुहली ऊपर नाणो
जिहा । धरथगणो जाणी जे तिहा । स्वस्तिक सोपारीने ठाणि । पाहणा
तणी उल्लटस्ये खाणि ॥२८॥ श्रीफल सजल तिहा किल जूओ । अमृत
जलनीसरसी कूओ । खायकूता तणो इह सेनाण । भूमि पढ़ो क्वै
नीलो छाण ॥२९॥ मिलापदो सीरोही घने । कोढपरामवियो किस
मिमे । तिहा थकी त इहा आण जे । सत्यवचन माहरो मान जे ॥३०॥
गोठीनो मन घिर थापियो । मिलापदे सुहणो दियो । रोगगमीने
प्रमु आस । पास तणो मडे आगास ॥३१॥ सुपन माहे मान्यो तेपेण
हेम वरण देखाव्यो नैण । गोडी मनह मनोरथ हुआ । मिलाटने
गया तेडवा ॥३२॥ सिलापदो आपै सूरमा । जीमं खीरसाढ धृत
नूरमो । घडे घाट करें कोरणी । लगन भले पाया रोपणी ॥३३॥
थम २ कीधी प्रतली । नाटक कौतिक करती रली । रा माटप
रलियामणा रसे । जोता मानउनो मनउमे ॥३४॥ नीपाया प्रगो प्रामाद
स्वर्गसमो मटु आपाण । दिवस विचारी इन्डोघव्यो । ततखिण देवल
ऊपर चड्या ॥३५॥ शुभ लगन शुभ नेलायास पारामण नेठा श्री
पान । महिमा मोटी भेद ममार । एकलमिलपगडे रहे गान ॥३६॥
गत पुरामांस सामली । तउन माहि सूर्यो साकली । गाठी तणा
गोतरीया अद्वे । यान करीने परने पद्वे ॥३७॥ (दूहा) ॥ पितृन विडा
गा यक्ष जगि । तेहनो अमल मम्प । प्रीत करे श्री ममने । नेहाडे
निज रूप ॥३८॥ गिरुओ गोटी पास जिन । बापे अरथभढार । मा
निध करे श्रीमत्रस्यने । आम्या पूरणहार ॥३९॥ नील पलाण नीज हय
नीलो थइ आमगार । मारग नूका मानवी । घाट दिग्गजण हार ।

॥४१॥ (द्वाल) ॥ वरण अढार नगो लहै भोग । विघ्न निवारै दाले
 रोग । पवित्र थई समरै जे जाप । दाले सगला पाप संताप
 ॥४२॥ निरधननदि धरि धन नो मृत । आप अपुत्रीयाने पुत्र । काय
 नने सूरापण धरें । पार उतारै लच्छी वरै ॥४३॥ दो भागीनेदे मोभाग ।
 पग विहरणाने आपै पग ठामनहीं तेहनें व्येठाम । मन वंहित प्रै अभि
 राम ॥४४॥ निरधारख्या ने थे आधार । भवसायर ऊतारै पार ।
 आरतीयानी आरत भंग । थरै ध्यान ते लहै सुरंग ॥४५॥ समख्या
 सहाय दीये बक्ष राज । तेहना मोदा अँकै दिवाज । बुद्धि हीणने
 बुद्धि प्रकाश । गूँगाने थे वचन विलास ॥४६॥ दुखियाने सुखनो
 दातार । भय भंजण रंजण अवतार । दंथन तै वेडी तणा । श्री
 पार्वतीनाम अक्षर समरणा ॥४७॥ (दुहा) श्रीपार्वती नाम अक्षर जपै ।
 विश्वानर विकराल । हस्त यूथ दूरे दलै । दुद्धर सिंह सियाल ॥४८॥
 चौर तणा भय चूकै । विष अमृत उडकार विष धरनो विष ऊतरै ।
 संग्रामे जयजयकार ॥४९॥ रोग सोग दालिद्र दुख । दोहग दूर
 पुलाय । परमेसर श्री पासनो । महिमा मन्त्र जपाय ॥५०॥ (कड-
 खानी चाल) ॥ उंजितु २ उंज उपसम धरी । ऊँ हीं श्रीं श्रीपार्वती
 अक्षर जपतै ॥ भूतने प्रेत भोटिंग व्यंतरखुरा । उपसमैवार इकवींस
 गुणते (उं०) ॥५१॥ दुद्धरारोग सोगाजरा जंतने । ताव ऐकांतरा
 दुत्तपतै । गर्भवंधन ब्रणं सर्प विच्छू विपं । चालिका वालमेवा
 झंखतै (उं०) ॥५२॥ साइणी डाइणी रोहणी रंकणी । फोटका मोटका
 दोशहुंते । दाढ उंदरतणी कोल नोला तणी । ख्यान सीयाल विक-
 राल दंते ॥५३॥ (उं०) धरणेद्र पद्मावती समरणोभावती । वाट
 आघाट अटवी अटतै । लखमी लोदु मिलै सुजस वे लाउलै । सयल
 आस्था फलै मन हसंते (उं०) ॥५४॥ अष महाभय हरै कानपीडा
 दलै । ऊतरै सूल सीसगमणतै । बदत वरप्रीतसुं प्रीति विमल प्रभू ।
 श्रीपास जिण नाम अभिराम मन्तै (उंजितु) ॥५५॥ ॥ इति श्रीगोडी
 पार्वतीनाथ जी बृद्ध स्तवन समाप्तम् ॥

Printed by
H. C. Mitra, at the Visvakosha-Press,
9, Visvakosha Lane, Baghbazar,
CALCUTTA.
1920.

श्री धीतराणगायत्री नम

अथ दर्शन गुटका द्वितिय भाग प्रारम्भते

चिदानन्द जी सम्बेगी थृत जैन, लिंग, निर्णय पुस्तक सम्बन्धत
१९७४ की चर्नी प्रथमा थृति मुकाम जीरन जिला निमच की भूमिका
के पृष्ठ ४ पक्कि २० मे लिया (उपग्रामानि मे धौवन का पानी
न पीना) अर्थात् लोगों को उपग्रामादि मे धौवन पीने का पचासाल
कराया तैना उत्तर श्री ठाणाय जी आणे ३ उदे से ३ मे भगवन्त
ने परमा [चउथ भन्तिय समण मिगुस्स कप्पई तउ पाण गाइ पडि
गाहिता त उसे इमे १ ससेइमे २ चाउल धोपणे ३ छठभतियसमण
भिगुस्स कप्पड तउ पाणगाइ पडिगाहिता त तिलोदा १ तुमोला
२ जबोण्ण ३ । इस पाठ नी टीरा अभयदेव सूरी त्रिवचित ।
(ज्. द्वेदन निर्वृत्त मुवस्वेदिम येन वीक्षादि पिष्ट मु रायर्थ ज्ञ
मेवते तवा मसेरेन निर्वृत्तमिति मसेकि म अरणिमानि पत्र शाक
मुन पाय येन शीतल जले न स सिन्धते तन्ति त दुल धामन
प्रतीत मैत्र तिलोदपा दि तन्त्रज्ञालन जल नवर तुपो दक ब्रीहुदव)
ऐमाही सूर पाठ थी पर्यु पला 'वल्प' विच समाचारियो मे थी हेगा
उपरोक्त सूर्यो के पाठ और टीरा से लो उपराम ॥ और चेले घाले
को चामल १ तिल २ जय ३ वाखोपन शाक उपले का पानी
लेना पल्प जिमका पाईने अपछुडे पन से लोको को पचासाल
कराया सो सूर विश्व पाय विया है फेर जै० लिं० निं० भूमिका
पृष्ठ ५ पक्कि ६ "मे लिया (हम तीन विषय उपर व्याग्र्यान देंगे
उम विषय को लिये पर मव जगह इग्निहार लगा दो) फेर पक्कि ७।

१३ में लिखा (तीसरा मूर्ति विषय में भादो सुद द वृहम्पति वार को दिया जायगा ऐसा महाराज के फरमाने से हम लोगों ने इश्तहार गांव के मौके मौके पर लगा दिये) तेना उत्तर श्रीसूरांडग जी अध्येन २१ में निश्चे भाषा बोलनी वरजी हैंगी और गृहस्थ से कार्य कराने का कल्प भी साधु का न चला और इश्तहार लगवाने की रीती भी श्री सुर्यमा स्वामी जी आदिक की न चली इसमें भी अपश्चिंदे पन से सूत्र विरुद्ध कार्य किया है केर भूमिका पृष्ठ ६ पंक्ति १६ में लिखा है (साधु को पहर भर दिन चढ़े के बाद भोली पात्रा लेकर गृहस्थ के मकान पर जाना) उद्दे के बाद भोली पात्रा लेकर गृहस्थ के मकान पर जाना) तेना उत्तर श्री वृहत कल्प उद्दे से ५ बोल ६ में [भिखुण उप्रे वित्तीए अणथ मिए संकप्ते] पहला भिखु की सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहेले तक की वृत्ति हैंगी इमही श्री नसीथ उद्देसे १० में [जेभि खुउप्रे वित्तीए अणथमिए संकप्ते] उपर मृजिव पर्हप्तिसकारण पहर भर पीछे को एकांत छेचने से सिव्यात का कारण होजावेगा और नित भोजी को एक वक्त गोचरी करनी वीचली श्री दसवी शालिक अधेयन ६ गाथा २३ में एक वक्त भोजन करने वाले को सदा काल तपस्वी वी पहला हैगा और श्री पर्युषणा कल्पविच संमाचारियो में [वासा वासं पञ्जो सवियाए निच्चं भतियस्त भिखुस्स कप्पइ एं गोयर कालं गाहवइ कुलं भत्ताएवा पाणाएवा निखमि त्तएवा पविसित्तए वा ननथ आयरिए वेया वच्चेणांवा १३ वक्ताए वेया वच्चेणांवा २ तवसी वेया वच्चेणांवा ३ गि लाणं वेया वच्चेणांवा ४ खुडुणाएवा वेया वच्चेणांवा ५ खुडियाप्पणं वेया वच्चेणांवा ६ अविजण जाएणं वेया वच्चेणांवा ७ चउथ भंति यस्स भिखुस्स कप्पइ अयं एवइए विसेसे उजंसे पाडं निखम पुञ्चा मेव वियडगं भुञ्चा पिच्चा पटिग्रहं संलुहिए संप भजेजा सेयं संथरे उजा कप्पइ सेतं दिवसं तैखेव भातेणं पञ्जोस वित्तए सेएनो संधरेउजा एवंसे कप्पइ दोञ्चपि गाहावइ कुलं भत्ताएवा पाणाएवा निखमित्तए वा पविसि त्तएवा द छट भर्त्तयभ्स भिखुस्स काप्पइ दो गोयर कालं

गाहान्द शुल भत्ताएवा पाण्णाएवा निरमित्तएवा पविसित्तएवा ६
 अठम भन्नियस्स भिखुस्स कप्पइ तउ गोयर काल गाहान्द शुल
 भत्ताएवा पाण्णाएवा निरमि तएवा पविसित्तएवा १० विकिंड भन्नियस्स
 भिखुस्स कप्पइ सज्जेनि गोयर कालगा हावइ शुलभत्ताएवा पाण्णाएवा
 निरमि तण्णा पविसीत्तएवा ११] इन उपरोक्त पाठों में भगवन्त
 ने पहला नर्साकाल में नित्य भोजन करने वाला एक वक्त गोचरी
 जावे परन्तु आचार्य आदि सानकी वेमापच के कारण जाने की
 वात न्यारी है, चउय भक्त के पारने में ये निसेष है कि पहले
 भोगी ने पात्रे पूजी ने रथदै अगर उसी में रहा जावे तो उसी
 में रहे अगर उसमें न रहा जावे तो दूसरी बार गोचरी को जार
 म वेले के पारने में दो काल गोचरी जावे “तेले दे पारने में
 क्षीन काल गोचरी जावे १० तेले से ऊपर के तपके पारने में
 भवं काल गोचरी जाने का कल्प परना ११ इन ऊपर लिखीत
 पाठों को देखता सूयोंदय से पहर भर पीछे एक दफे को सेचना टीक
 नहीं और अपने लिए आहार पानी के बान्ते एक घर में चार
 बार जाना तो किसी सूत्र में कहा नहीं ये तो स्वेछद पणे का
 कार्य हैगा फेर भूमिका पृष्ठ १० प० १ ये लिखा [आप
 मुहूर्पति मुख्यपर वाघते हैं और गृहस्थियों को व्यर्थते हैं] तेहना
 उत्तर श्रीमान शुकर मुनि जी ने मुख्यस्थी कारी प्राचीनता मिद्दा
 प्रथ ऐ पृष्ठ १८ में ये लिखा उद्योत सागर जी रचित “श्री
 सम्य कल्यमूल वारावतनी दीप पृष्ठ १२१ प० १२ शा० भीमसिं
 माण वे सम्बन १६५४ द्वितीया वृति वीच ये द्वया सामायिक नत
 ने शाष्ट्र अभ्यास पर यो होय तो जतणा युक्त यह मुहूर्पति मुग्ने
 वार्धीने पुस्तक ऊपर ड्रिटि रामी भणे तथा साभले’) यहा वार्णी
 ऐ पूर्ण चार्य ने आगा रो मुख्यरति से मुनि वाघ कर शाष्ट्र
 पदने मुने यी आज्ञा नी है ॥ धी उच्चाइ जी मे कोणिङ राजा
 का श्री भगवतो जी शान्त २०५ मे तूरीया नगरी वे श्रावणा-
 दिवा [एग साहित्र उत्तरा भग] से मुर्दारी ममोमरण मे जाना

चला हैगा जो श्री उपासगदसा जी दूजे अंयन में कामदेव जी का श्री भगवती श० १२ उ० १ में संख जो का पोसे सहित समो सरण में विना आभिगमन जाना चला तिहा तो वादी खुले मुख समो सरण में जाना कढ़ापी नहीं कह सक्ता: फेर भूमिका पृष्ठ १० पंक्ति १२ से लिखा (ग्रन्थ बनाय कर हमको दीजिये सो हम उस ग्रंथ को छपाय कर प्रसिद्ध करे जिससे जैनी भाई आत्मार्थी शुद्ध जिन धर्म को अंगोकार करें इस रीति से हमने महाराज साहब से अर्ज किया तब महाराज साहब ने कहणा सहित भव्य जीवो का उपकार जानकर लिंग निर्णय अर्थात् कुमति कुलिंग भरमोच्छेन भास्कर रचा और हम लोगो को दिया) देखो भविक जनो जब ग्रहस्थी यो ने प्रथम ही छपवाने के बास्ते ग्रंथ बनाने को कहा और वादि ने छपवाने के बास्ते ग्रंथ बनाके दिया तब वादि के तीन कर्ण तीन जोग शुध कहां रहे क्योंकि कागज छपवाने से पहिले पानी में अवश्य भिगोय जाते हैं और पानी में निगोदादि जीवो की नीमा सब जैनी मानते हैं तिन जीवो का बद्धक जैन लिङ्ग निर्णय ग्रंथ का कर्ता हुआ ॥१॥

प्रश्न २

जैन लिंग निर्णय पृष्ठ ३ में तथा सल्योधार पृष्ठ ५ में श्री प्रश्न व्याकरण जी के पंचम संवर द्वार से पाँड लिखा और पृष्ठ ४ पंक्ति ८ में उपरोक्त पाठ का अर्थ लिखते हुये अर्थ में लिखा (यह चौदह उपगरन के नाम जुदे जुदे कहे) प्रथम तो पाठ में (चौदस्स) ये शब्द कहा नहीं दूजे वादीने १४ उपग्रहों में तीन पछेबड़ीयो के तो तीन उपगरण गिनाय और तीन पडलोका एक ही उपगरण गिनाया इस का कारण यह है कि मुखपत्ती को गिनती में एक ही थापने के लिए वादी ने यह जाल रचा है क्यों के दूजी मुखपत्ती न होगी न थूक से भीगी हुई को बदलना कायम होगा इसी बास्ते जै० लिं० नि० पृ० ८ पंक्ति १२ में ये लिखा (चौदह उपगरणों में तो मुखपत्ती एकही गिनाई है तो किर

दूसरी मुहफती यहा से आइ) इसका उत्तर एक तो वादि लिखित
लेख पृष्ठ ७८ प०८४ का है जो ये लिखा है (पुस्तक हाथ में
लेकर भन्य जीर्णों को उपदेश देने वाला कान में मुहफती ढालकर
नाक और मुह को ढक कर देसनादे सो भी देसना के काल में
वाच में मुहफती को बदले जिससे वृभादि लगे तो छमोङ्गम जीवकी
उत्तपत्ति नहो) जब मुह पती एक ही है तो केर मुहफती बदले
क्यों लिया और जो मुहफती बदलनी माने हैं तो चौदा उपगरणों
में मुहफती एम्ही गिणाड़ स्यौं लिया यह तो वादिका लेख परसपर
विस्त्र भी होगया । दूसरे पन्यास जी रत्नविजय जी गणिकृत
मुहफती चर्चा सार नामक प्रथ में यति निन वृत्त्य ॥१॥ यति
दिन चर्चा मात्र चूरि और सटिक यति दिन चर्चा ॥२॥ प्रवचन
सारोद्वार ॥३॥ वृहत्कल्पवृत्ति ॥४॥ ओधनियुक्ति अवचूरि तथावृत्ति
॥५॥ आचार दिनपर ॥६॥ पच वस्तु प्रकर्ण वृत्ति ॥७॥ इन ७ प्रथों
में दो मुहफती रामनी सिद्ध करी हैं और हरी भद्रसूरि ने तो
१ चार ग्यूणी दूड़ी त्रण खूणी तक लिय दी हैंगी ॥ और आचार
दिन पर प्रथ में आठ पुडत की मुहफती वी लिय दी हैंगी
और सावचूरि यति दिन चर्चा ॥८॥ शाल वार्ता समुच यवृत्ति
॥९॥ व्यवहार भाव्यवृत्ति ॥१०॥ इन तीन प्रयों से । लिंग अर्थात
चिन्द ते भेष वास्ते वी मुहफती वाधनी सिद्ध करी हैंगी । जिम
लिंग के वास्ते श्री उत्तरायेन जी २३ गा० ३२ से जै० लिं० नि०
पू० १२ में लिखा [लोगे लिंग पश्चोयण अर्थात् लोकों में लिंग
का प्रयोनन हैंगा ॥१२॥ और मूहफती चर्चामार पृष्ठ ७७ में
व्यवहार भाव्यवृत्ति से मुलामा लिया है मृत मुनि के मुग्धपनि
न धाघे तो चार गुरु प्रायनिद्वृत अने आज्ञा भग दोष लागे और
मृत मुनि देव थया मिव्यान पाने ॥ इस कारण से वी लिंग दमेशा
धारण फरना लानमी हैंगा लिंग में मुग्धपति और रजो हरना मुग्ध
हैंगे । तीजे तिहातो [मुह खतग मा दिय] ये पाठ चला जिसमा
अर्थ मुहफती आदिक होवे तेहनी टीना (मुग्धानन्तर मुग्धपत्रिका

एपां द्वन्द्वः तत एतान्यादिर्दस्य तत्तथा एत दर्पिच) उपरोक्त सूत्रपाठ और टीका की साथ से और अनेके ठामे सूत्रों में जो जो इनसे अलायदा और उपगरण निम्न लिखित परुपे उनका ग्रहण इस (मादिये) शब्द से हैंगा ते लिखिते (अ) श्री प्रश्नव्याकरण जी के प्रथम संवर द्वार की पांचवीं भावना में परुपा [पंच मर्ग पीढ़ फलग सेज्जा संथारण वथ पत कंवल दुंडक रथहरण चोलपट्टग मुहपोत्तिय पायपुष्टेणादि एवंपि संज्ञमस्स उववृहण ठयाय वाताताप दंस मंसग सीय परिरखण ठयाए उवगरण रागदोस रहियं परिहरिय व्यं] इसकी टीका (पंचमर्गाति पञ्चम भावना यस्तु आदान समिति निक्षेप समिति 'लक्षण एतदेवाह पीतादि द्वादश विधि मुपकरण मपि शब्दादान्य मपि संयम स्योप वृहणार्थ तथा संयम पोपणायतथा वाताताप दंश मशक शीत परि रक्षणार्थं तया उर्पकरण मुपकारकं उपधी राग द्वेष रहितं क्रिया विशेषण मिदं परिहरियन्वति परि भोक्तव्यं नविभूपादि निभित्ति मिति) (इ) श्री प्रश्नव्याकरण जी के तीजे संवर द्वार में परुपा [जेविय पीढ़ फलग सेज्जा संथारण वथ पाय कंवल दुंडग रत्नोहरण निसेज्ज चोलपट्ट मुहपोति प्राय पुष्टेणादि] इसकी टीका (जेवि इत्यादि यो पिच पीढ़ १ फलक २ शम्या ३ संस्तारक ४ वस्त्र ५ पात्र ६ कंवल ७ मुखपोस्तिका ८ पाद् प्रोच्छनादि) इस उपरोक्त सूत्र पाठ में परुपा पीढ़ते चौकी १ पाटिया २ मकान ३ वासवा पलाल ४ वस्त्र ५ पात्र ६ कंवल ७ दंडा ८ रजोहरणते ओगा ९ वैठने का आसन १० चोलपट्टा ११ मुखपती १२ पायपूष्टनादिक १३ इन उपरोक्त पाठों से और टीका में वादी लिखित पृष्ठ ३ और ४ सेकई उपगरण अधिक चल गए यहां वादी के १४ उपगरणों की गिणती कहां रही (उ) श्री वृहत्कल्प जी उद्देशे १ में परुपा [कणई निव्रथाणंवा निग्रथीणंवा चेलचिल मिलियं धारित्तेवा परिहरित्तेवा] इस पाठ में निव्रथ २ को चिलमिली ते मसेरी रखनी भोगनी पर्हाई (ए) आगे उद्देशे ५ में [कणइ निव्रथाणं आकुचण पट्ट्यं धारीत्तेवा परि-
निग्रथी

हरीताणक] यहा परुणा निषयको आनुचया पट्ट रखना भोगना कल्पे और ममकिल सल्यो द्वार पृष्ठ ३०-३४ पकि १६-२१ में लिया है (श्री भगवती, आचारण तथा दशवैकालिक सूत्रमा सातु ने दाढ़ी रातवो कही है) ये पाठ श्री भगवती जी शा० ८ उ० ६ [एवं गोल्ग रथहरण चोलपट्टग कपल लट्टी सवाग चतुर्वया भाणियन्ना] (ओ) श्री वभार ७० ८ थोल ५ में [धेराण येर भूमि पत्ताण अप्पहै दहाणा १ भडप्पा २ छत्ताणा ३ भडगवा ४ मत्ताणा ५ लठियवा ६ मिसियवा ७ चेलवा ८ चेलचिलिमिलियवा ९ चम्मवा १० चम्मकोसैवा ११ चम्मपलिछेप्पा १२ भविरहिण उवा से ठवेता प्र हाड़ कुल भत्ताणा पाणाणा पविसितएना निरुमित-प्पा अप्पहै से नियट्ट चारीण दोच्चपि उगद अणु खेता परिहार परि-हरिताणा ५] उपरोक्त १२ उपगरण वृद्धरथेवर के घास्ते परुपे फेर जै० लि० नि० पृष्ठ ४ प० २० में लिया (और जो उपर लियित उपगरणों से विपरीत होगा वो असाधुया भगवेत आहा पिरोधक और मिल्या है इहै) तेहना उत्तर श्री प्रभव्याकरण के थादी लियित उपगरणों से ज्यादा जो उपरोक्त सूत्रों में परुपे निम्न लियित कैवल १ दैहा ८ लट्टी २ निसेन वा भिसियै ३ चिलिमिली ते मसेरी ४ आउ चण्पट ५ छत्ता ६ मत्ता ७ और चर्मै के ३ थोल याने उग-गरण ये १० उपगरणों मात्रे उपगरण रखने थाला मुरि यी थादी के पहले थुजिप्र अमातु भगवन्न आहा पिरोधक मिल्या है इहै गा फेर जै० लि० नि० पृष्ठ ८१ प० १ में ये लिया उपर पट्ट मुनव इने पे णाम मे ८ होने से तुम्हो आर्ही माटूम होनायगा तेना उत्तर (अै) श्री भगवती जी शा २५ ३० ६ में ये [नेविलै उपगरण दायो गोप्यरिताय एगे यथ एगे पाण गियोशारण माटून-गुगा] (४) श्री उपगरणी भ धी ऐमा हो [एगे यथ एगे पाण गियोपगरण माटूणगा] पक्का एव ब्र ८८ पाद प्रोत पारी या रानीना उपगरण भाग (४) यो गागा चो टाग ३ ८० ३ म यि [उपगरणो आगवा निष्ठा ५३ एगे यथ एगे पाण गियो

वहि साइजण्या] ऊपर मूजव एक बख्र एक पात्र पहुणा (ग) श्री
 आचारांग जी १ सुतखँय अःयेन ७ उ० ४ में [जे भिन्नु तिर्हि वथेहिं
 परिद्विसिए पाएचउथेहिं तस्सर्णे नो एवे भवड चउयै वथै जाइ सामि
 से अहेसगिजाइं वथाइं जाएजा अहा परिगद्धाइं वथाइं धारेजा नो
 रएजा नो धोवेजा नो धाउरनाइं वथाइं धारेजा अपलिउच्चमाणे गामत-
 रेसु उमचेलये एव्यू वथै धारियस्स सामाप्रियै अह पुण एवे जाएजा
 उवाइ क्रेतं खलु हेमते गिन्हे पडिवरणे अहा परि जुणाइं वथाइं
 परिठ वेजा परिठविता अदुवा सेतर उतरे अदुवा अवम चेलाए अदुवा
 एस साडाए अदुवा अचेले लाववियै आगम माणे तवेसे अन्निसमणा
 गराभवति] यहां पहुणा जो भिन्नु ३ बख्र चौथा पात्र राखे ते रँगे
 धोवे नहीं ग्रीवम काल आया थकां जीर्ण बख्र परढे पहरवाला यक
 बख्र राखे वा दो बख्र राखे वा एक बख्र राखे वा न राखे यहां वटी
 के १४ उपगरणों की गिणती कहां रही (घ) आगे उदेशे ५ में पहुणा
 [जे भिन्नु दोहिं वथेहिं परि द्विसिए पाए ततिएहि] जो भिन्नु दो
 बख्र तीजा पात्र राखे (ड) आगे उदेशे ६ में पहुणा [जे भिन्नु एसे
 वथेणां परिद्विसिए पाए वीए] जेभिन्नु एक बख्र दूजा पात्र राखे पिण
 दूजा बख्र राखे नहीं (च) और श्री आचारांग जी सुत खंद २
 अःयेन ५ उ० १ में ये हृष्टवा [जेनिव्रंथे तरुणे जुरावै व लवै अपा
 यंके थिर संवयणे सेणं एगै वथैधारेजा नो वितियैवा] जो भिन्नु
 तरुण निरोग सामर्थ वान होवे ते १ बख्र राखे नहीं राखे दूजा ऐसे
 ही अःयेन ६ उ० १ में तरुण भिन्नु को एक पात्र राखना पहुणा ते
 देख लेना जी ॥२॥ (प्रश्न ३) और जै० लिं० निं० पृष्ठ ३ पक्षि
 २४ में ये लिखा (पडिलाइ तिन्नेवेया कहतां तीन प्रत कपडाके उनि-
 याले मे चौमासे मे पांच प्रत पात्रा कू ढकने के) इसकी टीका में
 कहा (पटलानि भिन्ना वसरे पात्र प्रश्छाद्कानि बख्र खण्डानि तानिच
 यदि सर्व स्तोकानि तदा त्रिरिगा भवन्ति अन्यथा पंच सप्त चेति सवसे
 थोड़े तीने तथा ५ वा सात परन्तु मूल पाठ मे ३ पडले चले जो
 कहेगे तीन तो ग्रीष्म मास काल आश्री चले उनके कहने मूजव तो पछे

वही भी श्रीपम काल में ३ और हेमत में ५ वा ७ रग्वले जै० लिं० नि० पृ० ७-८ में श्री विपाक मूर्त से भगवत् गोतम स्नामी जी ना पाठ लिरके उसकी युक्ति में पृ० ८ प० १२ में लिपा (चौदह ३५-गरण में तो मुरगपती एक ही गिराइ हैं तो किरदूरी मुहूपती कहा से आइ) वादी के कहने की अपेक्षा से पात्र का त्रोल । होने से पात्र वी एक ही रखना आहिये परन्तु श्री दसासुत राध जी के अपेक्षा जो के पर्यूपण वत्प वी कहलाता है उसकी ममाचारियों में ये चला [नासा वासै पउनो सवियाए कपइ निवेथाण वा निवेथीलना तज मतगाइँ निरिहतए तें० उच्चार मता १ पास चण मतण २ लेलमत ३ ३] जै० लिं० ५ नि० पृ० ८ प० २६ में ये लिपा (मृगादेवि ने नामिका वाध ने को कहा और उन्होंने मुग वाधना लिय दिया नो सूत्र गलत ठहरे) तेना उतर श्री अग्नुयोग द्वार जी में मे पाठ चला [ऐक्षित आयुँ गले २ जेण जया मणुस्मा हवेति तेसि तया अपश्चपणो अग्नुलेण दुषालस्त अँगुलाइँ मुहै नव मुहाइँ पमाणे जुते पुरिसे] इम पाठ में परमा जो जिस वत्त ना मनुष्य होवे थो आप आनने अँगुल रखे १२ अँगुल का मुग होवे और ६ मुग वा प्रमाण जुक पुरिए होवे अर्वात १०८ अँगुल का ते याहा उच्ची करे वके वा प्रमाण चला । और श्री प्रन व्यापरण जी के चौथे आश्रय ढार में जुगलानी थे अलापे थिए ये पाठ चला [यद्यणा यास पमाण दुगुणीय रिमान ममल मुगद जहरा नर धारणी॒] इसकी टीका (फटिर्यसा तानवा वन्नायामस्य मु शीर्षत्वस्य यत्प्रमाणे ततो द्विगुण चनुर्दिरागगुल मित्यर्थ) ऐसा ही पाठ धी जन्मू दीप पानी में धीपला इम सूत्र पाठ और टीका में पद्मा दो मुग की सम्याइ ते २१ अँगुल प्रमाण कमर होवे ॥३॥ इसी मूजव थीनीपा भेगम जी में चार जीवा थी पहीनी में अन्तर दीपा के आलापे मै मूत्र पाठ और अर्थ हैगा त देव नेता जी शा और श्रा पण-शता वी थी मलया गिरी टीका में चला (यद्यलायाम वन्नायाम प्रमाण विनुगा मामल यिशान जब्य धारि एय) ॥ भी द्रोता जी

अध्यन पंहले में (आरोद्यं सुपुन्न मुहे) इहां तो भगवत् के फर-
 माने से मेघ जी नामक साधु जी को जाति समर्थ जान उप जा-
 यका दुगुण सेवेगकरि आनन्द के आश्रु से पूर्ण हुवा मुख अर्थात्
 चेहरा ॥ ५ ॥ इण्ठा उपर के पांच सूत्र पाठ और टीका दिकि
 न्याय से मुख १२ अंगुल का सिध हुवा तेठोडी से मस्तक
 तक आया तिरणन्याय गोतम स्वामी जी महाराज का जो पाठ चला
 तिहां नासिका आसरी मुख कहा हैगा जी और श्री गोतम स्वामी
 जी महाराज के दूजे आदेश (मतान्तरम्) वाली ज्यंस नासिका
 मुख दोना ढहने वाली (पॅच बखु प्रकरण वृत्तिय) कहे प्रमाण
 होगी क्योंकि १६ अंगुल के चौरास बख से ८ आठ मुड़त बनाने
 (आ चार दिन करे) उपकरण धिकारे ३० में उदय में चले ते
 जीव दया और लिंगार्थ सदेव मुख पर वधी रहने वाली थी,
 दूजी नासिका मुख दोनों ढकने वालों से मुख बांधने वाली ज्यंस
 बावत राणी ने कहा हैगा ॥ ३ ॥ (प्रश्न ४) जै० लिं० नि०
 पृष्ठ १० में श्री आचारांग जी सुतखड २ अध्येन २ उद्देशे ३ से
 ये लिखा [सेभिखुवा भिखुणीवा उसासमाणेवा १ निसासमाणेवा
 २ खासमाणेवा ३ छीयमाणेवा ४ जंभायमाणेवा ५ उड्डुएमाणेवा
 ६ वायनिसमेवा करेमाणेवा ७ पुञ्चामेव आसयंवा पोसयंवा पाणिणा
 परि पेहिता तउ संजया मेव उसांसेज्जा जाव वाय एसगेवा करेजा
 ये पाठ लिखकर फिर जै० लिं० नि० पृष्ठ ११ पंक्ति १ में दुतिय
 अर्थ में तथा सल्योद्वार पृष्ठ ५४ में लिखा देखो इस पाठ में
 खासना वा छीकना वा जभाई का लेना अथवा डकार का लेना
 ये सब चीज मुख से होती है तो जब मुख बांधा हुआ था तो
 फिर ढाकना क्यों कहा तेना उत्तर अद्वल तो बादी ने इस ठिकाने खासना
 आदिक ४ बोल तो लिखें परन्तु उसास निसास ये दो बोल गोपलिये
 इसको कारण जै० लिं० नि० पृष्ठ ३३ पंक्ति ११ से, समझो तिहां
 भासा के साथ उसास को चौफरसी लिख कर चौफरसी से अठ
 फरसी वायुकायकी हिंसा उथापी है इस कारण दिग्गी चुकाने के

यास्ते ये दोद्वोल याने उमाम निमाम लिया नहीं ते पृष्ठ ३३ प०
 ११ से १८ तक मे यू लिया (भाषा १ उड्यास २ मन तीन और
 कारमन ४ सोले गुणपामे इसलिये इनकू मूक्तम अर्थात् छोटी
 परगना कया इम वास्ते बुद्धिमान आमार्था निचार करना चाहिए
 कि वायु कायना जीव उदारिक शरीर वाला है सो उदारिक घर
 गना से बना हुआ है सो उममे आठ स्पर्श है और भाषा भर
 गना मे चार स्पर्श है तो फेर भाषा से वायुमाय की हिमा होती है
 भे बात बुद्धिमानो की बुद्धि मे अमम्भय है योकि आठ घर्ष के
 घालक को चार घर्ष का घालक नहीं मार सके) दूसरे यार्णी चौकरसी
 औ अठकरसी भरे नहीं तो जिस उश्याम खो जादी ने चौकरसी
 मे वी लिया और चौकरसी से अठ फरमी का मरना भी अम-
 म्भय लिया फेर श्री आचाराग जो मे उश्याम लेना या हाथ से
 मुख का ढकना क्यों ४-३ तिम कारण यार्णी भा लियना सूत्र विस्तृ
 भी हुआ और परस्तर विनय भी हुआ अथात् श्री आचाराग जी
 के उपरोक्त पाठ से प्रन्यन मिद्दू हुआ जिस उश्यास आज्ञा से वायु
 माय की हिमा होनी है तिम कारण विषेश न्या के निमित हाथ
 से ढकना कहा हैंगा तो मरे यार्णी ने जै० लिं० निं० पृष्ठ ७८ प०६ में
 स्थय ये लिया (नाम और मुह को ढक कर देमना दे) ते नाम
 ढकने का कारण तो नाम रे उश्याम निमाम से याय भाय की
 हिमा टानने का है जिसमे यार्णी ने जै० लिं० निं० पृष्ठ ३३ प०
 ११ से चौकरमी से अठ फरसी भी जिमा होना अमम्भय लिया
 है चौथे, यार्णी के लेमे चोलपट्टा नर्धीया होना तो याय निमग्न करता हाथ
 के ढकना क्या चना इससे गने का चोलपट्टा हनेशा से वयेवे
 का न ऐद परना पड़ेगा कारण यह है कि याय निमग्न करता
 उपरोक्त भी आचाराग नी मे हाथ से ढकना पहला हैंगा उपरोक्त
 लेप्तरा समायान यह हैगा कि विगोर नना रे चाने नाम सुप
 अधो द्वार का हाय से यी ढक कर श्री आचाराग जा मे पस्ये
 नामो कार्य करे पाचबा श्री दत्तरा भ्येन जी आयें २५ गाया २१ और

२३ में ये पत्रा [सरंभे समारंभे आरंभेण तद्वाए मणः पवत्त माणंतु नियत्तिज्ज जयं जडे २१ सरंभे समारंभे आरंभेण तद्वाए वयं पवत्त माणंतु नियत्तिज्ज जयं जडे २३] इसकी ए टीका (तथा समरम्भः पर पाठा करोच्चाटन कीलनादि निवन्धनं यानं तत्रापि प्रवत्त मानं मनो निवारयेत २१ सरम्भः पर जी वस्य विनाशन समर्थः दुष्टं विद्यानां गुणन समारम्भः परेषां परिताप कारक मन्त्रा दी नां मुहु मुहैः परावतनं तथैवच आरम्भः परेशा क्लेशो च्चाटन मारणादि मन्त्र जाप करणं तत्रापि प्रवर्तमानं निवारण् २३) मन से मनत्रादिका ध्यान करके वचन से मन त्रादिका जप कर के जो हिंसा होवे ते मन वचन चौकरसी से तो मनुष्य तक वीवज्ज हो सकता है फिर बायु काय की हिंसाका तो कहना ही क्या रहे गया उपरोक्त पाट टीका अथे से साफ जाहिर होता है के चौकरसी से अठ फरसी को घात होवे छठे श्री पण्डिता जी पद ११ मे [गो० भिणाइंपि अभिणाइं पि निसरइ जाइं भिणाइं निसरति ताइं अणंत गुण परिवड़ माणाइं २ लोगंतं फुसंति] इसकी ए मलियागिरी टीका (यानि तीत्र प्रयत्नो वक्ता प्रथम तए व भिन्नानि निष्टज्जति तानि सूक्ष्म त्वा द्वहु त्वाच्च प्रभुता न्य न्या निंदें द्रव्याणि वा सर्यति तदन्य द्रव्य वासकत्वा देवचा नंतगुण वृद्धा परिवर्द्धमानानि पट्सुदिक्षु लोकांतं प्राप्नुवं तीत्यर्थं उक्तं च भिन्नाइं सुहुमयाये अणंत गुण वटियाइ लोगंतं पावंति पूर्यंति भासाए निरंतर लोगो) और जाडे के मौसम में खुले मुख बोलने से विशेष धुवां निकलता दिरके क्या वो चौकरसी दिरके सातवे श्री पण्डिता जी पद ३६ मे [वेदणा समुद्यायणं समोहय एवं जैव जीवणवरं नेरइया भिलावो एवं निर वसेसं जाव वेमा णिए] इहां वेदानो समुद घात करने में जावत पांच किरियात क पह्पी ते वेदनी समुद घात के पुद्गल चौकरसी होवे तिनमें पांच किरिया जब कहड़ी फेर ज्ञावघात चौकरसी से होने से क्या सन्देह वाकी रह गया इमही कपाय समुद घात को वी जानना

चाहिये । जै० लिं० निं० पृ० १२ पक्ति २३ में ए लिखा (यथापव
लिग धरतन करना चाहिये जिससे , लोग माधु और पूज्य जाने
क्योंकि प्रतीत होय चौही यती का भेष होय) तेना उत्तर जै० लिं०
निं० पुस्तक के कर्ता को मत पक्ष रूपी तिमर अनधकार ने इतना
प्रस रखा है कि उसको अपने पूर्वा चार यो के रखे हुवे ग्रन्थों में
चले हुए निम्नलिखित पाठ वृति दीना व गैरा से निरुद्ध लिखते
हुये नी शर्म नहीं आहे ।

आचार दिन कर प्रथ धीच उपकरणाधिकारे ३० मे उदय
में ये पाठ और उमरी दीक्षा लिप्ती (चउरगुल विद्या इत्यादि
॥ १ ॥ मपाइम० इत्यादि ॥ २ ॥ अथ दीना नितस्ति रचन्त्वा रोहु-
लारच एत शतुरम्ब मुग्यवन्धिका प्रमाणम् तस्य समाख्येना वष्टस्य पालिं
वामतो विधाय तन पर भज्ञनेन दिगुण कुर्यात् पुन स्तोमि द्वि
गुणम् तत तियंग भद्रे । नाए गुण कुर्यात् मुग्यवन्धिसाया वाम-
पार्यं छहिच स्वपालि धारणम् दशानातु धारण चोषरि ॥ ३ ॥ अथ
द्वितीय गाथार्यं माह मुग्यवन्धिसातु निरन्तर, मुद्दमनीय नियारणार्यम्
व्रम [रजी] रेणु प्रमाजनार्यं भवति) इत्यादि ॥ मुहपति चचां
सार प्रथ पृष्ठ ३७ से ॥ इससा मन्त्रेष्य अर्थ ये हैंगा [चार
गुल और एक विलस्त अर्थात् १६ गुल प्रमाण चौरस वल को
मुहपति जिसकी आठ तय पर लेनी-दूसरा प्रमाण मुग्य प्रमाण
॥ १ ॥ मुह पतिका से फिरतर मुद्दम जीय नियारना अर्य] ॥ १ ॥

(२) और प्रथम म० १३६३ मे धर्म घोषमूरि प्राचुर मे रखी
जिसे म० १३६४ मे प्राचुर से सहस्रन मे थी महेन्द्रमिह सूरि
रायत शतपदी नामे प्रथ मे ये पाठ (मुग्यवन्धिका विना क्य
मुरे, गराक, मशिकादिक, मपातिम जीवोऽक यिन्दु, प्रवेश रणा
पथर चुनु, कानिन ज्ञानभतादिपू देशनान्तिषु चोप्ता मुग्य मारन
पिरायगार शार यायुरुर्गायर रचा, क्यथर रतो० रेणु० प्रदेश
रणा, पर प्रीति तिष्ठु० नय सर्वं रचार यिथानु शत्या, इत्यादि)
मुद्दमी चर्चांगा प्रथ पृष्ठ १६ से ॥ इससा पन्थ अर्द्ध ये हैंगा

[मुख्यपति विना निम्न लिखित कार्यों की पूर्ति केसे हो सके मुख में गिरते हुये मन्त्र, मक्की आदि जीव पाणी के विन्दु की रक्षा खासते वगम्भूलते आदि देशनादिके बक्त मुखकी उनवा जुसे मरते हुये वाहिर के बायु के जीवों की रक्षा, और गरद रेत के प्रवेश की रक्षा, और उड़ते हुये थूक के छीटों की रक्षा, अर्थात् उपरोक्त कार्य खुले मुख से नहीं हो सकते] मेंह तंग सूरिविरचित सं० १४५० भाषांतर छपी १६५१ विजय प्रबत्तक प्रेस अमदाबाद के पृ० १५६ पं० ११ मेंये (मोपती विना मोमां मध्यर मास्त, पाणीना विंदु के धूल पड़े छे देशना देता के छीकता मौ ना गरम बायु बड़े वाहिर ना बायु नी विराधना थाय छे तथा अपणी थूको ऊड़ने वीजाने स्पर्श छे, पृष्ठ १५६ शतपदी भाषा तर विचये लेख मौजूद हैंगा ॥३॥

(३) और सावचूरि यति दिन चर्चा नामक ग्रंथ में ये पाठ हैगा (वत्ति संगुलनीहं रथहरणं पुतियाय अद्वेण ॥ जीवाणं रक्त-एट्टा लिंगट्टा चेव एवंतु ॥) (तथैवेदं-रजोहरणं मुखवल्किका स्त्वं जीवानां रक्तराणांर्थं लिङ्गार्थमपि) मुहूर्पति चर्चा सार पृष्ठ २७ से इसका संक्षेप अर्थ ये हैगा [रजोहरणा मुख्यपति जीवों की रक्षा वास्ते और लिंगते चिन्ह वा भेप के वास्ते वी ॥३॥

(४) और शास्त्र वार्ता समुच्चय वृति (मुख वत्तोपयोग संपतिम रजो रेणु प्रमा जनार्थ मुख वस्त्रस्य आदानम् निवैर्पदि किया यां पूर्वं प्रमार्जनार्थं लिङ्गार्थं चेति) मुहूर्पति चर्चा सार पृ० ३४ से ॥ इसका संक्षेप अर्थ ये हैंगा [गिरते हुए गरद रेत पूँजने के वास्ते मुख्यपति राखे उठाते रखते उपगरण के पहले पूँजने से और लिंग के वास्ते अर्थात् भेप के बाह्ते वी] ॥४॥

(५) और पंच वस्तु प्रकरण वृति ॥ उम्करणे धिकारे (चउरगुलं० इत्यादि ॥ १ ॥ [व्याख्या] चत्वार्युक्त्वानि एकाच वितस्तिः एत च्चतुरस्त्वये मुखा नन्त कस्य मुखवल्कि कायाः प्रमाणम् अथवा द्वितीय आदेशो मतान्तरम् मुख प्रमाणेन निष्यन्तं मुखा

नन्न वम एत दुक्त भवति वसति प्रमार्जयत साधोर्नासिका मुख
यो रज प्रेश रक्षणार्थम्, ज्वचार भूमौ नासिका शान्ति दोष परि
हारार्थ च ॥ यापता मुग्र प्रच्छाद्यते-न्यक्षा वोण द्वये गृहित्वा
पृष्ठ तरच वृक्षाटि पाया यापता । मान्य दा तु शक्य ते) मुह-
पति चर्चा सार पृ० ५४-५५ से ॥ इसका सक्षेप अर्थ ये- है
गा [चार अगुल और एक विलस्त चौरस बल की मुखपति
का प्रमाण ॥ अथवा मतान्तर मुग्र प्रमाण वस्ती ते उपामरा, पूजते
दक्ष साधु रज के प्रवेश की रक्षार्थ उधार भूमि मे नासिका अर्श
ये दोष की रक्षा वास्ते प्रस मुहपति से मुख नाथे ।] ॥५॥

(६) और मृतक मृनि का मुग्र वधन करे लिंग ते चिन्द्र
ये यास्ते तिम बापत लिम्पते माधु ममाचारी (मयग कलावर
एहिता कुतुमाड हिं विलिपिता य अवग चोलपट । परिहार्विय
पुत्ति मुखे न रीय) मुहपति चर्चा सार पृष्ट ७१ से ॥ इसका
सक्षेप अथ ये हैंगा [मृतक बलेवर को अशानान घराइने ऐसर
पा लेपन करी चोलपटा पहराड मुख्यति मुग्रसे गार्धीने] इत्यादि ॥६॥

(७) और ॥ यृहत्कल्प भाष्य वृत्ति ॥ यन्धन घटन पद व्याख्यादि
(पर पायगुटे दोरेण यन्धिङु पुक्षि ये मुहछाण) (व्याख्या) (पर
पादागुप्रदय द्यवरेण घदा, मुग्र पोतिर या मुग्र छादयेन्पत्तन्यन्धन
मुन्यत) मुहपति चर्चा सार पृष्ट ७१ से ॥ इमगा सक्षेप अर्थ येह हैंगा
[ताप परो ये अगुठों पोहोंर परवे गार्धीने मुखपति से मुग्रसो आड़ा-
दन करे अर्थात् मुग्र पो पाखे] ॥७॥

(८) और आगर दिनपर मे (मृतस्यसाधोमुख रत्नाल मेर मुख
घाग्निया प्रन्दादरयो) पुन (शिविराया स्थानयेन) मुग्र घर्मिद्या
चर्चली पा प्राभृतिलिङ्ग पारवेत्यापयेन) मुहपति चर्चासार पृष्ट ७३ से ॥
इमगा मक्षेप अर्थ ये हैंगा [मृत साधु ये मुग्र को जारी से मुहपति घे-
षांप रेवे पुन दिविरा मे शूत साधु ये मरीर को ररीने मुहपति और
चर्चली पा अर्थात् पूजनीया ओगा घगैरा साधु ये भेष को पाउं रते] ॥८॥

(९) और आशरयक शूर्णिम प्रतिव्र महायने (तुष्टुपे मुहोऽपि-

याए वभन्ति) मुहपत्तिचर्चासार पृष्ठ ७५ से ॥ [मुखको मुखपति का करके वांधे] ये उपरोक्त पाठ का अर्थ हैंगा ॥६॥ इसी परें आवश्यक ब्रह्म वृत्ति हरिभद्रमूरिकृत में हैंगा ॥६॥

(१०) और विधिप्रपा [श्रीजिनभद्र मूरि कृतमें मुहस्समुहपोत्तियाए वउभद्र] मुहपत्तिचर्चासार पृष्ठ ७६ से ॥ इसका ये संक्षेप अर्थ हैंगा [मुह को मुहपोत्तिका करके वांधे] ॥ १० ॥

(११) और व्यवहार भाष्यवृत्ति में (तस्मिन परिष्टापमाने चिह्नार्थ यथा जात मुप करणं पार्वेस्थापनीयम् ॥ तद्वद्वरजोहरणम्, तथा मुखपोत्तिका या मुख वन्धनम्, चोलपट्टादि) मुहपत्ति चर्चासार पृष्ठ ७७ ॥ इसका संक्षेप अर्थ ये हैंगा [तिस मृत मुनि को परठते वक्त चिह्न तेलिङ्ग के वास्ते जया उपगरणपासे रखे ते उपगरण ये हैंगे रजो हरण १ मुखपत्ति से मुख वांधे २ चोलापट्टादिक] और आगे ये लिखा (यद्येतन्नस्थापयन्ति ततश्चतुरगुरु प्राप्त आज्ञा भङ्गादयश्च दोपा शिच्छस्याकारणे भवन्ति, सच्च काल गतो मिथ्यात्वं गच्छेत् ॥) मु०च०सा० पृ० ७७ इसका संक्षेप अर्थ ये हैंगा [यदि चिन्ह के वास्ते रजोहरण मुखपत्ती पास मृत मुनि के स्थापन न करे तो चार गुरु प्रायश्चित और आज्ञा भंग दोप लगे और मृत मुनि देवलोके गया थका मिथ्यात्पासे] ॥ ११ ॥

(१२) और धर्मसंग्रह ग्रन्थमें ये पाठ हैंगा (चोलपट्ट परिहाविय मुह पत्ति मुहे वांधिय वी अं वत्थं हिठा पत्थरिय, इत्यादि) मुहपत्तिचर्चासार पृष्ठ ७६ से ॥ इसका संक्षेप अर्थ ये हैंगा [मृत मुनिके शरीरको चोलपट्ट पहेरावी मुहपत्ति को मुखे वांधी दूजा वज्र नीचे विछावे इत्यादिक] ॥१२ ॥

(१३) और ०प्रवचनसारोद्धारे पत्र १६७ (तथा वाचन पृच्छन परपृष्टार्थ व्याकरण दिषु लोका गमा विरोधेन मुखपोतिकाच्छादित मुखकमलस्य भाष्यमाणस्यापि वावृत्तेनियन्त्रणं द्वितिया वाग्गुप्तिः) मुहपत्तिचर्चासार पृष्ठ ८३ से इसका संक्षेप अर्थ ये हैंगा [वांचते वक्त, पूँछते वक्त, दूसरे के पूँछे का जुबाब देते वक्त, मुहपति से मुह को ढक कर वोलनेवाले के बचन संयम करी दूजी वचन गुप्ती जाणनी] ॥ इसी ग्रन्थ का ५३९ वीं गांथा में कहा है कि मुह पर मुंह पत्ती आच्छादन कर वांधनी चाहिए ।

जैन तत्त्व प्रकाश पृष्ठ ४६४ से उपरोक्त लिया हैंगा और ये वोलिया के ओघ निर्दुक्ति की १०६३ और १०६८ की चूर्णी में लिया है कि—एक व्रतचार अगुल वी मुहूर्ती में मुग्र के प्रमाण जितना ढोरा लगामर मुग्र पर मुहूर्ती गाधी चाहिए और इसके अलाया और भी ये लिया के योगशास्त्र गृह्णि के पृष्ठ २६१ में लिया है की उड़ करके गिरते जीव और वायु कार्य के जीव की उष्ण शरास से विराधना [हिमा] से रहने के लिए मुहूर्ती धारन की जाती है आगे जैन तत्त्व प्रकाश पृष्ठ ४६५ पक्कि ११ में ये [लिया तथा प्रवरण प्रावर्म लिया है कि गाधा पर यिम गुलायाय मोलसगुल विनिश्चयो च उद्धार सज्जुयाय, मुहूर्ती परिमाहोइ॥१ आगे पक्षि १५ में ये लिया—गाया—मुहूर्ता तोण कर्णोठिया विणा वधइ जेसोपि सामण ॥। धन्म फिरियाय वरन्ति, तस्म एगारस्ममामाइ यस्मण पायन्द्वित भवति ॥ २ ॥ इन उपरोक्त मूल पाठ से और ग्रन्थ से प्रवर्ट है कि मुग्रपती मुग्र पर वाये रहने से मुर्य तो कार्य की मिद्दि होती हैगी एक जीव रक्षा दूज लिङ्क, जीव न्या तो श्री आचारागनी श्रुत गद्वृ न्यायन उद्देशं ३ वं उस पाठ से निसमे ग्रामना आनि ७ कार्य करते विशेष जीव रक्षा निमित और हाय से वी ढकना करमाया हैगा । और श्री भगवती नी शत्रु १६ उद्देशं ७ में शकेद्र महाराज के सूगम काय वी रक्षा करमाइ हैगी ॥ ५ ॥ दूजे लिङ्क त चिह्न श्री उत्तरा ध्येन जी अन्येन २३ गाया ३२ से (लोगे लिङ्क पश्चोयण) निमाम अर्थ ये कि लोक म लिङ्क का प्रयोनन हैगा, जिस पाठ वी मारी में (मुहूर्ती चर्चामार) प्राय से मृत मुनि का मुहूर्ति में मुहूर्त वाधना लिया हैगा इहाँ जीव रक्षा का मुर्यता 'हइ' नहा कंगल चिह्न ए भासण से वी मुग्रपति निरतर मुग्रपर्यंधी रहेनी चाहिए और ६ अगुलरे चौराम यस्त्र वी आठ पुड़तरी मुग्रपति ही संप्रभु मुग्रपर वाधनी चाहिए सोवत यस्त्र वी उमाम निमाम सदैव चलता रहता हैगा और मारत उक्त भी पढ़ता का मुग्र गुला रहता हैगा आर मोवत वस में पुरांटों वी आवान वी किनां व मुग्र ने आने लगनी हैगी यदि मोवत यस मुग्र प्रव मुग्रपति वधी हुड न हाँगी तो वायु पापरे अनाया

और वो त्रस स्थावर जीवों का प्रवेश वी होजावे गा जिसकर जीव विराधना का दोप अवश्य सोते वक्त मे खुले मुख के कारन लगेगा और उस वक्त लिंग वी कायम नहीं रहेगा कदाचित मुखपर मुखपति विनं बधे हाट फेल होकर मृत्यु होजावे तो (व्यवहार भाष्य वृत्ति में कहे अनुसारे मृत मुनि देवलो के गया थकाका सिष्यात पामना वी संभव हंगा ॥१॥ और दूसरे आदेश (मनान्तरम्) की मुखपति मुख प्रमाण की त्र्यंबा से नासका मुख बावे वस्ती ते उपासरा उच्चार भूमि प्रानि लेखते वक्त और अनेक प्रकार की प्रानि लेखना करते वक्त वायू मुख को रज-रेत-उड़क विन्तु त्रसस्था वर जीवां की रका निमित उडते हुवे थूक के छाटों की रक्षा निमित (शतपदी) आदि ग्रंथों से जो सिद्ध करी हैंगी मुहूपति चर्चासार ग्रंथ मे जिसके मुख्य संग्राहकः पन्यास जी महाराज श्री रत्न विजय जी गणि हैंगे इस ग्रंथ में तीन चित्र और एक पत्र की नक्ल वी छपी हैंगी नीचे लिखे प्रमाणेः प्रथम चित्र श्रीपाल रासमे का जिस में (श्री मुनि चन्द्रसूरि श्रीपाल अने मयणा सुन्दरी को उपदेश देते हुये दिखाया है जिसमे मुनि चन्द्रसूरि के मुख पर जो मुख-पति दिखाई है उस मुखपति पै डोरा व तागा दीखे हैंगा ॥१॥ दूजे चित्र में हीर विजयसूरि सम्राट अकबर को उपदेश देते दिखाया हैंगा इस चित्र मे प्रवचन मुद्रा यथार्थ नहीं हैंगी ॥२॥ तीजे चित्र मे श्री अर्जितसेन राजर्षि श्रोपाल ने प्रवचन मुद्रा से उपदेश देता श्री पाल रासका एक चित्र दिखाया हैंगा ॥३॥ अब पाठको के रोबरू एक पत्र का फोटो जो मुहूपति चर्चासार मे गृन्थ करता ने छपवाया है उसको नक्ल देता हूँ इसको गौर से पढ़ियेगा ।

मु० सुरत बँदर

मुनि श्री आलमचंद जी योग्य लिं० आचार्य महारान श्रीश्रीश्री १००८
 श्री मद्भिजयानन्द सूरीश्वर जी (आत्माराम जी) महारानजी आदि
 साधु मठल ठाने ७ के तर्फ से उत्तरा अनुवन्दणा १००८ बार चाचनी
 चिट्ठी तुमारी आई समचार सर जाए हैं यहा सर्व भाषु सुन्मसा
 ता मे है तुमारी सुख साता का समचार लिखना—

मुहपति पिशे हमारा कहना इतना हि है कि मुहप

ति वधनी अच्छी है और घणे दिनों से परम्परा चली
 अछान ही है।

आइ है इनका लो पना यह—————
 हम वधनी अच्छी जाणते हैं परन्तु हम ढुढ़ीएलो
 क मे से मुहपति तोड़े नीकले हैं इस वास्ते हम
 वैध नहीं सकते हैं और जो कदी पैधनी इच्छीए तो
 यहा बड़ी निन्दा होती है और सत्य धर्म मे आए नूए
 लोकों के मन मे ही ल चली हो जावे इस वास्ते नहीं
 पैध मत्के हैं सो जाएना अपरच्य हमारी सलाह मान
 ते हो तो तुमनो मुहपति वधने मे कुछ भी हानी नहीं है
 म्यो की तुमार गुरु वधत है और तुम नहीं वधो यह अ
 छी गत नहीं है आगे जैसी तुमारी मरजी हमने तो
 हमारा अभिप्राय लिय दीया है सो जाएना
 और हम रों तो तुम गाधोगे तो भी बेसी हो और नहीं
 वाधो तो भी बैसे ही हो पर तुमारे हित के गाते लिया है
 आगे जैसी तुमारी मरजी—

१४५७ वक्तव्य वर्ति ०) बार दुध दमतरयत—

बल्लभ विजय धी उत्तरा चाचनी=

दीगाली रे रोन दरा बजे चिट्ठी लियो है=

श्रीमद् आमाराम जी श्री मुहपति वाधना सम्बंधे सुगत प्रियानना
 मुनि महारान श्री आलमचन्द्र जी ने श्रापेली तेमना पत्र जो प्रत्युत्तर

[उपर लिखी चिट्ठी की नकल वा फोटो की नकल जैसी मुहरपति चर्चा सार में छपी है उसकी नकल हृव्वहृ पाठकों के देखने समझने के बास्ते लिखी हैंगी इस उपरोक्त के अलावा मुहरपति चर्चासिर पृष्ठ ४ में हरिवल्लभ मच्छीरास वीजाखण्डनी ६ ठी ढाल से ये सुल्लभ लिखित जीवड़ा मांड निज खट कम' , सातु जन मुख्य मुहरपति, वाधी कहे निज धर्म ॥३॥ इसी दोहे को "दरही दम्भ दर्पण" पृ० ५६-५७ में ग्रन्थ कर्ता ने ये लिखा (लिखित विजय दंडी ने हरिवल्लर्ण मच्छीनोरास जो कि शाह भीमसिंह मण्डक का दृपाया है उसकी पृष्ठ ७३ पंक्ति ३ के ५ मे दोहों में उपरोक्त दोहा लिखा हैगा ॥ ४ ॥

(प्रश्न ५) जै० लिं० नि० पृ० १४ में हरवेसी मुनि का पाठ लिख कर पृष्ठ १५ पं० १ में (मोटे दात) अर्थ में लिखा ते अर्थ विन पाठ के बंका पुत्रवत है और उस पाठ का अर्थ काला वर्ण विकराल ते भूडो रूप होता हैगा (कीटगू विकरालो विकृतांगो पांगधर) टोका मे लिखा इतना ठीक परन्तु लम्बोप्त दन्तुर त्वादि विकार युक्त लिखाते मूल पाठ विणोंकी टोका बंका पुत्रवत हैंगी जै० लिं० नि० पृष्ठ १५ पंक्ति ३ में (अनेक वाक्य निंदारूप हरि के शी मुनि को ब्राह्मणों ने कहे और मुख बांधने की निन्दा तो न करी) लिखा तेना उत्तर ब्राह्मणों के मतमे महाभारत विच सांख्या मती वीटा मत के सन्यासी के मुख पत्ती होती है इस कारण ब्राह्मणों ने मुख बांधने की निन्दा न करी जो ब्राह्मण सन्यासियों की मुखपत्ती को बुरा जानते तो मुख बांधने की निन्दा करते दूजे ब्राह्मणों के ग्रन्थ ज्ञान माला में कृञ्जार्जुन सम्बादे शिक्षा १२६ विच कहा मनुष्य यूक मनुष्य पर गिरे तो शुक्र होयः उपरोक्त दोइ वातों को ब्राह्मन नहीं मानते तो हर के शी मुनो के मुख बांधने की निन्दा करते ॥५॥ (प्रश्न ६) जै० लिं० नि० पृष्ठ १५-१६ मे तथा द्वृढक मत समिक्षा पृ० ११२ में श्री नसोथ उद्देशे ६ और १५ से दो पाठ दांत धो ने रंगने वावत लिखकर पृ० १५ पं० २४ में उस पाठ की युक्ति में लिखा (जब मुख बांधा हुआ होता तो

नात विसना अर्थात् धीना ये शुद्धार देत कर स्त्री आदिक क्यों
सुखी होती इमलिए मुह वाधना हमेशा से नहीं चला) और पू०
८७ प० २ में युक्ति ही के (जो अगर मुग्ध चाल्या हुआ होता तो
दात घिसे तथा रगे तथा धोय गो कैसी दापने तथा स्त्री आदि
देह के केमी रानी होती) आर तूठक मत समिला पू० १८७ में
युक्ति ही के (मुग्धपत्नी मुग्धपर चाली हुई होती तो दात तथा होठ
धोने से वा रगन से उसा मिहार होता था और मुनी के मुन्त्र
नात आंग होठ कैसे देत रहता प्रसन होसर राणी होती इस में
माफ मादूम होता है मुनी ने मुग्धर मुग्धसती चारी हुई नहीं
है) तेंदा उत्तर श्री नमीथ ३० ३ में ए पाठ चला [जो भिन्नु
आपणो दीदाँ वरी रोमाइ क्षेत्रजा सठ वेजना २ माइज़इ]
आगे उद्देशे ५ में [जो भिन्नु आण मणम दी हाँ वरी रोमाइ
क्षेत्रजा मठवेजना २ साइ जाँ [आगे उद्देशे ६ में [जे भिन्नु
माँ गाधम महुण पडियाँ आरणे दीदाँ वरो रामाइ क्षेत्रजा
मठ वेजना २ साइ ज़इ] फर आगे उ० ७ में [जे भिन्नु
माँ गाधम मेहुण पडियाँ अगमणसम दीदाँ वरो गमाइ क्षेत्र-
जा मठ वेजना २ माइ ज़इ] फर आगे उ० ११ म [जे भिन्नु
अलुविम्म या गारधियम दा दीदाँ वरो रोमाइ क्षेत्रजा मठ
वेजना २ माइ ज़इ] पेर आगे - देशे १२ में [जो भिन्नु अलु
पिण्णा या गारधिण्णा या अणणो दीदाँ वरो रोमाइ क्षेत्रजा
मठवेजना २ साइ ज़इ] पेर आगे [जे भिन्नु विगुमा पटियाँ
अराणो दीदाँ वरी गमाइ क्षेत्रजा मठवेजना वारत यार ठव
तपा माइ ज़इ] पर आगे उ० १३ म [जे भिन्नु निपधम्म
अलुविण्णा या गारधिण्णा गुरा दीदाँ वरो रोमाइ क्षेत्रजा सठ
पेजना २ साइ ज़इ] पेर आगे [जे भिन्नु निपधिर अलु
पिण्णा या गारधिण्णा गुरा २ दाँ वरी रोमाइ रारे वरो मुठ
पेजना २ साइ ज़इ] , इनी नरेह दा धोन निपधी के जानलेने
इ एरोता ११ योर्ना म ६ तय धोन में यारी या बहनी

लारे चोलपट्टा वी मुनी के बांधा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि चोलपट्टा बांधा हुआ होना तो गुद्ध स्थान के रोम कंतरे हुवे संवारे हुवे का शृङ्खला देख कर इच्छी आदिक क्यों कर खुशी होकर मोहित होने और दो बोलों में साधवी के साडी का पहरना वी नहीं होना चाहिए क्यों के बादी के लिखने मृजिव अगर साधवी जी साडी पहरे हुए होनी तो साधवी के गुद्ध स्थान के रोम कंतरे संवारे हुवे का शृङ्खला देख कर पुरुष आदि कैसे खुशी होकर मोहित होते अगर उपरोक्त नव बोलों को कोई जिण कल्पी के कहेगा तो अब्दल तो निशंथी के २ बोलों में वी क्या साध्वी को वी जिन कल्पी कह सकता है अगर साधु साधवी दोइ को ऊपर लिखे ११ बोलों में जिन कल्पी मानेगे तौ दांतों के सभी बोलों में वी जिन कल्पी मानना लाजिम होगा अर्थात् साधु साधवी दोइको नगन मानना पड़ेगा ॥६॥

(प्रश्न ७)

७० लिं० नि० पृष्ठ १८ पं० १० में लिखा (मुख बाँधने वाले सूत्र के प्रमाण तिदून मनौ कल्पित प्रश्न करते हैं सों यह प्रश्न है कि नागसिरी ब्राह्मणी के यहां) तेना उत्तर श्री ग्याता जी अव्येन १४-१६ का प्रमाण लिखते [ततेण सा पोट्टिलाऽ अजाऽ एज माणिष पासइ २ ता हठ तुठा आसणाऽ अभुठेइ २ ता बंदइ नमसइ २ ता विजलं असणं ४ पडिला भेर्इ २ ता एवं वयासी एवं खलु अहं अजाणं तेयली पुत्तस्स पुर्वि इठा ५ आसी इयाणी अणिठा ५ जाव दंसणंवा परिभोगंवा तं तुभेणं अजाऽ वहु णायाऽ वहु सिखियाऽ वहु पढियाऽ वहु गामागर जाव आहिढ्ह वहुणं राइसर जाव गिहाइं अख्युपविसह तं अथियाइं भी आजउ केर्इ कहिंवि चुण जोएवा कम्म जोएवा हिय बुद्धा चणेवा कायुडाव खेवा अभिउर्गेइवा वसीकरणेवा कोउगकररोवा भूइ कम्मेइवा मूले कंदे छलि ब्रलि सिलियावा गुलियावा उसहवा भेसजेवा उवलध- पुच्चे जेणाहं तेय लि पुत्तस्स पुरारवि इठा ५ भवे जासि ततेणं

तात अज्ञात पोटिला एवं बुक्ता समारिाउ दोविकणे अगुली अउ
ठपेई उ त्ता पोटिल एवं व्यासि अम्हेण देवाखुपिय समरिाउ
निमधी उजाव गुत्ता प्रभचाररामीउ नोखनु कण्ठइ अम्हे एय पगार
कन्नेरिंगि रिमामितए किंमग पुरा उवदिसितए आयरि तएवा -]
इस ग्याता जी अयेन १८ के पाठ मे भगवत का पत्पा वा
सुधर्मा स्वामी पचम गरा धर महाराज ने जम्मू स्वामी से कर-
माया मि सुत्ता आर्या की शिपरियायो वा एक सगडा तेतली
पुर प्रधान के पर मे गई ओर पोटिलाने बन्दना नमस्कार ऊरी
ने चार प्रार ना आहारादिक प्रति लाभी ने पीछे तेतली पुर
प्रधान को अपने उपर आसक्त याने उसीभूत करने को कशा तप
आर्या जी ने दोना काना पे अगुली थामी ने जुगाव दिया के
हमे नही यस्ये ये नात कानो से वी सुनने को नताना ओर आचर्ण
करना तो वहा केर अयेन १६ मे [गोवालियाउ अज्ञाउ बहु
सुयाउ एय जहेव तेयलि नाम सुन्याउ तहेव समोसढाउ तहेव
सघाडओ जाव अस्यु पवित्रा तहेव जाव सुमालिया पदिला भेता एव
ध्यासि एय गलु अज्ञाउ घड्नायाउ एव जहा पोटिला जाव उपलब्ध
पुरे जेण अह मागरस्म नारगस्म इठा, यता जाव भरेजसी
अज्ञाउ तहेव भणति] इस पाठ मे पह्या गोपालिना आर्या जी की
शिपरियायो वा सगडा आया पोटिलामी फर्ने सुग मालिना ने वि
अस्तानि प्रतिनाभो ने मागर नामक अपने पति को वसीभूत नारव
अर्न वर्ग आया जी ने वी उसी भात अर्थात् सुन्तता आर्या जी
वी शिपरियायो वी पर नेना काना पे अगुली थामी ने मुनने करने
से इन्सार कग जँ० निं० निं० पृ० १८ प १७ मे लिया (कोइ
माधु मुनिरान गोपरी लेने आए) इस लियिन से प्रगट होता
है मि जँ० निं० निं० पा यर्ना पूर्ण स्व से जनमय को धोका
देस्तर अज्ञान स्वी प्रारगार मे रपना चाहता है स्यों कि
एष १८ प० ११ मे लिया (सूत्र के प्रमाण चिदून) फेर लिया (कोइ
साधु मुनिरान) फर लिया (महाराज सादिय) ये तीना शब्द सूत्र

पाठ से विस्तृत हैं क्योंकि अर्याजी को साधु मुनि महाराज लिखा १ दूजे
 तो बात सूत्र में प्रवट पने पहली हुई जिसे सूत्र के प्रमाण विद्वन लिखा
 २ तीजे पृष्ठ १८ पं० २४ मे लिखा। जिन शास्त्रों को तुम मानते हो उनमें
 तो यह जिकर ही नहीं ऐसे तीथेकर महाराज के पहले को हिंपाकर धोका
 देकर अज्ञान स्थीर अस्थकार फैलाने से महामोहनी वांधकर किल विपी
 भाव पैदा करना जो यह नहीं और पृष्ठ २० से २२ तक जो बांडी ने लिखा
 उसका उत्तर श्री उवबाजी में जो पांच अभिगमन चले उससे एक साड़ी
 करी उत्तरा संग कहता मुख लपेटा चला गया और श्री उत्तराव्येन जी
 अव्येन १ गाथा २२ को [पुछेज्जा पंजालउड्डो] यहां पहपाशिष्य गुह्यनी
 से शास्त्रर्थ हाथ जोड़ी ने पूँछे आगे अव्येन २६ गाथा ८ मे [पुछिज्जा
 पंजलिउड्डो] यहा समाचारी अव्येन में गुरु जी से हाथ जोड़ी ने
 पूँछना चला क्या खुले मुख से पूँछना वादी कहगा (प्र० ८) जैन लिं०
 निं० पृष्ठ २३-२४ मे राजा श्रेष्ठिक और अनाशी जी मुनि की तर्क लिखी
 तेना उत्तर राजनोती में सब तरे हकाजान पणा होवे तिस कारण वादी
 की तर्क फजूल हैंगी । जै० लिं० निं० पृष्ठ २५ पं० १ मे संजती राजा
 द्वावेत लिखा (उसने ऐसे नहीं पहचाना कि यह साधु जैन का है जो
 मुनि का मुख बँधा हुआ होता तो राजा ऐसा जानता कि यह तो जैन का
 साधु है जैन के साधु मृग नहीं रखते ऐसा जानकर चला जाता) तेना
 उत्तर जै० लिं० निं० पृष्ठ ७० से ७२ तांइ मे आवश्यक नियुक्ती टीका
 अबचुरी आदि से ध्यान की रीती ये लिखी (मुख पत्ती जीमने हाथ मे
 रखे और रजोहरण डावा बांए हाथ मे रखकर कायोत्सर्ग करे) जो वादी
 लिखित ये ध्यान की रीती होती तो संजती राजा वादी के लिखने मूजिब
 देसा जानता के यह तो जैन का साधु है जैन के साधु मृग नहीं रखते
 देसा जान कर चला जाता अथवा राजोहरण देख के जैन का साधु जान
 के चला जाता १ दूजे श्री उत्तराव्येन जी अव्येन १८ गाथा १० [कुद्दे
 तेष्ण अणगारे डहेज्ज नर कोडीओ] टीका (भवाह्शः साधु कुद्दः सन्
 तेजसा तेजो लेश्यादिना नर कोटिन्दहेत् तस्मात् स्वामिना क्रोधोर्नावधेय)
 उपरोक्त सूत्र पाठ और टीका से प्रधट है के संजती राजा सांधु के गुणों

से निसेप परिचित था और गाथा नवी ना ये पाठ [अह माणेण सो भयय अणगारे माण मस्सिण] इण उपग्रेत्तपाठ दीका देखता नादी लिखित तर्फ़ कजूल धोना देनेपाली है और जो गहभाली मुनि तो एकल निहारी ने जिलकल्पी माल्हम पड़ते हैं जिसमे सजती राजा को दिका देइने पास रखा नहीं ॥ ८ ॥

(प्रश्न ६)

जै० लिं० नि० पृ० २५ अने० २६ मे श्री आचाराग जी सुत गव्व
२ अथेन १ मे ग्रहस्थ भिन्नु के गास्ते १३ प्रसार करी यायुका
यरी हिंमा करी असनान्ति देने से लेना मने करा और जै०
लिं० नि० पृ० २७ प० १६ श्री दस्वर्वे नालिक जी अथेन ८ गाथा ६
मि लिखी जिसमे ३ प्रसारे यायुकायरी हिंमा मने करी जिसमे नारी
कहता है पक्षि २५ मे (गुले मुख बोलने से नो यायुकायरी हिंमा
कही नहीं) तेना उत्तर श्री आचाराग जी मे १३ प्रसारे हिंमा
पताई श्री दशवे नालिक के इम पाठ मे तीन प्रसारे हिंमा पताई
तो क्या श्री आचाराग जी की पताई हुई १३ प्रसारे जो हिंमा
पद्धती उसे नमान ना जै० लिं० नि० पृष्ठ २८ पक्षि ६ मे श्री
नमीन जी उद्देशे १७ के गूल पाठ मे जो ८ प्रसारे यायुकायरी
हिंमा करी असनादिक दता से लेवे अथवा लेता वो भला जाने
तो लघु चौमासी दह पक्षग तो क्या श्री आचाराग जी मे पह्ये
हुये तेरह प्रसारे हिंमा नहीं माननी अरे भाई अफल के दुश्मन
मत यनो इन उपरोक्त सूत्र पाठों के अलापा और सूत्रों में वीजो
यायुकायरी हिंमा के फारण यताय वो मर्व मानो शूटी हठ को
मत तानो सकेंद्र के पाठ वो वी पढ़िचानो इन उपर लिये सम
कार्या से हेतुवो करी येह जानो कि मुख वी फूक लगाने से
यायुकायरी हिंमा चिरोप होती है तो गुले मुख बोलने से फूर की
अपेक्षा से हिंमा उद्धेश न्यून होवेगी यिलकुल हिंमा का न मानना
वारी काहट घाट और अह्वान पा मूर्च्छ है ॥६॥

प्रश्न १०

जै० लिं० नि० पृष्ठ २६ पंक्ति २४ में ये लिखा (मुख से फूक लगाय कर मुनि को देवेतो साधु को नहीं कल्पे कदाचित् कोइ खुले मुख से बोलकर मुनि को अशणादिक चतुर विद्यी आहार देवे तो सुख करके ले) तेना उत्तर अब्बल तो श्री भगवती जी शतक २५ उ० ७ में और श्री उवाइ जी में भिजा चरी के भेद ३० परसे उनमें बोल १६ मां और श्री ठाणयांण जी ठाणे ५ उदेशे १ में और श्री प्रश्न व्वाकरण जी के प्रथम संवर द्वार मे विचला जै० लिं० नि० पृष्ठ २७ पंक्ति २४ में ये लिखा है (खुले मुख बोलने से तो वायुकायकों हिंसा कही नहीं) तेना उत्तर जब वादी को अपने पूर्वा चार्य कृत (शत पदी) ग्रंथ से ही नहीं सूक्ष्मा तो मेरे लेख से क्योंकर सूक्षेगा जो मैंने प्रश्न ४ में लिखा हैगा ॥ [मोनचरे इसी कार्ये भगवंत् ने परुपा के साधुन बोले मोन पने भिजा लेवे तो गृहस्त को वी थोड़ा बोलना पड़ेगा दूजे श्री भगवती शतक १४ में चला जब भगवंत् स्ययं विजय ग्रहपती के घर पधारे तब विजय सेठ [एगसाडियं उतरा संग करेति २ अंजालि मउलियगगहश्ये] खुश होके आसन से उठी पाद पीठ का से उत्तरी पाटुका छौड़ी एक बछसे मुख ढाँकी ७-८ पग सन्मुख आइ बंदना नमस्कार करी प्रति लाभा तेभणी ये लिखना वादी के असक्त परिहार के अज्ञान पने का है जब १२ कुल की गोचरी परस्पी ते मांही सवी तो सम्यकू दिष्टी श्रावक मिलेगे ही नहीं उनमें अनेक अन्यमतीयों के घर से वी गोचरी लानी पड़ेगो उनसे जबरन कैसे मुख ढकवा सकते हैं परन्तु उपयोगवान मुनी धणां न बोलावे तीजे जी साधु जी को और पुरिष आर्या जी को प्रति लाभती वक्त संघटा तो करेंगे ही नहीं थोड़े ऊपर से देवेंगे लेकिन श्री ठाणयांग जी ठाणे १० मे आश्रव के दस भेदों में [सुचि कुसग्ग], आश्रव परुपा इसी परे १० संवर परसे जिसमे [सुचि कुसग्गा]

सप्तर पहला तेनी टीका (स्तथा शून्या कुशा म्राणाच शरीरो पधा तक त्वा थ स वरण सगोपन शूची कुशाप्र सप्तर) जब कुछ उपर से वह राँगे वायुकायकी हिंसा जस्तर होनेगी परन्तु असत्य होने से लाचारी हैगी" जैं ० लिं० नि० पृष्ठ २६ मे श्री पणवणा जी से अमनी मनुष्यों के उपजने के १४ ठिकाने लिखे जिसमे बोलती जा [संलेसुभा] जिसना अर्थ वाने ने वृक का लिया त अर्थं विप्रीत है तेना अर्थ तो रागार कफ चीकने त्वेमदार ना हैगा श्री उत्तरा ध्येन २४ गाथा १८ का टीका (उचार पुरिप्र प्रश्ववण मूत्र सेल कफ मिहाण इलेप्त्र जल्जक शरीर मलम्) यहा टीका कार ने सेल का टीका मे कफ लिया परन्तु वृक लिया नहीं श्री भगवती शनक १५ म [तिगुनो मुहेसु उदुभइ] गोसाला ने बद्धा तीन बार मुग्य मे वृकना ओर श्री भगवती जी श० ३ ड० १ मे ये पाठ पहला [जेणेप तामलि वाल तपमी स्म सरीरे तेणेव उजा गद्दइ २ ता [वामे पाएमु त्रेणु वधति २ ता तिगुत्तो मुहे उदु भति] इम पाठ मे वी धूर का नाम रेल चला नहीं और श्री भगवती जी श० २५ ड० ७ मे और श्री उद्यवाइर्जी मे कवय की लेमरे भेदों मे [अणुदुय] ये शब्द चला परन्तु खेलना भ वृक का चला नहीं ॥ और अमनी मनुष्यों की उत्पत्ति के रोल ७ घे [पूर्यमुवा] का अर्थ तो राद पीप जो गूमडे आदि से निकले उसका हैगा जो यादी ने पूर्य शब्द का अर्थ पसीना लिया ते अथ विपरीत है क्योंकि श्री उत्तरा ध्येन जी अथेन २ गाथा ३६ मे ये पाठ पहला [यडन निजरा धेहि वर्दिय धम्म मणुत्तर जाव सरीर भेडति जल्ल कायण धारण ३६] इसकी ये सीक (वैयज्ञति निजरा पेही कर्मचाय मीमु साधु स्ताव त्वायेन जल्ल धारयेत् देहेन मल धारयेत्) यहा तो जल अर्थात् पसीना सरीर पे धारन करना चला अगर जो पसीने मे छमुच्चम मनुष्य उपजते होते तो सरीर पर पसीना धारन करना कदापी चलता नहीं इस चरके [पूर्य] का अर्थ राद पीप मवाद फा हैगा परन्तु पसीने का नपी ॥ १० ॥

प्रश्न ११

जै० लिं० निं० पृष्ठ ३० पंक्ति १० में ये लिखा (जो सदा मुख्यपती मुख्य पर वांधे रहते हैं उनके थूकादिक मुख्य के मैल से भीजाती है उसमें पंचेन्द्रीय जीव की हिंसा लगती है) तेना उत्तर प्रथम तो थुके सुवा कशा नहीं दूसरे अगर मुख्यता मैली या गीली हो जावेतो मुख्य पती बड़ल लेनी चाहिए जिस तरेद वाड़ी ने जै० लिं० निं० पृष्ठ ७८ पंक्ति ०० में लिखा (मुहृष्टी को बदले) क्यों के चौमासे के मौसम में जादा मैली मुहृष्टी होकर गीली रहे जावेगी तो निगोद पैदा होना सम्भव हैगा और जो वाड़ी ने [पूयसुवा] का अर्थ पसीना लिखा ते वाड़ी के लेखे ग्रीष्मकाल मे जो मुर्मन सूर्य वी आतापना लेवे उनके चोल पट्टे आदिक वस्त्र जो पसीने से भीज जाते हैं उन पसीने से भीजे वस्त्रों मे वाड़ी के लेखे छमुछम मनुष्य उपजते होंगे और आतापना लेने वाले मुनि को उन पंचेन्द्रीय जीवों की हिंसा लगती होगी ।

जै० लिं० निं० पृष्ठ ३१ पंक्ति २२ से पृष्ठ ३२ पंक्ति तक जो असम्भ्यता का ये लेख लिखा (निरस अथवा खोटी चीजों को सब कोई छिपते हैं वाधते हैं सो ही दिखाते हैं किसी के मगज में कीड़े आदिक पड़े और पीनस का रोग हो तो वह मनुष्य अपनी नाक को ढाके हुए रहता है क्योंकि उसकी नासिका से दुर्घन्द आता है इसलिए यह नासिका वांधता है अथवा किसी का होठ आदिक फूल जावे अथवा दातों मे कीड़ा पड़े मसृङ्गा फूले अथवा होठ सुफेद होजाय घाव होजाय वा कट जाय अर्थात लोगों को देखने से बुरालगे बो मनुष्य अपने ऐव द्वाने के बास्ते वांधता है वा ढकता है इस रीति से किसी के घाव फोड़ा फुल्सी गूमड़ा आदि होते हैं उसा जगह पट्टी वाधी जाती है क्योंकि उस खून राद होने से दुर्घन्द निकलती है इसलिये उसको पट्टी से वाधते हैं परन्तु अच्छी जगह पर कोई नहीं पट्टी वांधता है तीसरा और भी सुनो कि जो मुर्दे

आदि का शरीर है उमरो हिन्दू व मुसलमान सब घोड़ी ढाक
कर अर्थात् द्रवा फर लेजाते हैं और जब विवाह आदि होता है
तब यीद यीदणी गा लाडा लाडी वा दुलहा दुलहिन उनको सब
घोड़ा अबछे अच्छे कपडे व जेवर आदि पहगय कर चाजारो मे
य गलियों मे हारी घोडे पालत्वी तामनाम आदि अनेक सवारियों
पे मुंजे हुए लेजाते हैं घोड़ा उनको ढककर नहीं लेजाते हैं चोथा
और भी सुनो कि जो महतर भगी आदिक पाताना साफ कर
मिला उठाय कर लेजाते हैं वे भी इस ले को बचरा चारा खोड़ी
से ढाक पर लेजाते हैं अथवा गृहस्थी के बालक आदि भाडे जाते
इसको भी रात्र रोकर ढाक देते हैं अथवा घोड़ा म्लेच्छ आदि
मुरी यत्तु को बानार आदि मे लेजाते हैं तो यो ढाक कर लेजाते
हैं) ते को देसना के बाल मे जाक मुप्प ढफ फर देजि विरिया
मुवारिफ रहे जो ज० लिं० नि० पृ११ ७८ पक्ति ७ मे लिया है
अस पक्ति मे घारी को मुवारिफ रहे ॥ ११ ॥

प्रश्न १५

ले० लि० १० ५८ ३३ पक्ति ११ मे लिया (भाषा १८
स्थाम २ भन ३ और फारमान ४ सोला गुणपामे) ऐर असो
प० १३ से १७ तर लिया तेना उत्तर प्ररन ४ सब का सब देवन
लेना अर्थे आगे और लियते थो भगवती ती शतक १६ उद्देशो
२ मे ये पाठ पढ़ा [गो० जादेण सर्वे देविदे देवराया सुमुह
पाय अपिमृदिताए भाम भामइ जादेण सर्वे देविदे देवराया सुमुह
पाय भाम भामइ जादेण सर्वे देविदे देवराया सुहुम पाय
मिन्नूर्णिगाए भाम भामइ सादेण सर्वे देविदे देवराया अरण्य
भू भाम भामइ] ये इनकी दीन (सर्वेण मित्यादि सादरदत
मात्रपैर गठि पर्म्मार्गि भाम ता जादेणति या सुमुहत सूर
पा सुप्प भाम भाग्यिक यत्तु इति बुद्धा असेत्याहु सुमुह पायति
पर आरा वात्ताति अपोदा अन्या इति पादृन सुप्प स्यहि भाम

माणस्य जीव संरक्षण तो अनवद्या भाषा भविति अन्यातु सावद्यति
जै० लिं० नि० पृष्ठ ५४ पंक्ति २६ में वादी ने वी लिखा (हे
गोतम शक इन्द्र हाथ से मुख ढाँके वा वक्ष से मुख ढाक
कर बोले तो निर्वद्ध भाषा और उधाड़े मुख बोले तो सवद्ध
भाषा इस रीति से कह कर फिर टीका कार ऐसा कहते हैं
कि जीव की रक्षा करने के अर्थ मुख ढाँक कर बोले तो
निर्वद्ध भाषा) इस ठिकाने तो वादी ने आपही जीवकी रक्षा
करने के अर्थ मुख ढाँक कर बोले तो निर्वद्ध भाषा लिखदी
और जै० लिं० नि० पृष्ठ ३३ में जो हिंसा का होना न खेद
किया ये दोइ बोल परस्पर विरुद्ध भी होगए ॥ और शदपदी
अथ के पाठ से वो विरुद्ध होगया जो मुहपति चर्चासार नामे
अथ पृष्ठ ४६ में मुख्य संग्राहकः पन्या जी महाराज श्री रत्न विजय
जी गणि ने लिखा जिसका संखेप ए है मुखपति विना देशना व-
गैरे में निकलती मुख माथी उश्नवायु से वाहिर के वायुकाय के
जीवौ कीरक्षा क्योंकर हो सके तेना पाठ लिखते मुहपति चर्चासार
पृष्ठ ४६ पंक्ति ५ (२७ शदपदी मुखवस्त्रिका विना कथं मुखे मशक
मन्त्रिकादि संपातिम जीवोदक विन्दु प्रवेश रक्षा कथंच चत् कासितं
जूम्भतादिषु देशनादिषु चौषण मुख मास्त विराध्यमान वाह्य वायु-
कायिक रक्षा, कथंच रजो रेणु प्रवेश रक्षा, परं प्रति निष्ठयूत लब
सर्शं रक्षा च विधातु शक्या ॥

और जै० लिं० नि० पृष्ठ ५५ पंक्ति बारा से वादी ने आप
वी लिखा (साधु को तो हमेशा जब शब्द उच्चारण करे तब
मुख को ढक कर भाषा वर्गना निकाले और श्रावक लोग मन्दिर
जी में धर्मशाला में अथवा सामायक प्रति कर्मण पोसा देशावगासी
साधु के सनमुख जो बचन उच्चारण करे सो मुख ढक कर उप-
योग सहित बोले उधाड़े मुख बोलने का उपदेश नहीं है कदा-
चित्) और श्री उवाइ जी में अभिगमन चले थे [एग साडियं
उत्तरासंग करेइ चखुसा अंजली पगहेति] इण २ अभिगमनों में

चला एक बछ मुस उपर करा और अजली कहता दोइ हाथ जोडे
 ए कोयं तो भगवत के रोमरु किया और श्री पण्मरामा जीपद
 ३६ मे ये पहुँचा [जी वेण भते वेयणा समुधाण्ण समोहण समो
 हणिता जेरोप्रले निलुभइ तेहिण भते पोप्रलेहि केप्रइए सेते अफुणे
 के उद्दा सेते फुडे गो सरीर पमाण मिते पियभ नाहत्लेण नियमा
 छदिसि । वइए रित अफुणे एवइए सेते फुडे सेणभते सेते के
 यह कालस्म अफुणे केप्रइ कालस्म फुडे गो एगसमइण्णरामा दुस
 महाण्णना तिममइण्णना निप्रहेण प्रप्रइ कालस्म अफुणे एगइ कालस्म
 फुडे तेण भते पोप्रला वेप्रइ कालस्म रिआउभइ गो जहयेण अतो
 मुहुतस्म उम्मोसेराति अतो मुहुतस्म तेरा भते पोप्रला यिलुढा
 समारामा ज्ञाइ तथ पारामाइ भूयाइ जीगाइ सताइ अभिहणति वतति
 लेस्मति मधायति सघट्टेति परितावेति किलारेति उद्दैति तेहितोण
 भतसे जीवं कइ किरिणा गो सिय तिकिरिए मियचउ किरिय सिय
 पच किरिय तेरा भते जीगातो कइ किरिया गो सिय तिकिरि
 या मियचउ किरिया सिय पचमिरिया सेण भते जीय तय जीगा
 अणेसि जीगाण परपराधायण कइ किरिया गो तिकिरियावि चउ-
 किरियावि पचकि रियावि] उपरोक्त पाठ का मखेण मात्र अर्थ
 ये जीव वेदनी समुद्रघात यरी जिरा पुदगलों को निकाले ते सरीर
 प्रमारा चौडाइ मुठाइ के छ्य दिसिमे एक या दो या तीन समे
 पी चाल के अतर मुहुर्त तक निकाले तिरा निकाले पुदगलों से
 एक या अणेक जीवों आश्री तीन या चार या पाच किरिया लागे
 तिरा घणे जीवों की टक्कर से और घणे जीवों आश्री वेदनी
 ममुद्यान करने वाले को किरिया ३ पी ४ पी ५ पी लागे वेदनी
 ममुद्यान में वेदनी वर्ष के घानुलपने से जो तीन् वेदना ये का
 रण वेदनी कम के पौकरसी पुञ्गल आतम प्रदेशों से गिरनी
 किरिया जीवों की हिमा तक घरे हुंगे जिमरे धारत उपरोक्त पाठ
 में धरनन हुंगा और श्री ठारायाग जी ठाणे ७ मे ७ प्रकारे
 आयुभेदाय तेमाही सातमा फाररा [आरामापालु] पहुँचा जिसमी

ए टीका (उछ्वास निःश्वासो निरुद्धा वा श्रित्यति उछ्वास निश्वास योः निरुद्ध करोति तदा आयु तुठ्य ते) उपरोक्त पाठ तथा टीका में खुलासा कह्या के सासों सास रोकने से आयु टूटे ते सासों सास तो चौकर सीज होवे और जब मुख की भाप से कांचका दर पन लूखा होजावे और और खुले मुंह बोलने से जो उशन भाप निकलेगी उससे शीत योनि के बायुकाथके जीव अवश्य विघ्नस हो- जावेगे श्री दसवे कालिक जीं अभ्येन ६ गाथा ३४ में ए पहुपा [जांपि वथं व पायंवा कंवलं पाप पुञ्चणं नते वाऽ मुदीरंति जयं परिहरंतिए] इसका ए अर्थ वल्ल-पात्र-कंवल-पाय पूञ्चराादिक से बायु की उदीरना न करे ऐसे यत्न से भोगे आगे जै० लिं० नि० पृ० ३३ पं० १६ में ये (जैन लिंग को धारण करो) लिखा । तेना उत्तर व्यवहार भाष्यवृत्ति में वृत्ति-में सृत मुनि के लिंगार्थं मुख पर मुंहपतिवाधनी कही अगर न वांधे तो सृत मुनि देव लोके गथा मि श्यात पामे ऐसे स्थष्ट लेख को विक्रिगाना अभि न वेशक मिश्यातका काम हैगा ॥ १२ ॥

(प्रश्न १३)

जै० लिं० नि० पृ० ३४ पं० ८ से ये लिखा (वादखायु वर्णों के कोथले में नहीं भरी गई अर्थात् न रुकी तो तुम्हारी मुखपती एक तरफ वांधने से और तीन तरफ खुला रहने से क्योंकर रुक सकती है) तेना उत्तर श्री उत्तराभ्येन जी अभ्येन १४ गाथा ४१ का जो हवाला वादी ने लिखा तिस पाठ में [दुकर] शब्द हैगा जिसका अर्थ दुसकर ते दोहले का होवेगा परन्तु नहीं का कदापि अर्थ नहीं हो सकता और सक्त परिहार तो रुक सकता है असक्त परिहार से ही केवली महाराज के वी चलायमान योगों के कारण इरिया वहीया २५ वीं किरिया लागे हैगी और सक्ती सारुही उसासादिक सात ही कारजों के वास्ते मुख तथा अधोद्वार दोइ ठिकाने विसेप यतना के वास्ते हाथ से वी ढकना श्री आचारांग जी में भगवन्त ने पहुपा हैगा ॥ १३ ॥

(प्रश्न १४)

जै० लिं० निं० पृ० ३८ परिति २५ मे ये अडमुत कुमार वा
 यत लिया (लहू गहराय कर श्री गातम स्थामी के माथ उङ्गली
 परडे हुवे साथ मे चला आर रस्ते मे कहने लगा कि हे स्थामी
 जाव आपके पास खोली मे बोका बहुत है सो मेरे को दीजिये
 मे लेचलू) जिसमे लहू रा बहगाना १ खोलो मे बोक बहोत
 होना २ और मेरे को दीजिये मे लेचलू ३ ये तीन बात श्री
 अत गडमा वर्ग ६ आयेन १५ मे तथा श्री भगवती जी शतक
 ५ २० ८ दोड ठिकाने मूलपाठ मे नहीं हंगी श्री अतगड दमा
 वर्ग ६ आयेन ८५ वें मे लो गौनम स्थामी जी महाराजको अगुली
 महन कराने अपने घर अपनो माता के पास भिन्ना निलाने को
 लेजाना और बार प्रसार का आद्वारातिक प्रतिलाभना चला ते सून
 मे देप लेना जी जै० लिं० निं० पृ० ३६ प० २५ मे य (सून
 के बिना आठ तय करना) लिया तेना उत्तर बाड़ी के मान्याना
 के आचार दिन कर ग्रथ मे १६ अगुल के चारब्द उष्ण से आठ
 तय यने पुड़री मुख्यपत्ति चली जिसको छिपाकर लीगों को धोना
 देता है ॥ जै० लिं० निं० पृ० ३७ प० १८ से लिया (मोह
 पत्ती दूर रखय कर आमरु रा बृत धराय कर देव पीछे गया
 तेना उत्तर श्री निरियागलिना जी मे दूर के करने से मालम
 शाहण ऋषि ने १० बृत लो स्वय अगीसार किये चला परन्तु
 काष्ठ रा मुख्यता दूर कराने का तो पाठ चला नथी फर जै० लिं०
 निं० पष्ट ४५ परिति १७-१८ मे ते लिया (हमसो ऐमा पाठ
 कर्णी नतलाइये रान मे से टोरा खोल बर मोहपत्ती पड़िलेही
 र ता) फेर आगे प० २५ से लिया (सून मे तथा अर्द मे
 मुख्यपत्ती की पटिलेहणा तो नहा परन्तु पड़िलेहणा करने यात
 आठ लड करने तागा लगाय पीछे गुड़ी मे नावना अधार पान
 मे यामना या वसान मे बाधना इन्यानि रिमी मे न आगा)
 तांग उपर सून के मूल पाठ मे पूजनी साड़ी चोलपट्टा योनकर

पडिलेहणा करके रोज रोज पूजनो साडी चोलपट्टा वाधना कहीं
चला ते हमको दिखाओ नहीं तो क्यों मुखपत्तो की झूटों तक
उठाओ और बाढ़ी के मान्य आचार दिन कर ग्रंथ के उपगरणा लिखी
कारे ३० मे उदय मे टीका विच ये तो ऊपर भी लिखा। जा चुका
है और दंडी दम्भ दर्वण ग्रंथ में ग्रंथ करता पृष्ठ ५४ मे लिखते
हैं “देवसूरी जी अपने समा चारी” ग्रंथ मे ये लिखते हैं (मु-
हपत्ति की पडिलेहणा करके उसको मुंह से वाधकर रजो हरण की
पडिलेहणा करे तत पाठ (मुख वञ्चिका प्रति लेड्य मुखे वञ्चा
प्रति लेख यति रजो हरणम्) फेर जै० लिं० नि० पृष्ठ ४६-४७
मे श्री जम्बूदीप पण्टीसे भर्थ महाराज चक्रवत का पाठ लिख कर
पीछे इसके अर्थ की युक्ति पृष्ठ ४७ पं० १८ मे लिखा (इस
जगह सूत्र के पाठ वा अर्थ में मुह वांधने का नाम भी नहीं)
तेना उत्तर इस पाठ में तो भर्थ महाराज का आभर्णा लंकार मृक
ना चला परन्तु चोलपट्टा रजोहरणादिक किसी वी उपगरण का
लेना १०००० राजाओ मा है किसी का वी चला नहीं तो क्या
बाढ़ी उपरोक्त सभी को जिए कल्पी कह सकता है आगे पंक्ति
२३ मे ये लिखा है (मुहपत्ति मे डोरे का हाल बतलाइये) फेर
पृष्ठ ४८ पंक्ति ११ मे लिखा (मुहपत्ति का डोरा कितने तागा
का या कितना लम्बा गेरना चाहिये) तेना उत्तर आर्या की साडी
का नाडा कितना लम्बा कितने तागा का गुथा हुवा या बटा हुआ
चला और पूजनी और रजोहरणे मे कितनी लम्बी गिरणी मे
कितनी फलीया रक्खे तेहना प्रमाण बताओ मूल पाठ से ।

जै० लिं० नि० पृष्ठ ५० पंक्ति ७ मे ये लिखा (अरे अकल
के दुसमन जैसे रजो हरण से काम पड़े जब रजदूर करता है
तैसे ही मुख से बौलने का काम पड़े जबही मुखपत्ति से मुख
आङ्गादन करना अङ्गीकार करो) तेना उत्तर अरे देवाणु प्रिया
जिए मार्ग पाय कर अकल के दुसमन मत बनो ये रीती तो
उम्यो गवंत जिए कल्पी का हैगा जो नगर में आते बक्त चोल-

पहु अथात कटि पन्थन वी नाव पीढ़े बाहिर जाके उत्तर
दर्ते न्याद नाद को समझो प्लात सेचने गले जिए धर्म विरोधक
अमातु होनाते हैं ये पर कल्पी का तीव्रा उपयोग रहना असभव
हैगा गियो को नार नार उपदेशादि देना पडता हैगा उनी के
पास इ नाड घड़ा चर्य की परुषी और चिण बल्पी का तीव्रा
उपयोग रह सकता है ऐसे उनके माथ शिष्य बर्गरह नहीं होते
इसी लिये श्री दमामुन यद नी के ७ मे अच्छेन मे ये पर्या [मातिया भिन्नु पडिम पठि उणसम अणगारस्म इविगा पुरिसेगा
उपमय उरा गद्वेज्ञा से इविण्या पुरिसेगा नोसे कप्पइ त पुन
नितमिनाण्या परिमिति आगा] इस पाठ मे परुषा पडिमा धारा माधु
ए उगमर म काँ इक्की पुरिय आनाने तो उस इक्की पुराय के मनर से
साहु जिमल नहीं इमहीन विण कर्पी माहुनो वार्य पडे जर ही चोनपट्टा
पी यादे और ध्वर कल्पी माहु भवकाल चोनपट्टा और मुहफनी
याद रहे लिगार्य जै० लि० लि० पृष्ठ ५३ मे दूढिया के नाम हे
जतीया पी घो निदा लिगी उन पास थो मे तो योई बोट्टे
भागगान फँते हैं मेरे से जथा तथ नहीं पलता तो पाल त
थय है मैं तो पर उगार परता र धर्म सुनारर जीरो यो टिराने
लाता है और अउनो आनीवरा चलाता है ऐसे मर याने दा
न का तो भगातर मे बन्धाग होनारेगा परन्तु झूंटे निदा परन्ते
पाले तो गोमाना भी पर्ते घला काज रनमा जै० लि० लि० पृष्ठ
५१ पर्ति ५ से ये निदा (श्री अमरे वालिरो जी के नीते
अयो म ५२ अनारार म तुने मुप या अनार न परा)
आग पर्ति ५ म ये निदा (परन्तु मुप न याप यो भी पार भया
है ऐसा मूर मे नहीं यापा है) तेना उता ५२ अनार और
पारी गमले के अयोरो भ मुप पनी यापने पाले यो वी अना
पार और पारी भारा र परा आगे पर्ति ५० म ये निदा (र
पोरा शम इड राप मे तुप शर या पर्ते तुप शर ए
पोन या ट्रिप्पे नाप और भगडे मुप योन गो मर्द राप इम

रीति से कह कर फिर टीका कारऐसा कहते हैं कि जीवकी रक्षा करने के अर्थ मुख ढाक कर बोले तो निवेद्ध भाषा) उपरोक्त शक्तेद्र वावत लेख तो वादी के मनोर्थ का वाधक है जिसके वावत प्रश्न १२ में विसेप लिखा पृ० [३०] में तिहा देवत लेना जो, जै० लिं० नि० पृष्ठ ५५ पंक्ति १२ में ये लिखा (मातु को तो हमेशा जब शब्द उच्चारण करे तब मुख को ढक कर भाग वर्गना निकाले और श्रावण लोक मन्दिर जी में धर्मशाला में अथवा समायक प्रतिक्र मण पोमा देशावगासो सातु के सनमुख जो वचन उच्चारण करे सो मुख ढक कर उपयाग सहित बोल उत्तर में ये लिखा जो वचन उपदेश नहीं है कदाचित) उपरोक्त शक्त इन्द्र का आंर पृष्ठ ५५ पंक्ति १२ बाले दोइ लेख वादी लिखित तो वादि लिखित पृष्ठ ३३ पंक्ति ११ के उस लेख के विरुद्ध हैं जिसमें वादी ने चौफरसी से अठ फरसी वायुकायकी हिसा का निषेध किया है और शत पदी ग्रंथ के कर्ता से विरुद्ध हुआ ॥ १४ ॥

(प्रश्न १५)

जै० लिं० नि० पृष्ठ ५५ पंक्ति २२ से पृष्ठ ५६ तांड जो मन कल्पित लिखा तेना उत्तर मुख आङ्गादन कर बोले या मुखपती वांध कर बोले या खुले मुख से बोल कर जो कोई दुष्ट वचन या हील नीक या हिसा कारी या छेदन भेदन कारी या मरम कारी या पर निन्दा कारी बोलेगा उसको सज्जन पुरिय कभी वी अछा नहीं कहेंगे और अशुभ कर्म वी बंधेगे विन आलोय विराधकवी रहेगा जै० लिं० नि० पृ० ५७-५८ में ये लिखा श्री दसवे कालिक जीअने श्री पन्नवणा जी के भाषा अभ्येन में ऐसा न कहा जो साधु मुख वाध कर बोले सो तो अराधक नहीं तो विराधक तेना उत्तर प्रथम तो इहां भाषा अभ्येनों में येह वी नहीं चला के मुखपती से मुह को वांध कर बोले मोतो विराधक और मुख को आङ्गादन करके बोले ते आराधक दूसरे पृष्ठ ५४ बाले शक्तेद्र के हवाले

वाना पाठ सुलामा चल गया के मुख ढार कर बोले तो निर्द्व
भारा इससे ज्याना और क्या सुलामा पाठ चलता तीजे पृष्ठ १० में जाने
लिखित श्री आचाराम जी सुतखध २ अंयेन २ ३० ३ वाला पाठ
जिमम उपासादिक ७ कार्य करना मुख और अबो छार को वि
गप जतना रे लिय हाथ से जी प्रिसेस ढाकाने मातों कार्य कर
चौथे जब जारी ने पृष्ठ ७८ में ये आपी लिख दिया (पुस्तक
हाथ में लकर भव्य जीवों को उपदेश देने वाला बान में मुहूपती
द्वाज बर नाक और मुह को ढक कर दूसनार) पाचवे जाना ने पृष्ठ
५५ में वी जो आप मातु श्रावक जागत लिख दिया (नो प्रचन
उच्चारण करे मो मुख ढक बर उपयोग मतित बोले उगडे मुख
रोलने वा उपदेश नहीं दे इच्छित) ज० लि० नि० पृष्ठ ६२
पक्षि २४ में यू लिखा (र्याता सूत्र के आठरे नौरे अंयेन में
नित शनू राना वा श्री मरलीनाथ के अधिकार में मुख ढकने के
वास्त पछ नहीं दुपट्टा कहा) तना उतर अंयेन ६ में है दी
राजाओं ने आर अंयेन ६ में जिरा रग्मय जिरा पालिये न
अक्षिरा रे बण गढ़ में जाति विरिया दुर्गन्ध रे बारगा दुपट्टे
से आप अपना मुख ढाना बुद्ध वायु नायरी जतना रे बारगा
नहीं ढमा तेनी तर किस प्रयोनन हैगी।

ज० लि० नि० पृष्ठ ६२ पात्त २० में ये लिखा (गोतम स्वामी के
पाम मुखपत्र हैं तिम बब्ब की ऐसी धापना प्रमाणा महित करी हुई
है कि इन बब्ब से मुख ढकने के मिशाय दूसरा बीई पाम इस
बब्ब से न बरना इस धाम श्री गोतम स्वामी के बब्ब यो मुख
पत्रना कहा) इसर पिरद्व ज० लि० नि० पृष्ठ ७८ पक्षि १० म
ये लिखा (यती हाँा, पर्ता मुपती भरते राम गमीर प्रमा-
जा पररे मयनी भोनन परे) प्रभम तो उपरोक्त दोइ लेप
परस्पर विरुद्ध होगये हैं दूसर उपरोक्त दोइ लेप से भाद्रम हुआ
रे भी अनरे वालिर तो अंयेन ४ वी गापा द३ यी फी अप
कूरी तथा दर्दभद्रमुरी इन दीना और पाय दन मुरी का लिया

वा वाला वोध के करता श्री गोतम स्वामी जो महाराज का रीति
 से बाहिर थे अगर वाहिर न होते तो १ उपर्गन्त से वादे के
 लिखे मूजव दूजा कार्य करने को कदापि न लिखते [हथगं
 संपमदिजता] इस मूल पाठ का अर्थ ये बनता हैगा हाथों कौ
 पूँजीने (अर्थात् पूँजने के उपर्गन्त पूँजनी या ओगे से) तिवारे
 भोजन करे प्रथम तो [हथगं] ये शब्द चतुर्थ विभक्ती का हैगा
 साख श्री उत्तराध्येयन जी अध्येन ६ मे नमी राजरिपी गथा
 ८ । १३ । १६ । २५ । २६ । ३३ । ३६ । ४३ । ४७ । ५२ मे [देविंद]
 शब्द से कहते हुवे ॥ और गथा ११ । १७ । २३ । २७ । ३१ । ३७
 ४१ । ४५ । ५० मे [नमिरायरिसि] शब्द से कहते हुवे ॥ इसी
 तरह रामोकार मन्त्र के पांचों पद को नमस्कार करते हैं यथा
 [रामो अरिहंताणं] अर्थात् नमस्कार हूजियो अरिहंत महाराज
 को यथा [चउथी संपयोवणे] और मुखपति चर्चासार पृष्ठ ५५
 में पंच वस्तु प्रकररा वृति के उपकरणना अधिकार से द्वितीय
 आदेशो मतान्तरम् मुख प्रमाणेन निष्पन्नं मुरवा नन्तकम् एतदुक्तं
 भवति वसति प्रमाजयतः साधोन्तर्सि का मुखयो रजः प्रवेश रक्ष-
 राार्थम् उच्चार भूमो नासिका शादि दोप परि हारार्थ च यावता
 मुखं प्रच्छ्रा यते इयं सां कोरा द्वए गृहित्वा पृष्ठ तश्च कृकादि
 कायां यावता ग्रन्थि दर्तु शक्यते ॥ और जो श्री दसवें कालिक
 जी अध्येन ५ गा० ८३ में जो उपरोक्त चला इसका काररा ये
 हैगा कि भिक्षाचारि मे परवते ते जो सुचित रजा दिक हाथो पर
 होवे उसको पूँजने के उपगरण से य तना के बास्ते पूँजे जिम श्री
 समवा यांग जी २० । २१ में और श्री दरा सुत खंध अध्येन
 १ । २ में अम माधिए और सबले दोषो में सचित रज सहित
 हाथ पैरों से सभ्या संथारा भोगे अन्धवा सचित पृथ्वी सहित सभ्या
 आसन आदि भोगे तो दोप लगे तिमही सचित रजादि सहित हाथों
 से अहारादिक भोगे तो दोप लगे ऐसे दोप के निवारराार्थे श्री
 ज्ञाता जी अध्येन १६ में श्री धर्म रुची मुनि का ए पाठ चला

[मुहूर्पोत्तिय पढ़िलेहे ति २ ता समी सो वरिया काय पम बजेति २ ता] धर्म स्ची मुनि ने मुरत्रपति की प्रति लेखना करी ने मस्तक सुगा काया पज्जी चला परन्तु गाढ़ो के लिखने मूर्जिन मुख पत्ति से पूनना कद्दा नहीं ॥ और मुख उष्णिका की प्राचीनता सिद्धि पू० ६ पत्ति २४ मे लिखा कवीर साहन अपने “योजक नी तीसरी रमैनी” पू० ६६ मे लिखते हैं कि (ग्राधे तो मुहे पट्टी रहे हैं) आगे पृष्ठ ७ पत्ति ३ मे लिखा कि (जेष्ठ शुक्ला १५ सम्बत् १४५५ विक्रमीय मे लहर ताला ताल के बिनारे बनारम मे पैदा हुये थे । अर्थात् कवीर साहन ॥ इसी पुस्तक के पृष्ठ ४ मे ए लिखा कि चारित्र माला पृष्ठ ६२ पर लेखक ने लिखा है है कि “सम्बत् १५६७ विक्रम मे मो पर मुमती राम नारा जैन वर्मना साखुओ साथे प्रश्नोत्तर थया हता ॥

श्री आचाराग जी सुतपव २ अध्येने ३ उ० ६ मे ये पूर्णा भडग पड़ि लहेज्जा २ एगओ भायेण भडग करेज्जा २ भसी भोगरिय वाय पाए पमज्जेज्जना सागार भत पञ्चयायेज्जा] यहा नाय मे चढ़ते भक्त भटोपगरण एकठे करी सिरसे पैरो तक काए पूजीने (कोइ त्रम अथवा सुचित रज आदिक सरौर और भटो पगरण पे लगी न रहे इम वास्ते) सयआगारी सथारा करीने नामा पे वैठने का कल्प पूर्णा इमी तरेह श्री आचाराग जी सुत-रव २ अध्येन २ उद्देशे ३ मे ए पहरा [से पुरा मेरसी सो गरि सय वाय पाएय पमज्जिय २ तनो मजयामेव वहु फासुएसेज्जा सयारगे दुर्द्देज्जा] इमरा अर्थ ए है कि पहले मस्तक से पेरों तक को पूजी ने मवारे पर चैठे ॥

जै० लिं० निं० पृष्ठ ६३ प० ६ मे लिखा (उपासक दिमा सूर अ-येन ३ तीमरे मे०) इम लिखत मे० अ-येन २ कामदेव जी श्रावक के को तीसरा लिखना झूठा हैगा आगे पृष्ठ ६५ पत्ति ७ मे० ए लिखा (पुब्यरता नरताम) ए यो गलत है ए पाठ चला (तयेण कुट्टको लिय अणेयामयाइ पुरानरण वाल) इस

पाठ का ए अर्थ हैगा, सूर्योत्त से पहले जिसका अर्थ बादी ने पं० १४ मे (मध्य रात्रि के विषे) लिखा ते पाठ अर्थ दोइ अशुद्ध लिखे । इसी तरेह पृष्ठ ६६ पंक्ति ३ मे (पुव्वावरत) अशुद्ध पाठ और पक्ति २४ मे (अर्धरात्रि) अशुद्ध अर्थ लिखा है ॥ और जो जै० लिं० निं० पृष्ठ ६३ से ६८ तक में कह बाल श्री उपासंगदशा जी के श्रावगों वावत लिखे तेना उतर प्रथम तो तिहाँ बोलने का प्रयोजन ही अल्प है दृजे जो बोलै तो मुख ढाकीने बोले अवस्थ मेव जिस बादी ने जै० लिं० निं० पृष्ठ ५५ पंक्ति १३ से १६ तक मे यूँ लिखा (श्रावग लोग मंदिर जी मं धर्म शाला मे अथवा सामयक प्रतिक्रमण पोसा देशावगासी साधु के सनमुख जो वचन उचारण करे सो मुख ढक कर उपयोग संहित बोले उवाडे मुख बोलने का उपदेश नहीं है कदाचित्) तीसरे श्री उपासक दसा जी मे श्रावगो के उपगरणों की गिणती कितनी चली जिसमे मुखपती नहीं चली तौ क्या उपासक दसा जी मे श्रावग की पूजनी चली है भो देवाणु पिया श्री दशा सुत खध अव्येन ६ मे ग्यारवीं पडिमा मे श्रावक के वावत पाठ ए चला [गहिया यार मंडगं नेवथा] ग्रहण करे आचार पालने के भांडे ते पात्रा दिक भेष पहरीने ते साधु का भेष करीने इसमे साधु बाले सवी उपगरण मुखपती पूजनी आदिक आगय जो थेवर कल्पी साधु के उपगरण और रीती मिजाचरी आदि की और अन्य शास्त्रों मे पर्याप्त ते सबे जान लेनी श्री समवायांग जो ११ मे ११ मी पडिमा धारी श्रावग को [समणु भुय] समणभूत वी कहा हैगा शतपदी भापां तर के पू० २३ पं० ११ मे ए लिखा (कोइ कहेशे के प्रतिक्रमण भाष्य तथा अविश्यक वृत्यादि कमां अगी आरम्भी प्रतिमा लेतां रजो हरण ने पात्रा लेवा कहा छेत्या मुखवञ्चिका नथी कही, माटे ते अगाड होवी जोइए, तेतुए उतर छे के (अगिआरम्भी प्रतिमा लेतां तो अवश्य चौदे उपगरण हो चा जोइए, तेथी तेमाना वे साक्षात् कही बताव्या छे, अने तेनो ए अर्थ थाय छे के रजोहरण शब्द रजोहरण,

मुखविक्रिका, वर्गेरा छ उपकरण, अने पात्रा शन्दे, पात्रक, पात्र बध
पगेरा द नु उपलक्षण थाय छे, ए अर्थे पचास का टीका मा छे,) इहा तो
पादी के पूर्ण चार्येनि भ्यारवीं पद्मिमावारी शापग के मुखपती और रजोहर
णादि साधू जी वाले १५ उपगरण लिय दिए और इसी पुस्तक के २० २०
पक्षि ५ मे एलिला [पिंड नियुक्ति, तथा व्यवहार भाय मा तशमी प्रतिमा
सूधी श्रावक ने लिंगथी वैधर्मी गण्यो छे, अने त्या टीका कारे लिंग एटले
रजोहरण तथा मुग विक्रिका रूप कहु छे,] आगे इमी पृष्ठ की
पक्षि १६ मे लिग्ना [रजोहरण रागता कइ लिंग थतु न थी]

जै० लिं० नि० पृष्ठ ६६ पक्षि २० मे महा नसीथ वी चूलिका
से ए पाठ लिग्ना (कणो ठिया ए चा मुहण तगेणावा विण इरिय
पढि कम्मे मिछूमड पुरि मढवा) आगे पक्षि २२ से इसका अर्थ
य लिया (अर्थ मुखपती कान मे थापन करे तथा मुखपति
आदिक से० मुखको ढाके निना जो इरियाप्रहि पद्मिक मे तो
दण्ड नहीं आवे इस जगह कान के विषे मुखपती थापन करने
से दण्ड कहा इस हेतु से हाथ मे रगना मिढू हुआ क्योंकि देखो
मुख पै नधु दुई होती तो मुख ढके निढून इरीया वही पद्मिक
मे तो दण्ड आवे ऐसा कहना सूत कारका क्वापि न बनता) तेना
उत्तर आगल तो जै० लिं० नि० पृष्ठ ४ पक्षि १३ मे वादी ने
लिया है (क्योंकि जो मूल के मानने वाले हैं नन शरसों से
सूल ही से भमभाना ठीक है कारण कि जिम को जो मानता
ही नहीं है) ये वादी लियता है फिर क्यों महा नसीथ वा
अगचूलिये वा आगश्यक नियुक्ति वा अवसुरी वा ओघ निरयुक्ति
का पाठ वा अर्थ वायुक्ति लियता है दूजे महा नसीथ का अर्थ
वी वादी ने ठीक नहीं लिया तेने अक्षरों से तौ निम्न लियित
अर्थ निम्नलिखा हैंगा कानों मे थिरपने वार्ष वा मुखपर तरगे करी
विगा इरिया वही 'पद्मिक मे तो' मिछामि दुकड 'वा' पुरिमड
वा 'दण्ड आवे' इसके अर्थ मे वादी ने नहीं दण्ड आवे ये अर्थ
अनर निढून निना पिता के पुत्र समान लिग्ना है

मुहपति चर्चासार पृ० ६७ पंक्ति १५ से महानि शीथ सूत्र की पहली चूलिका का ये पाठ लिखा (मुहण्णं तरोणं विण इरियं पडिक्कमेज्जा चंद्रणं पडिक्कमणं वा करेज्जा जंभाएज्जा वा सज्जायं वा करेज्जा वायणादि सब्द त्थं पुरिमठं)

जै० लिं० नि० पृ० ७३ में श्री नसीथ जी उ० ४ से ए पाठ लिखा [जे भिखु निग्रंथीणं आगमणं पहं सि दंडगंवा ल-ठियंवा रयहरणवा मुहपोतियंवा अणायरंवा उवगरण जायं ठवेति २ तंवा साइज्जति] इहां तो मसकरी करोने साधवी के आने के पंथ अर्थात् रस्ते में उपकरण थापे तो दंड परुपा - परन्तु साधवी का उपगरण छिपाना तो कहा नहीं छिपने छिपाने लुकने के शब्द पाठ में निम्न लिखित तो चले श्री भगवती जी शतक १५ में [सेणं अणावरीते आवरिते मिति अप्पाणं मणंति अप्पद्वर्णेय पछंणमिति आप्पाणं मणंति अणुनुक्ते लुक्तमिति अप्पाणं मणंति] और श्री अतगड दशा जी वर्ग ६ अध्येन ३ में [पछणा चिठ्ठि] अर्थ प्रछन्न अर्थात् छाना रहे छिपे रहे श्री आचारांगजी सुतखंध २ अध्येन २ उद्देशे २ में [अयंतेरो पविसूइ नोवा० उवलिय तिवा नोवा०] इस पाठ की टीका शोलंगाचार्यकृत (यथा यं चौरः प्रविशति नवेति० तथोपलीयते नवेति०) इस पाठ का ये अर्थ प० प्रवेश करें या नहीं उव० उवलिय कहतां लुकी रहे या नहीं और श्री पयूषणा कल्प विच समाचारियों में ये पाठ चला [पाणिणा पाणं परि पिहेता उरं सिवाणं निलिङ्गे उज्जा०] अर्थ हाथ से हाथ को ढाकीने काल जे के नीचे छिपाना ॥ परन्तु [ठवेति शब्द का अर्थ छिपाना तो वन नहीं सकता जै० लिं० नि० पृष्ठ ७४ में श्री दसवे कालिक जी अध्येन ५ गाथा द३वीं लिखके उसकी टीका अवचुरी हरीभद्र सुरी कृत टीका और पार्वत चन्द्रसुरी कृत वाला बोध से सिध करने का प्रयत्न किया है परन्तु जै० लिं० नि० पृ० ६२ प० २० में ये लिख चुका है कि (गोतम स्वामी के पास मुखवन्ध है तिस वन्धु की ऐसी थापना प्रमाणे

सहित यरी हुई है कि इस घब्ब से मुख ढकने के सिवाय दूसरा कोई काम इस घब्ब से न करना इस राते श्री गोतम स्थामी के घब्ब को मुख घब्ब पा करा) इस से वादी लिखित दोइ लेख परस्पर विरुद्ध हुवे और इससे यह वी मालूम हुआ कि श्री गोतम स्थामी जी की किरिया याने कारणी से विरुद्ध घरनी कराने वाले हरी भद्र सुरी टीका घार और पार्वत चद्रसुरी वाला घोड़ के घरता वादी के लियने मजिध हुवे अगर विरुद्ध घरनी कराने वाले न होते तो एक उपगरण से दो पार्वत घरने को वादी की सर्धा माफक कदामी न लियते ॥ और श्री प्रश्न व्याकरण जी के प्रथम सधर द्वारकी चौथी भावना मे ये परुषा [सप्तमज्ज उण समीक्ष काय तहा कर यल] टीका मे (रजो हरण भ्या स शीर्पं काय सम स्तम शरीर तथा घरतल हस्त तलच) आगे जै० लिं० नि० पृष्ठ ७४ पक्ति० ४ मे ये लिया (आपतो भीय मागी फिर गृहस्थियों को भीय मगा कर यगाया शांचों मे आग को आचाची यताया) तेना उत्तर श्री दशासुन रथ आयेन ६ आग की ११ वी पढिमा बीच ये पाठ [तस्मण गहापइ कुल पिंड वाय पडि या ए अणु पविठस्स कापइ एव वइत्ता समग्नो वास गस्स पडिमा पडि घनस्म भिय दलह] चला इसका ए सत्तेप अर्थ तिसमो गृहस्थ के घर मे जाकर कल्पे ऐसा कहना कि पडिमा धारी आग को भिक्षा दो जब भगवत ऐसा हुकम दे जुने इससे वादी का लेख अज्ञान सूचक मत पक्ष से भय हुवा सिद्ध होवे है ॥ जै० लिं० नि० पृष्ठ ७५ मे जो शिव पुराण से लिया उस लेख से तो वादी ना दडा रपना विरुद्ध है क्योंके वहा हाथ मे दडा रपना कहा नहीं ॥ शांचों धारक वाल ग्रन्थ चारी सर्व गुणालवृत्त श्री मदू जैनाचार्य पढित मुनिराज पूज्य श्री श्री १००८ श्री अमोलक ऋषी जी महाराज कृत जैन तत्त्व प्रकाश चतुर्थी वृत्ति पृष्ठ ५५८ पक्ति० से शिव पुराण ह्वान सहिता अव्याय २१ से लियते हैं गे श्लोक (मुण्ड मलिन घब्बच ॥ कुडि पात्र समन्वित । दधान

पुस्तिका हस्त चाल यन्त पदे पदै ॥ वस्त्र युक्तं तथा हस्तं । निष्प
माणं मुखे सदा धर्मती व्याहरं तन्ते । नमस्कृत्य स्थितं हरे ॥ हस्ते
पात्रं दधा नाश्च तुएं वस्त्रस्य धारकाः मलिना न्येव । वासंसि,
धारयन्तोल्प भापिरा) अर्थ सुगम ॥ श्री मान शङ्कर मुनि जी कृत
मुख वस्त्रिका की प्राचीनता सिद्धि पुस्तक के पृष्ठ ११ पंक्ति २४-२५
में लिखते हैं श्री माल पुराण के अन्याय ७३ श्लोक ३३ (मुखेद
धातो मुखपति) आगे पृष्ठ १२ में अवतार चरित से (धरिनय
नमृदि अरि हंत व्यान, सब श्रावक पोपादि वृत्त साधी, मुखपट्टी
स्थध अरम्भ उपाधि) आगे पृष्ठ १४ पंक्ति ६ में समाधिक सूत्र
से यूँ लिखा (मुहण्डं तगेण कणो ठियाय विणा वंधइ जो कोवि
सावय धम्म किरियायं करन्ति तस्स एगा रस्त सामाइ वस्सणं पाय
च्छ्रुत भवइ ॥

जै० लिं० नि० पृष्ठ ७८ पं० ७ से १० तक ये लिखा (और पुस्तक
हाथ मैं लेकर भव्व जीवों को उपदेश देने वाला कानमें मुंहपत्ति ढाल
कर नाक और मुह को ढक कर देसनादे सोभी देसना के कांलमें
वीच में मुह पत्तिको बदले) यहां वादी ने नाक और मुंह ढाकना क्यों
लिखा जब वादी सास उसांस को पृष्ठ ३३ पंक्ति ११ में चौफर सी
लिखकर चौफरसी से अठ फरसी वायू काय की हिंसा उथापी है
जिसका उत्तर श्री आचारांग जी सुत खंद २ अन्येन २ उद्देशा
३ मे उसासादि ७ कार्य करता विसेष करके हाथ से ढकी कार्य
करने भगवंत ने परुपे जिसे वादी ने वी जै० लिं० नि०
पृष्ठ १० मे माना है अगर वादी उसांस और मुह से वायुकी हिंसा
टालने के वास्ते पृष्ठ ७८ मे नाक और मुह ढकना माने तो ठीक
अगर वादी थूक के छीटों के कारन नाक और मुंह ढकना कहेगा
तो झंचा सांस लेते वक्त और जंभाई लेते वक्त और वाय नि
स्ग अर्थात् (अधोद्धार से वायका निकलेते वक्त जिसको (पाद)
बोलते हैं और डकार लेते वक्त वी क्या थूक के छीटे गिरते
हैं जो हाथ से विसेष ढाकना भगवंत ने परुपा इत्यादिक विस्थ

वानो से जै० लिं० निं० पुस्तक भरी हुई हैगी जै० लिं० निं० पृष्ठ ७८ प० २३ मे ये लिखा (नारगी जाना धोइ जा इस पाठ से साधु को जीर्ण वस्त्र लेना ठहरता है नतु नवीन वस्त्र लेना कदाचित जीर्ण वस्त्र का जोगान बने और अचेल परीसा सहने की सामर्थ्य न होय तो नवीन ले) ऐसी तो लिखते हैं और सदा काल नवीन लेके वस्त्र रगते हैं जै० लिं० निं० पृष्ठ ७६ पक्षि २ मे श्री नसीत उद्देशे १८ का ये पाठ लिखा [जे भिखु एवण मे वधे लद्वे तिर्फू, उहु दिव सिषण लोधेण्वा क केण्वा एहाण्वा पउम चुणेण वा वणेण वा उल्लो लेज्वा उव हृज्जं वा उछो लत वा उपट तवा साइज्जनै॒] ऊपर लिखित पाठ का ये शुध अर्थ हैगा जो भिक्षु नवा वस्त्र लावेद के घणो बार लोधादिक करी रगेवा मैल उतारे तो चौमासी लघुप्रा यछित आवे जिस उपरोक्त पाठ लिख कर इसमा अर्थ लिखते हुवे वादी ने पृ० ७६ प० ५ से॒॑ ए लिखा (इस सूत्र के अनुसार जो आत्मार्थी नवीन वस्त्र लेन्वर उसकी दमक आदि मिटाने के बास्ते रगते हैं वे जिन आहा आरायक ही ठहरते हैं तेना उत्तर प्रथम तो वादि स्वय पृ० ७८ पक्षि २३ मे ये लिखा (नारगीना ना धोइजा) अर्थात् रगे धोवे नहीं ये पाठ श्री आचाराग जी सुत सध १ अध्येन ७ द० ४ का हैगा जो प्रश्न २ (ग) मे लिखा हैगा वहा देख लेना पृ० ८ प० ४ से दूसरे जै० लिं० निं० पृ० ७६ प० ५ मे लिखा (दमक मिटाने के बास्ते) इत्यादिक तेना उत्तर श्री नसीथ उद्देशे १८ म ये पाठ चले [जे भिक्षु वण मत वथ निवण करेह करत वा साइज्जनै॒ जे भिखु विनण वथ बनमत करेह करत वा साइज्जनै॒ जे भिखु नवण मेवथेलद्वे तिर्फू सीतो दग निय डेण्वा उसिणो दग वियडेण्वा उछो लेज्वा पधोवेज्जनै॒ उछो लतरा पधोवतवा साइज्जनै॒] इण उपरोक्त पाठों मे पहपा के जे भिक्षु वर्णवत वस्त्र वा वर्ण विगाडे या विगाडे ते को भला जाने तौदृढ आवे जो भिक्षु विगडे हुवे वर्ण के वस्त्र को वर्णावत करे या भला

जाने तो दंड आवे जो भिन्नु नया वस्त्र लाद्वे थके अचित शीतल पानी से या अचित उशन पानी से एक बार धोवे या घणी बार धोवे या भला जाने तो दंड आवे लघु चौमासी इण सूत्र पाठों के विरुद्ध वादी तीन पसली रंग देना जो लिखता है ते विना वाप के बेटे समान विना पाठ के अर्थ हैंगा जी जै० लिं० नि० पृ० ८१ पं० ४ में ये लिखा (इनके पास में देखो तो ऊपर कहे मूजब इनके पास में न होने से तुमको आपही मालूम हो जायगा) इसका उत्तर प्रश्न २ के उत्तर में उपगरण अणोदरी और वृद्धं थेवर के उपगरणों वावत लिखा पृ० ७ में ते देखली जो जी ॥

इस दर्शन गुटके में किसी जगे श्री वीत राग के वचनों से विरुद्ध लिखा गया हो ऐसा संभव तो नहीं तौ भी छद्म स थ पन से या दिष्टी दोप से जिणोक्त सिद्धांत से विरुद्ध लिखा गया होवे तौ केवली महाराज की साक्षी से मिछा मिदुक्कड़ ॥ ॥ इति दर्शन गुटका द्वितिय भाग मन्तूलाल अगरवाल कृत समाप्त ॥

* ओ३म् शांति ! शांति !! शांति !!! *

द्वितीय भाग का शुद्धा शुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१	गायत	गाय	७	२	२१ म	२१ में
	३	जैव	जैन		५	गोरुग	गोद्रग
	४	१६४४	१६५५		६	लट्टी	लट्टी
११		जबा	जबो		८	भिसियधो	भिसियवा
१६		छदे	छदे		१२	स्थेवर	स्थेव८
२०		ज०	ज०		१४	मगवत	भगवत
२	५	आर	और		२०	भगतम्त	भगवन्त
	१३	पह्प	पह्पा		२८	चिवते	चियतो
२२		णव५	णवाँ५		८	गरा	गए
२६		भत्ते	भत्ते		१२	वद्दी	वादी
२८		वाल	वाल		१७	वस्त	वख
३	३	विकिनि	विकिठ		६	१	ज०
	१८	घाधते	घधाते			१	तिपा
२८		मुक	मुउ		१२	मेचे	मेंचे
४	१८	जन	जैन		१६	म बु	मनुष्य
	१६	पाठ	पाठ		२८	पण	पर्यं
२३		गर्णों	गर्णो		२८	चातो	ग्यातो
२६		सुग	सुग	१०	१	आयो	आया
५	२	प०७	प०८		३	द का	थका
	१५	कारी	करी		३	न द	नन्द
६	३	पह्प	पह्पे		१२	जाम	जीव
	१०	यानालुप	यानानाप		१५	धा	यारत
१४		भास्त	भोस्त		१७	उद्दु	उद्द
१८		पोस्ति	पोति		२१	अर्ध	अर्धं
२७		प्रथ	प्रथ निपथो		२२	अथ	अय

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११	१०	चौफसी	चौफरसी	११		जया	जथा
	२२	चौथी	चौथे	१६	२७	दूजा	दूजी
	२२	वधवा	वधावा		„	१५१	५२१
	२३	वधन	वंधेवे	१७	१	जन	जैन
१२	६	पुष्टं	दुष्टं	७		„	„
	१०	वावक	वधवी	१७		शक्रंद्र	शक्रेंद्र
	१८	निद्रद्र	निद्र	२३		मुख	मुख
	२३	समुधा	समुघा	१८	११	करी	करी
१३	६	विहस्की	विहत्थी	१८	२३	१६६७	१६४७
	११	मास्व	मारच	२४		वाचना	वाचनी
	१४	जहिव	वहिर्व	२७		मनि	मुनि
	१६	इत्या	इत्या	२०	५	धम	धर्म
	१६	तव	तय	७		बल्लर	बल्ल
	२४	मञ्जि	मञ्जि	२२	६	साडा	साडी
	२६	राव्व	राव्य	२६		वसी के	वसीकर
	२७	मित्थ	निष्ठ्यूत	२३	१	पाट्टिला	पोट्टिला
१४	१	'मुख	मुख	७		आर्या का	आर्याकी
	२	विन्दु	विन्दु	१२		सुननो	सुनना
	६	अधा	अर्थात्	१६		पर	परे
	११	पदा	पदी	२२		अंगुला	अंगुली
	२०	खमा	खस्य	२४	८	चला	चल
	२४	लिम	लिग	११		डडो	उडो
	२४	भेष	भेष	२५	३	नुनि	मुनि
	२६	झ	झु	७		ज०	जै०
१५	२	णाथ	णाश्र्वर्थ			६ द्वजपलेष्मः दस-प्लेष्मः	
	२	उच्चा	उच्चार	२४		काया	कार्यो
	३	अते	घ्यते	२६		हिंसो	हिंसा
१६	६	चचा	चर्चा	२६	६	विचला	विचला
						(मोनचरे)	

पृष्ठ	पनित	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पनित	अशुद्ध	शुद्ध
१२	सूरे	सूरे	सूरे	८	[जापि	[जपि	
"	सूरे	सूरे	सूरे	१३	वृत्तिमे	वृत्तिमे	वृत्तिमे
१५	सम्मुख	सन्मुख		"	मुनि	मुनि	
२७	६	फ्लोप्स	फ्लोप्स	१३	गथा	गया	
२२	आरिय	आरिय		१७	याद्रवायु	याद्रवायु	
२५	कम	कम		२०	१४	१६	
२६	धारन	धारन		३३	५	आपक	आपके
२८	२	ज०	ज०	११	विना	विना	
"	भीना	भीनना		१४	वान	वानी	
८	चमासे	चौमासे		१८	बून	बूत	
८	मेला	मेली		२८	पाठम	पाठमें	
६	निगाद	निगोद		३४	३	उठाआ	उठाओ
१०	लिग्यान	लिग्याते		४	३०	३० म	३० मे
११	दुर्घन्ध	दुर्घन्ध		४	उदयम	उदय में	
१४	"	"		५	५८ म	५४ मे	
२७	सुर्द	सुर्द		१०	म श्री	मे श्री	
२८	६	गृहन्यी	गृहर्यी	१७	म होरे	में होरे	
१६	ज०	ज०		३१	८८	कलणा	कलणी
२६	पा	वाय		३५	६	उप	उप
२७	अस्तित्वानि	उनहिताति		२१	पालिका	पालिक	
३०	६	मुर	मुर	३६	१४	से	से थी
"	मुर	मुर		३७	३	था	थी
२७	चले	चलेये		"	मह	मुह	
३१	२	ओ	ओ	१२	जिमा	लिमा	
१६	द्य	द्य		१८	(गोदत	(गोदम	
३०	१ पिण्ड्यामो	निण्ड्यामो		२६	सत्तो	सेत्तो	
"	ओर और	ओर		३८	१	स्यानी	स्यानी
७	३४	३४		४	शान्तो	गन्द	

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३८	१७	रार्थ	णार्थ	४१	१३	सां	सों
"	२०	य	ये	४२	६	निग्रंथा	निग्रंथी
३९	२	थम	ध	१५		धी	श्री
"		मुख्व	मुख	१६		करके	करे
"	६	वांचे	वाधे	२०		पवृ	पर्यू
२१		तता	ततो	४४	१७	सासा	सास
४०	२	अथ	अर्थ	४५	१०	टेवजे	टेजन
४०	१०	शालाम	शालामे	२४		तिकट्ट	तिकट्टू
	२०	आर	ओर	४६	१	यके	थके
२४		अवश्य	आवश्य	४८	२६	१५ न अर्था	णार्थ
२५		गत्री	पत्रा			२५ उ पलेप्म	
२८		थय	थाय			पलेप्म	दज दस
"		शब्द	शब्दे				

—१८—

—१९—

४ श्री ५

दादा गुरुदेव पूजा ।

उपायाय प्राणाचार्य युहिनारिधि
श्रीगमलालजी गाणि.
सकलित ।

यथा के प्रमिद्धरचा शिष्य प० श्रीनेमचाट मुनि
प० श्रीप्रोनाद्र मुनि, विद्याशाला,
श्रीविकानेर, राजभूताना ।

रा। इष गायत ।

योग म० २५३६=विक्रम म० १६७६
आगुति दूसरी १०००

प्रवधरचा परिदिन श्रोद्धारदत्त शान्ति के प्रवध से
शासुरेन्द्र भूपरा श्रीगान् प० जीवनगमजी हर्ष के
श्रीविकल जीवनान्त्र प्रेम वीकानेर
में मुठिरा ।

गुरुक विद्वन् ॥ १ ॥
श्रीविकानेर गजभूताना मोहद्वा गधडी
उपायाय श्रीरामलालजी की विद्याशाला ।



॥ श्री ॥

भूमिका

मालुम हो ता० १७ C-१६ ईमी को जैन नैति^{१७९५}के अधिकार में
गुरुंप दी महिमा को अस्वामान दो पुर्णो के नाम में १२ आनंद
रूप प्रति प्रगट करे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर स्वयुद्धानुमार यहा प्रगट
एवं उचित समझ कर, कर है। प्रश्नों का उत्तर इस नहीं लिया
देवल समुच्चय उत्तर लिय दिया है।

जिन अत्यन्त सूरीधर के नेवलोक हुये पीछे अत्यन्त गद्य का श्रीमध
अत्यन्त उत्तम हुआ उस समय बडगढ़ नायक श्री देवभद्रमूरि देवता
ने श्रीमधर म्यार्मी को यत्न कर प्रश्न पूछा, हे प्रभु अत्यन्त गणपति !
जिन अत्यन्त सूरि का गति में गये आर दित्तने भव मंगल में दोगों ।
तब श्रीमधर तीर्थकर ने यही तो गाथा उस का परमार्थ ऐसा है, निन-
त्तमूरि संपर्क दे वलोक के टष्ट रिमान में चारपल्य की मिथनि परम-
हर्दिक देव हुये हैं वहाँ में अपराह्न महामिहेत में मनुप्यामतार में भर्वज
मर्व अर्जी मुकिन पद पावेंगे । वे दो गाथा देवभद्रमूरि देवता ने अन्य-
में नगर में गान्धर श्रीमध को प्रगट होकर दी और श्रीमधर म्यार्मी
के उच्चन अवग यराये तब में श्रीमध भगव श्रावरम्य नगर २ प्रति
स्थापना पर उत्तम भास में पूजा करने लगे । नादा गुरु नेव एवं नार
की भूमि याचित है प्राय चारगु म्यापरा है । मुख्ट युडल गुर्नेद
की प्रतिमा को भारी निन मानस एवगने यथा वर्षमान निन रन्न
पान्न योग्य है तैरे एवं आगारी तिरभी पृथनारायोन्य रागम भग्न
है । नेवाह उत्त्यु में आगारी निन पद्मनाभ रामो एवं प्रतिमा दो
रांकित बिन्दन पूजा दर्शने दद्य देवा है उत्त दो तो देवा

लेना। गौतमादि गणधरों की मूर्चिं को भी सुकट कुँडल भामंडल छत्रादि श्रावक वर्ग आरोपण करते हैं। तैसे ही गणधर मुकितगामी दादा गुरु देव को भी आरोपण करते हैं।

२. अंबड श्रावक के देवी ने हथेली में सुवर्ण अङ्कर लिख कर कहा था जिसके बास क्षेप से ये अङ्कर पढ़े जावे उस कूँ युग प्रधानाचार्य जानना। वह श्रीजिनदत्तसूरि के बासक्षेप से हुआ विक्रन सम्बत् वारेसै इग्यारे में आप देवलोक हुये। आंचल समुदाय वारेसै तेरह में प्राट हुई। हेमचंद्राचार्य उस समय पर्यंत प्रसिद्धता नहीं पाई थी इसलिये उन्हों की कोई अवज्ञा देवी ने नहीं करी, स्वर्ण पत्र देवी ने नहीं लिखा था।

३. सुलतान नगर में आचार्य पद का प्रत्यनीक अंबड वरिक् साहंकार वाक्य जिनदत्तसूरिजी को कहा तब निमित्त द्वारा भावी फल गुरु देवने उस को कहा यथा गोसाले को वीर प्रभू ने कहा था है गोसाला तूं सातवें दिन अमुक रोग से मरण पावेगा पुनः निमित्त प्रभावीक भद्रवाहू स्वामी ने राजा के पुत्र की सातवें दिन विलाड़ी से मृत्यु कही। कालिकाचार्य जी ने दत्त प्रोहित के मुख में विष्टा गिरेगी पिछे सातवें दिन मृत्यु कही। यदि इस को श्राप माने उस की रुचि। गुरुदेव शुद्धचारित्र धर सम दृष्टी थे। किसी का भी विगाड़ नहीं करा है।

४. श्रीजिनदत्तसूरि विजलीगिरी को पात्र के नीचे दबाया और वरदान लेकर छोड़ दिया। जैन आगमानुसार विजली की अधिष्ठा इका देवी है उस से वरदान लिया था। सायन्स में विजली कुछ वक्तु नहीं यह भी प्रत्यक्षपनें असत्य है विद्युत्सार लोहा होता है जिस को मकानों पर विद्युत् भय से बचाने लगाते देखा है। हाथ कंगणको आरसी क्या। जिनदत्त दादा नाम लेने से उस स्थान कदापि विजली नहीं गिरनी है। यदि प्रश्नकर्ता जैन शास्त्रोक्त सर्व पदार्थों कों

सायास द्वारा सिद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो तो सूचित करे तो वे चार्तायें प्रगट कर देंगे। जैन धर्म को तो जैन शास्त्रोंमत पदार्थ सत्य मानने से ही सहर्षन है, अन्यथा मिथ्यात्व है।-

५ भरु अच्छ नगर में मुसलमान नवाब के पुत्र को परकाय प्रवेश विद्या से ६ मास पर्यंत जीवित तुल्य कर दिया था, निज जीव छाग नहीं जीया था। आत्मारामजी तपगद्ध के साधू ने पाल्टणपुर प्रश्नोत्तर में लिखा है। सिद्धसेन दिवाकर ने उज्जयण के बन् खमगत, विद्या पुस्तक निकाल दो विद्या सीरी फेर देवता ने हाथ स्तम्भित कर कहा बस बद करो तुमारे भाग्य में ये दो ही विद्या थी अन्य ये सर्व विद्या जिनदर्शसूरि जी को प्राप्त होगी। वह विद्या पुस्तक दादा साहब को प्राप्त हुई थी। वह सर्व सफल हो गई थी। पुन अत्यंत आत्मबल से ५२ वीर चौमठ योगनी पचपीर जिनों की सेना करते थे। परकाय प्रवेश विद्या को अन्य दर्शनी भी प्रमाण करते हैं। मेसमेरिजम विद्या योग सिद्धि द्वारा इष्टिपास, हस्तपासकर, पर को मूर्च्छित कर उस को अनेक वार्तायें पूछते हैं मूर्च्छित जो कहता है वह सर्व सत्य होता है उच्च मेसमेरिजम कर्ता व्यतरो का अहान मूर्च्छित में कर देता है ये विद्या इस समय प्रत्यक्ष है। आत्मारामजी जैनतत्वादर्श में अमेरिका की विद्या मेरे को बुलाकर इस समय बात करा देते हैं ऐसा लिखते हैं, उच्चराध्ययन सूत्र की वृत्ति में लेहर है एक साधु मर कर देव हुआ लघु शिष्य की पालना को स्वसृतक शरीर में प्रवेश कर उस को गुस्तर शिना और देवमाया से आहार देता रहा, यह मरा कैसे जीता हुआ इसलिये दाना साहून सृतक को परमप्रवेश विद्या छाग छुद्य अधिष्ठि पर्यंत जीवित दिग्गाया। इस में यहा क्यों करते हैं। देव शनित में अनेक सिद्धि हो सकती है। सृतक तुल्य शगामादि चेष्टा रहित सन्यास रोगियों को वैद्य पुन सचेता कर देने हैं। जिन दादा गुरु ने नाहर रान पडिहार के शतान था उष्ट

मिटाया जिन की १२ साख खरतर श्रावक द्वस समय विद्यमान है। कूकड़, चोपड़ा, कंकरिया आदि मुलतान का राज्यमंत्री हाथीसाह मूँबड़ा महेश्वरी का पुत्र सांप खाया पृथ्वी में गाडे को निकलवा सजीवित करा जिस का लूणिया गोन्न खरतर श्रावक विद्यमान है। इस प्रकार एक लक्ष तर्सि सहस्र घर राजन्य वैश्य ब्राह्मणादि उच्चम कुलधारियों का, आत्मवल द्वारा आपदा दूरकर मिथ्यात्व लुडाय खरतर गच्छ में श्रावक करे। प्रत्यक्ष है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गणधरों की मूर्ति भक्तजन हमेशा से भरते चले आये है। प्रश्नकर्ता, देवाद्विन्द्रमा श्रमण की मूर्ति हेमचन्द्राचार्य की मूर्ति एक स्थान लिखता है। यदि मूर्ति है तब तो श्रावक अवश्य उस की द्रव्य भाव द्वारा पूजा करते ही होंगे तो आचार्य पद की पूजा करणी, स्थापना करणी, स्वतः सिद्ध हो गई। दादा गुरुदेव तो भावी जिन हैं और मिथ्यात्व लुडाने वाले होगये, वह तो विशेषतया संघ के पूजनीय हो, इस में आश्चर्य ही क्या, वैद स्तवन पूजा में विशेष परचा विद्यमान समय का श्रीजिनदत्तसूरीश्वर का ही लिखा है जिनदत्तसूरि: के पटोधर मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि: हुये। पृथ्वीराज चौहान अंत मंडलेश्वर इनों का परम भक्त था फेर यवन गजनी से आया सहावुद्दीन इस का मुख्य मंत्री कुतबुद्दीन ऐवक जिस को मोहन्मद गोरी गजनी से दिल्ली तखत का वादशाह पद दिया ये तीनों जिनचन्द्रसूरी के भक्त हुये। राजन्य वंशियों को प्रतिवोध कर्द श्रावक किये, इनों के चौथे पट्ठ दादा श्रीजिन-कुशलसूरि: हुये। जिन्होंने आत्मवल द्वारा अनेक आपदायें मेटकर पचास सहस्र राजन्य वंशियों को प्रतिवोध दे खरतर गच्छ के श्रावक किये। विद्यमान समय गूजरमल्ल वोहित्थरा की छवती हुई जिहाज को तारी। अम्भावस को देवलोक हुये पून्तम को प्रत्यक्ष हो संघ को प्रगट दर्शन दिया। एकमनव्याता भक्त जनों के संकट में सहायकारी, वंछितपूरक हाज़र हजूर देव है। वीकानगनाथ राजा सुजाणसिंहजी को अरिमय मिटाने प्रगट दर्शन दिया। संगासाह प्रमुख अनेक भक्त जीवों को

प्रगट दर्शन दिया, और तेहे हुजाणमिह नगदती ने गुरु परचे से आभारी हो नाल गाप मे शाला ऊराई वट् विद्यमान है बादा माट्ठ के लूप के नमाप ।

६ इन्हों के पाटानुगट जिनमणिकरमूरि के पट्ट प्रभान्न भग अह के उत्तरने से धर्म के उदय कर्ता व्रीजिनच डमूरि अस्त्र वाढशाह के समनालीन विक्रम सोले शताव्दी मे हुये जिनो के उपदेश द्वारा अस्त्र दया धर्म धारण करा । इन्होंने काजी की टोपी आकाशविष्ट के प्रश्नप्प को कह उत्तरवार्ड ३ वर्षी नतार्ड अम्मापस को चाद्र उदय करा प्रश्नकर्ता लिखता है हेमचाद्राचार्य ने चाउ उन्नय करा । चरित्र में लिखा है तो क्या हेमचार्य ने चाद्रोदय करने का ठेका लेलिया था कि भेरे सिवाय अन्य कोई चाद्रोदय करने की पिधा सिंद्ध होई नहीं सकेगा जिन में ऐमी ऋसमसी प्रश्नकर्ता के मन में उत्पन्न हुई जैसा हेगाचार्य का चरित्र उन्हों के सतानियों ने लिखा है वसे ही जिनच डमूरि का चरित्र उन्हों के पार्श्ववर्ती प्रशिष्य समय सुन्नराणि ने लिखा है । वह उस समय लाहोर में सग थे, अमाढ़ मुदि नवमी मे पूर्णमासी पर्यंत भारत में कोई जीव मारा नहीं जावे ऐसा फरमान वाहसाह अकुरर ने जिनच डमूरि को लिख दिया । समायत मे मछली न मारी जावे । सिंहसूरि को आचार्य पद अपने मासुस गुरु से दिलाया । इस दया के फरमान का जिकर मेजर जनरल भगजान मालकम की लिखी मेमायर आफ सेन्ट्रल इटिया पुस्तक दो जिल्ल में है उम की दृमरी जिल्ल में है । उज्जयण के जेन मन्त्र में फरमान का शिल्पा लेग विद्यमान है ।

७ प्रश्नकर्ता लिखता है द्वनिहामों में नहीं भी आदा माहूर के परचों का लेग रेखने मे नहीं आया । अन्य दर्शनी जेन धर्मियों का द्वनिहाम क्यों लिखने थे, इतिहामों ग नो तीर्थसंग रे ३४ अनिश्चय

= प्रतिहार्य ३५. गुणवाणी के भी लेख अन्य दर्शनियों ने कहीं भी नहीं निका है तो क्या जैन शास्त्र का लेख अमंतव्य हो सकता है, कदापि नहीं।

जैसे अकबर ने पूछा हीरविजयसूरिः को, चेगहो जिस ३ अक्षर से हीर सौभाग्यकाव्य तपगच्छियों ने रच लिया है। यदि वह सत्य है तो खरतरगच्छियों ने जो जो अपने पूर्वाचार्यों का सत्य इतिहास गुर्वावली आदि ग्रन्थों में लिखा है वह असत्य कैसे हो सकता है। प्रमाणिक आत्मार्थी कदापि असत्य नहीं लिखते।

=. प्रश्नकर्ता अंग्रेज सरकार के राज्य होने से महादुःखी हो एक प्रश्न लिखा है। दादा साहब ने पासे एक अंग्रेज आव्यो इत्यादि, चार दादा साहब के विद्यमान समय कोई भी अंग्रेज आव्या ऐसा लेख कही भी नहीं लिखा है। प्रमाणिक उपाध्याय के मुख की सुणी वार्ता पूजा में लिखी गई है। विक्रम उगणीमशय चौडे के संवत्सर में कालों की शेन्या ने अत्याचार प्रारंभ करा। लखनेऊ नगर में तब लखनेऊ का चौक सरकार ने तोड़ा डाला। देव स्थान तोड़ने का हुक्म हुवा तब झवरी आदि साह लोकों ने दरखास्त की। सरकार, दादा साहब आदि के देवस्थान नहीं तोड़े जावें अंग्रेज दादा साहब के वर्गीचे में गया और चरण स्थापना सन्मुख चित्त में विचारा हे देव ये उपद्रव वंध हो हमारा अधिकार हो यदि तूं सच्चा है तों बता दे। उस समय स्तूप में से देव वाणी हुई वंध होकर सर्व आपत्ति, तुमारा शांतिमय राज्याधिकार होगा वैसे ही हुआ। जिस अंग्रेज सरकार के राज्य होने से सर्व शांति हुई लड़ाई युद्धादि राजाओं के परस्पर वंध होगये एक राजा एक के पास जाने लगे प्रेमानुभाव प्रगटा डेकेत लुटेरे धातकों का प्रचार वंध हुआ विद्या वृद्धि हुई व्यापार वृद्धि से धन की वृद्धि रेत तार अग्नि बोट, पोष्ट इत्यादि अनेक साधन प्रजा के सुखार्थ प्रगट हुये सड़कें जल की तंगी सर्वत्र मिटादी

कोई भी किसी के धर्म में अत्याचार नहीं कर सकता देव स्थान तोड़ नहीं सकता इत्यादि ।

हिंसा तो हिन्दू राज्य में भी सर्वत्र वध नहीं थी वैतिक यज्ञ में पशु हिंसा होती थी श्रेणिक गीर प्रभू का परम भवत मास भक्ति मध्य पारी या कालिक सूरिये चडाल की पाचसे दुर्गान राजगृही में लिखी है, पाचसे ऐसे नित्य मार बेचता था लिखा है । ज्ञाता सूत्र में द्रौपदी के स्वयंबर में मास मदिरा भगाई कई राजा भक्त थे तभी तो लिखा है नेमतीर्थकर के व्याह समय अनेक जीव मगाये थे यादव भक्त थे केद्यक, तभी तो मगाया होगा गऊ आदि पशुगण को मारने में आर्य प्रजा वृत दूध दही की मट्ठाई के सबन दीन हीन हो रही है, ये दु स मिटाना न्यायवत सरकार के आधीन है, खून करना सर्व शास्त्रों में मना है ।

हम तो अत करण से आशीर्वान् देते हैं जैसा न्याय द्वारा शाति भय राज्य अंग्रेज मरकार ने प्रथम से प्रवर्त्तया वह सर्वदा राज्य शासन अखडित रहे ।

ये सद्गुरु पूजा करने कराने वालों को सर्वदा कल्याणकारी होय ।

हस्ताक्षर उपाध्याय श्री रामचन्द्रद्विसार गणिः ।



सूचीपत्र ।

रहममुच्चय—इसमें जिन धर्मों सरतरगच्छ तपगच्छ का सर्व
धर्म कर्तव्य अनेक रह्मों का सागर है

६)

जैन शास्त्रानुसार वैद्यकीपक—ये वैद्यक का अद्भुत ग्रन्थ शृणि
अनादि (१) शारीर आळति का निरूपण (२) वायु
जल अन्न फल दूध दहि घृतादिके गुणानुवाद (३)
रोग होने के निकट कारण, दूर कारण सर्व विवेचन
(४) ओषधियों के गुणयोग, निघट विवेचन, अग्रेजी
ओषधि, यूनानी ओषधि, होमियोपेथिक, जल से रग
रोसनी से रोग निवृत्ति करण क्रमोपर्थी आदि प्रिशेष
विवेचन (५) रोगों की परीक्षा देशी प्रतिकार, अग्रेजी
प्रतिकार, यूनानी होमियोपेथिक प्रतिकार, पथ्य कुपथ्य
विवेचन, स्त्रीरोग बालरोग पशुरोग सब परीक्षा
प्रतिकार, जगम स्थानर विष प्रतिकार सबलता प्राप्ति
प्रतीकार इत्यादि (६) प्रकाश में अनेकानेक अनुभवी
लेख हैं स्वात्मरक्षा पररक्षा से परोपगार, यदि द्रव्यार्थी
ऐने इन ग्रथका अपलोकन धारन करे तो विजयी
वैद्य चन यश पावे

५)

महाजन मुक्तापली—इसमें अश्वपाते राजन्यवशी पुन वेश्य
वर्णोत्पत्ति, क्षत्री, व्राह्मण, शद्रादि उत्पत्ति आदि अनेक
विवेचन करा है, पुनरावृत्ति में कई वार्ताएँ उपयोगी
लिखी गई हैं

२)

सिद्ध मूर्ति (भाग प्रथम)

॥)

“ , , (भाग दूसरा)—इस में ३२ सूत्र याठ ने मूर्ति
पूज मिठ दशाएँ हैं

॥)

धन कमाणे का ग्रन्थ द्विवहर	१॥)
खरतरगच्छ की ३२ गायन पूजा	२॥)
१६ चारणक्षु—पास्ता डाल देखणे की शकुनावती मन चिंतित वात का जवाब देनी है, जैन स्वरोदय, भाषा			III)
शकुन शाह जिन दत्तसूरिराचित—हुपन्गे, चौपन्गो के युभ अशुभ फल, छाँक का, अंग फरकनका, गिलरी शिरने का, सब वस्तु की तेजी मन्दी देखने का, मकान के नीच में से निकलती वस्तु का, राजिये का १४ दोहा	III)
गुण विलाश—(२२ दोहों का बनाया भया) इसमें अनेक चीजों का संग्रह, वैराश के पद	१)
पांच प्रतिक्रमण—तथा १६ स्तोत्र, भाषाटच्चार्थ	२॥)
पंच प्रतिक्रमण—विधि युक्त मूल	१॥)
कर्पूर चक्र—स्वम, सामुद्रक, दुनिया की सैर, दर महीने सब वस्तु की तेजी मन्दी निकालने का, अजमाया			।—
दादाजी के स्तबन—१४४ अष्टक छन्दादि छपता है	१॥)
सब पुस्तकों मिलने का पता—			
उपाध्याय श्री रामलालजी गणिः—मोहल्ला रांघडी, विद्याशाला, वीकानेर, (राजपुताना).			
पाटियादार गुरु—श्री चितामणिजी का मंदिर, विचला भोई वाडा, मुंबई.			
संघजी हीरजी—कुकरेतर, पावधोनी, शुंवई.			

अथ पूजा सामग्री ।

१) रूपया नारेल थापना का, केशर, पुष्प या लौंग, धूप, घृत, चावल, भिटाई, फल, अग लूहना २, वरक, अतर, धजा, १) रूपया नारेल जान पूजा - श्रीजी के भेट, शक्ति होय तो नगदी दर पूजा प्रति थापना धेर, जो आना वा अधिक यथा शक्ति आरती में डाले, बजत्री का सरच देवे, शक्ति होय तो गुरु प्रसादि करे, सीरणी बाटे, गुरु के सतानियों को भोजन दे ।

अथ हाजरा हजूर मत्र ।

ओं ह्या श्री द्वीं श्री जिन कुशल सूरि राजा एहि एहि व
रंदेहि देहि सुग्रशम्भवतु घरदो मेस्वाहाः ।

अथ मिधि-पूनम सोमवार कृ, पवित्र हो, पीतवस्त्र, पीत माला, पीत आशन, दक्षण दिशा की तरफ मुख करके मनवच काया झुम्हिर करके सवा लक्ष जाप जपे, नष्ठचर्य पाले, समारी कथा करे नहीं, एक वरब्त क्षीर का भोजन करे एमे ३ दिन धूप दीप अखड से प्रथम मिद्द करे, मन में विसी कामना की इच्छा रखे नहीं, जघाय जप साढी बारे हजार करे, केर हमेम १ नमकार मात्र की माला, और १ माला इस मात्र की जपता रहे भाग्य प्रवल हो तो प्रत्यक्ष दर्शन दे अथवा स्वप्न में, अगर दर्शन नहीं दे तो मनकामना निश्चय पूर्ण करे । आप भवनपती अमुर निकाय में महाधिक नेत्र भये हैं भक्तों के आधीन हैं, वहे दादा माहिव री भक्ति कारक के विद्वित भी आप ही पूरते हैं, वहे दादा साहिव वैमानिक देव हुये हैं इस वास्ते उन्हें का आना हीनसत्य भक्तों के लिये वेर २ तही होता, पूरा जप तप गङ्गनर्य सत्यपवता एकाग्र ज्ञान भे ही पधार सर्ते हैं, एकाग्र चित ही वशीकरण है ।

मंगल दीपक ।

मंगल दीपक गुरु का कीजे मन वंछित फल कारज सीझे ॥
। म० । (टेर) मंगल दीप मंगल अडभासे, घर २ मंगल
भत्त प्रकाशे ॥ म० ॥ २ ॥ करे करावे मंगल माला, अन
धन लच्छी लहे शुविशाला ॥ म० ॥ ३ ॥ आत्मिय विज्ञ हर
मंगल दीवो, शृद्धि सार भविजन चिर जीवो ॥ म० ॥ ४ ॥

इति मंगल दीपक ॥

अथ दादा गुरु महाराज की पूजा प्रारंभ ।

(पढ़ले स्थापना करके आद्वान का शोक पढ़े)

काव्य - सम्लग्णगरिष्ठान्सरपोभिर्वारिष्ठान् ॥ शमदमयमयुष्टाचारुचा
मित्रनिष्ठान् ॥ निसिल जगत पीठे दर्शितात्मप्रभाजान् ॥ मुनिपुश्चल
तूरिन्मापयाम्यत्रपीठे ॥ १ ॥ ॐ ह्ये श्री श्री जिनदत्त श्री मणिधर
निनचन्द्र श्री जिन कुशल श्री जिनचन्द्र सूरि गुरुश्रीवा बतरा बतरा
स्वाहा ॥ ॐ ह्ये श्री श्री जिनदत्त श्री मणिधर श्री निनचन्द्र श्री जिन
कुशल श्री जिनचन्द्र सूरि अग्रतिष्ठ ठ ठ ठ स्वाहा ॥ इति प्रतिष्ठापन
॥ २ ॥ ॐ ह्ये श्री श्री जिनदत्त श्री मणिधर जिनचन्द्र श्री जिन कुशल
श्री जिनचन्द्र सूरि गुरु अग्रमम सनिहितो भवषपट् (इति सनिधि
करण) ॥ ३ ॥

(स्नात्रि या शुचि हो के जल का कलश ले खड़ा रहे)

* दोहा *

ईश्वर जग चित्तामगि, कर परमेष्ठि ध्यान ।
गणधर पदगुण वर्णना, पूजा परो सुजान ॥ १ ॥
संपर्म्मा मुनिपत्र प्रगट, वीर चिनेश्वर पाट ।
मिथ्या गत तम हरन वृ, गत्य दिलान वाट ॥ २ ॥
मुम्भिन मु प्रतिवढ गुरु, दूरि गर को जार ।
फोटिक्षियो उन भ्याघर, फोटिर गच्छ सुदान ॥ ३ ॥

तन दूरी छुन लेवली, भये बज्र धर रवाम ।
 ता दिन तें गुरुगच्छ को, बज्र शाख भयो नाम ॥ ४ ॥
 चन्द्र सूरि भये चन्द्र सम, अत हि बुद्धि निधान ।
 चन्द्र कुली सब जगत में, पत्तरदो वहु विज्ञान ॥ ५ ॥
 वर्षमान के पाट पद, सूरि जिनधर भास ।
 चत्य वासि कुं जीत कर, सुविहित पक्ष प्रकाश ॥ ६ ॥
 अणहितपुर पाटण सभा, लोक मिले तिहाँ लक्ष ।
 खरतर विरुद्ध सुवा निधि, दुर्लभ राज समक्ष ॥ ७ ॥
 अभय देव सूरि भये, नव अंगटी का कार ।
 थंभन पारस प्रगट कर, कुष्ठ मिटावन हार ॥ ८ ॥
 श्री जिन वल्लभ सूरि गुरु, रचना शाख अनेक ।
 प्रति बोधे श्रावक बहुत, ताके पट्ठ विशेष ॥ ९ ॥
 हुवड़ श्रावक वाघडी, अड्डोरे हज्जार ।
 जैन दया धर्मी किये, वरते जये २ कार ॥ १० ॥
 दादा नाभ विस्त्यात जस, सुर नर सेवक जास ।
 दत्त सूरि गुरु पूजतां, आनन्द हर्ष उल्लास ॥ ११ ॥
 दिल्ली में पतसाह ने, हुकम उठाया सीस ।
 माणिधारी जिनचंद गुरु, पूजो विसवा बीस ॥ १२ ॥
 ताके पट्ठ परंपरा, श्री जिन कुशल सूरिद ।
 अकवर कूं परचा दिया, दादा श्री जिनचन्द ॥ १३ ॥
 ऐसे दादा चार कूं, पूजो चित्त लगाय ।
 जल चंदन कुमुमादिकर, ध्वज सौगंध चढाय ॥ १४ ॥

(चाल-दादा चिरजीवो)

गुरुगज तणी कर पूजन भवि सुखकर मिलसी लच्छ घणी (टेर) गुरु न्त्त सूरिंद जग उपगारी, गुरु सेवक ने सानिध कारी । गुरु चरण कमलनी बलिहारी ॥ गु० ॥ १ ॥ शबत हरयारे वारशुरीं, वर्हामे जनम्या शुभ टिवसी । आवक कुल हुबड ने हुलसी ॥ गु० ॥ २ ॥ जसु वाद्यगसापितु नाम भणे, बाहृद दे माता हर्ष घणे । इकतालीमे दीक्षाप भणे ॥ गु० ॥ ३ ॥ गुण हत्ते वधुभ पाटधरी, गुरु माया बीजनो जाप करी । गुरु जग में प्रगत्या तरण तरी ॥ गु० ॥ ४ ॥ मणिपारी जिनचन्द उपगारी, जिन ढत्त सूरिंद के पटधारी । भये दादा दृजा सुम्बकारी ॥ गु० ॥ ५ ॥ राशन पितु देल्हण दे माता, श्रीमाल गोत्र बोधन शाता । दिष्टी पत साट सु गुणगाता ॥ गु० ॥ ६ ॥ जहु चोये पाट उद्योत करी, जिन कुरल सुरिंद अति हर्ष भरी । तेरेमैनी से जनम घरी ॥ गु० ॥ ७ ॥ जसु जिज्ञा जनकु जगत्र जीयो, वर जैत मिरी शुभ व्यप्र लियो । गुरु थाजेड गोत्र उद्धार कियो ॥ गु० ॥ ८ ॥ धन सेंतालीमे दीक्ष घरी, जिनचन्द रागिक्षर पाट वरी । गुण हत्ते सूरि मात्र जापकरी ॥ गु० ॥ ९ ॥ सेवा में चापन वीर रसरा, जोगणिया चौसठ हुक्म धरा । गुरु जग में कई उपगार कग ॥ गु० ॥ १० ॥ माणक सूरीभर पद थाजे, जिन चड़ सूरि जग में गाजे । भये दाना चौथा सुम्बकाने ॥ गु० ॥ ११ ॥ जिन चाद उगायो उजियालो, अम्मानय की पूनमवालो । सब श्रावक मिल पूजन चालो ॥ गु० ॥ १२ ॥ जिन अस्वर कू परचा तीना, शारी थी टोपी घम तीना । वर्हरी का भेद कहा तीना ॥ गु० ॥ १३ ॥ गधोन्क गुगमिन्नशु भरी प्रनताता मद गुर चमण परी । या पूजा करि आई गागरी ॥ गु० ॥ १४ ॥ इनि दृग्म पूजा ॥

इत्तोक ।

सुरनदीजलनिर्मिलधारयः ॥ प्रवलदुष्कृतदाघनिवारयः ॥
 सकलमंगलवंच्छितदायकं ॥ कुशलद्विगुरोद्धरणौयजे ॥ १ ॥
 उँ हीं श्रीं परमपुरुषाय ॥ परमगुरुदेवाय ॥ भगवतेर्थीजिनशा
 सनोदीपकाय ॥ श्रीजिनदत्तमूरीश्वराय ॥ मणिमंडतभालस्यल
 श्रीजिनचन्द्रमूरीश्वराय ॥ श्रीजिनकुशलमूरीश्वराय ॥ अकवरअसुर
 ब्राणप्रतिवोधकाय ॥ श्रीजिनचन्द्रमूरीश्वराय ॥ जलनिर्विषामिते
 स्वाहाः ॥ इति प्रथम पूजा ॥

अथ केशर चन्दन पूजा ।

* दोहा *

केशर चन्दन मृगमदा, कर घनसार मिलाप ।
 परचा जिनदत्त सूरिका, पूज्यां तूटे पाप ॥ १ ॥

(चाल वीणवाजे की)

दीन के दयाल राज सार २ तूं (टेर)

आये भरु अच्छ नग्र, धाम धूम धूं, वाजते निशाणठोर, हर्ष
 रंग हूं ॥ दी० ॥ १ ॥ मुसलमान सुगलपूत, फौज मौजमूं । फौत
 मैत हो गया, हाय कार सूं ॥ दी० ॥ २ ॥ सम्भ विस्त्र देख आप,
 हुक्म दीन यूं । लाओ मेरे पांस आस, जीव दान दूं ॥ ३ ॥ दी० ॥
 मृतक पूत मंत्र सें, उठाय दीन तूं । देख के अचंभ रंग, दास
 खास कू ॥ ४ ॥ दी० ॥ करते सेव भाव पूर, तुरक राज जूं । छोड
 के अभज्ज साण, हाजरी भर्हं ॥ दी० ॥ ५ ॥ वीज खीज केपडी,

प्रति क्रमण के मू । हाथ से उठाय पात्र, ढाक दीन छू ॥ दी० ॥ ६ ॥
 दामनी अमोल वोल, निष्ठ राज तू । देउ वरदान छोड, रंध कीन
 त्य ॥ दी० ॥ ७ ॥ दृच नाम जपत जाप, करत नाहिं चृ । फेर
 में पड़गी नाहीं, छोड दीन फू ॥ दी० ॥ ८ ॥ करोगे निहाल आप,
 पान पलक नू । राम छृछि सारदास, चरण छाह लू ॥ दी० ॥ ९ ॥
 ॥ इति ॥

श्लोक ।

मलयचन्दनकेमरगारिणा ॥ निसिलजाडयरुजातपहारिणा
 शफल ॥ १ ॥ अँ हीं श्री श्रीजिनदत्तकेगरचन्दननिर्पिंपामिते
 स्तादा ॥ २ ॥

* दोहा *

चपा चपेली मालती, मरया अरु मुचुद ।
 जो चाढे गुरु चरण पर, नित घर दोय आनद ॥ १ ॥

॥ राग माड ॥

(चाल-नींद तो गई रे गारीला न्हारी)

गुरु परतिख सुर तरु रूप सुगुरु समदूजो सो, नहीं दूजो तो
 नहीं, म्हारा चेतन दूजो तो नहीं । गुरु परतिख सुर तरु रूप, सुगुरु
 ने पूजो तो सही । (टेर)

चितोड नगरी बज्र खम मे, विद्या पोधी रही । मन जब निखा
 मे रूगी, गुरु निज हाथ गही । गु० निज० ॥ गु० प० ॥ १ ॥ पुर
 उज्जेणी महाराज के, मनिर थर कही । सिद्ध शेन निन कर दी
 पोधी, विद्या सरय नहीं । विद्या० ॥ गु० प० ॥ २ ॥ उज्जेणी

व्याख्यान वीच में, श्रावि का रूप ग्रही । जोगणियां छल ने कूँ आईं
सब कूँ स्वीलदई ॥ सब० ॥ गु० प० ॥ ३ ॥ दीन होय जोगणियां
चोसठ, गुरु की दास भई । सात दिया बरडान हरम्ब से, पमरव्य
मुजस मही ॥ पस० ॥ गु० प० ॥ ४ ॥ पुण्प माल गुरु गुण की गृथी,
चाढो चित्त चही । कहे राम ब्रद्धिसार मुजस की, वृंटी आप दई
॥ वृंटो० ॥ गु० प० ॥ ५ ॥ इति ॥

श्लोक ।

कमलचम्पकक्षेतकीपुष्पकै ॥ परिमलाहृतपद्मपद्मदृद्धकै ॥
सकल० ॥ अँ हीं श्रीं श्रीजिनदत्त० ॥ पुष्पनिर्विपामितेस्वाहाः
॥ ३ ॥

* दोहा *

धूप पूज कर सुगुरु की, पसरे परि मल पूर ।
जस मुरंध जग में चढे, चढे सवाया नूर ॥ १ ॥

॥ राग सोरठ ॥

(चाल-कुवजाने जादू डारा)

अंवका विरुद वखाने, गुरु तेरो अं० । तुम युग प्रधान नहीं
छाने, गुरु तेरो अं० (टेर)

गढ गिरनार पैं अंवड श्रावक, ऐसो नियम चित ठाने । युग
प्रधान इस जुग में कोई, देखूं जन्म प्रमाने ॥ गु० तेरो० ॥ १ ॥
कर उपवास तीन दिन बीते, प्रगटी अंवाज्ञा ने । प्रगट होयकर में लिख
दीना, सुवरन अन्नर दाने ॥ गु० ते० ॥ २ ॥ या गुण संयुत
अन्नर वांचे, ताकूं युग वरजाने । अंवड मुलक २ में फिरता, सूरि
खकल पतवाने ॥ गु० ते० ॥ ३ ॥ आया पास तुमारे सदगुरु, कर

पमार दिखलाने । वास क्षेप उन ऊपर ढाला, चेला वाच सुणाने ॥
 ॥ गु० ते० ॥ ४ ॥ मर्य देव है दास जिनों के, मरु धर कल्प प्रमाने ।
 जुग प्रधान जिनदत्त संगीधर, अवड शोस भुकाने ॥ गु० ते० ॥ ५ ॥
 उद्योतन सुरिरो निज हृथ, चौगमी गच्छ ठाने, वह सब तुमरी सेवा
 सारे, चौरामी गच्छ माने ॥ गु० ते० ॥ ६ ॥ जो मिव्यात्मी तुम क़ न
 पूजे, वह तहीं तत्त्व पिदाने । भड वाहु स्वामी तुम धीर्तन, कीनी
 यव प्रमाने ॥ गु० ते० ॥ ७ ॥ युग प्रधान प्रकीर्ण गदिङ्गा, गण
 धर पट दृष्टिम्याने । कहे राम अहाद्वि सारगुरु झू, पूजा धूप कराने ॥ ८ ॥
 ॥ गु० ते० ॥

द्वोक ।

अगरचडन गृष्टशामजै ॥ प्रशरिताखिलादि लुसु बुम्बकै ॥
 शकल० ॥ उँ हाँ श्री परमपुरुषपाय० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ धृपनिर्दि
 पामिते स्वाहा० ॥ ४ ॥

* दोहा *

दीप पूजकर सुगुण नर, नित २ मगल होत ।
 उजियालो जग में जुगत, रहे असटित जोत ॥ १ ॥

॥ राग कालिंगडा ॥

(चालू रथाल की)

पूजन कीजो जी नग नारी, गुरु महागज का । (टेर)

सिंहु देश में पच नदी पर, साथे पाचू पीर । लोई ऊपर पुरप
 तिगने, ऐसे गुह सारीं ॥ पूज० ॥ १ ॥ प्रगट होय के पाच पीर
 ने, सात दिना चगदान । सिंहु देश मे रसरतर श्रावक, होवंगा धा
 यान ॥ पूज० ॥ २ ॥ सिंहु देश मुलतान नगर में, बडा महोच्चदन
 देग । अनड और गच्छ भा श्रावक, गुरु से कीना द्वेष ॥ पूज० ॥

॥ ३ ॥ अणहिलपुर पत्तन में आओ, तो मैं जाएँ सच्चा । बड़े महोच्छव आवेंगे, तूं निर्धन होगा कच्चा ॥ ४ ॥ पूज० ॥ पत्तन वीच पवारे दादा, सन्मुख निर्धन आया । गुरु बतलाया क्यूरे अंबड, अहंकार फल पाया ॥ ५ ॥ पूज० ॥ मनमें कपट किया अंबड ने, खरतग महिमाधारी । जहर दिया उन अशुन पान में, गुरु विधजाणी सारी ॥ पूज० ॥ ६ ॥ भणसाली मुखवर श्रावक से, निर्धिप सुद्री मंगाई । जहर उतारा तब लोकों में, अबड निंदा पाई ॥ पूज० ॥ ७ ॥ मरके व्यंतर हुआवो अंबड, रजो हरण हर लीना । भणशाली व्यंतर बचनों से, गोत्र उतारा कीना ॥ पूज० ॥ ८ ॥ सज्ज होय गुरु ओधालेके गोत्र बचाया सारा । ऋद्धिसार महिमा सदगुरु की, दीपक का उजियारा ॥ पूज० ॥ ९ ॥ इति ॥

श्लोक ।

अतिसुदीप्तमयेखलुदीपकैः ॥ विमलकंचनभाजनसंस्थितै ॥
शकल० उँ हीं श्रीपरम ॥ श्रीजिनदत्त० ॥ दीपानिर्विषपामिते स्वाहा: ॥ ५ ॥

* दोहा *

अक्षत पूजा गुरुतणी, करो महाशय रंग ।

कृती न होवे अंग में, जीते रण में जंग ॥ १ ॥

॥ राग आसाउरी ॥

(चाल-अबधूसो जोगी गुरु मेरा)

रतन अमोलख पायो, सुगुरु सम रतन० गुरु शंकट सब ही मिटायो, सुगु० (देर)

किन्तु पुर नगरी लोकन कूँ, हैजारोग सतायो । वहोत उपाय किया शुति का, जरा फरक नहीं आयो ॥ सुगु० ॥ १ ॥ जोगी

जगम ब्रह्म सन्यामी, देवीं देव मनायो । फरक नहीं मिनहीं ते रीना,
हाहा कार मनायो ॥ सुगु० ॥ २ ॥ रतन चिंतामणि मरिनो गारिन,
मिक्रमपुर मे आयो । जन सधरो वह दूर कर, जे जे जार वरतालो
॥ सुगु० ॥ ३ ॥ महिमा सुण माटेधा ब्रह्मन, रार ही सीम
उमायो । जीवित दान वरो महाराजा, गुर तर यृ फरमायो ॥ उगु० ॥
॥ ४ ॥ जो तुम सम हिन जन झ धारो, थम ही कम्ह दशायो ।
तहत नचन नर रोग मिटायो, आन द हर्ष वधायो ॥ सुगु० ॥ ५ ॥
जो योई शारक जन को न धारयो, पुरी पुर चढायो । सातु पाचम
दीनत रीना, गाधविया मसुदायो ॥ सुगु० ॥ ६ ॥ मत जला गुरु
प्रतिज्ञ धरी ऐसो धर्म निपायो । अद्विदि सार पर किरणा रीरी,
साजो इलम घनलायो ॥ सुगु० ॥ ७ ॥

श्लोक ।

शरलतदुलरतिनिर्मलैँ ॥ प्रदग्मांचिरुजवदुर्दलैँ ॥
॥ शकल० ॥ उं ही श्री परम० ॥ गीतिनदत्त० ॥ अज्ञत
निरिगारीते स्वाडा ॥ ६ ॥

* दोहा *

प्रथ पूना शातमी, धगे भरिन चित नार ।
गुगुगुगुगुगित तुगुगिते, गुर मनतागण नाव ॥ ? ॥

॥ राग कलनारण ॥

(चाल-तेरी पूनामणी है गम में)

हो गुर निया प्रयुक्त धम में । (टेर)

दट लगी में आप पधारे गाने लालगमगमें । प्रज्ञान जौर
पड़े लालानों, निम्र भाषा सु नो ॥ हो गु० ॥ १ ॥ निमा

देख सके नहीं गुरु की, भेरे मिथ्यात्वी गुस में । मृतक गड़ जिन संदिग्ध आगे, रख दी सन्मुख चस में ॥ हो गु० ॥ २ ॥ आवक देवत भये आकुलता, कहे गुरु से कस में । चिंता दूर करी है संघ की, गड़ उठ चली डस में ॥ हो गु० ॥ ३ ॥ मरी गड़ कूँ जीती कीनी, लोक गए सब हस में । जाके गाय पड़ी रुद्रालय, संप्र भया सब खुस में ॥ हो गु० ॥ ४ ॥ ब्राह्मन पांव पडे सब गुरु के, देवत तमासा इम में । हुवग उठावें शिर ऊर, तुम शंति की दिश में ॥ हो गु० ॥ ५ ॥ नमकार हैं चमत्कार कूँ, कीनी पूजा रस में । कहे राम अद्वितीय गुरु की, आनन्द मगल जस में ॥ हो गु० ॥ ६ ॥ इति ॥

इत्योक्त ।

वहुविधैथसभिर्वटकैयकै ॥ प्रचुरसर्पिष्यपिपक्षगुसज्जवै ॥ शकल ०
१ ॥ उ हीं श्रीं परम० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ नैवद्यनिर्विपामिते
स्वाहाः ॥ ७ ॥

* दोहा *

फल पूजा से फल मिले, प्रगटे नवे निधान ।

चिह्निदिशि कीरत विरते, पूजन करो सुजान ॥ १ ॥

॥ राग तुमरी ॥

(चाल-रथचढ यदुनन्दन आवत है)

चलो संघ सब पूजन कूँ, गुरु समर्थां सन्मुख आवत हैरे, चलो०
(देर)

आनन्द पुर पद्मन को राजा, गुरु शोभा सुण पावत हैरे । भेज्या
निज परधान बुलाने, नृप अरदास सुणावत हैरे ॥ चलो० ॥ १ ॥
लाभ जाए गुरु नगर पधारे, भूमत आय वधावत हैरे । राज कुमर को

कुष मिटायो, अबरज तुरत दिग्गावत हेरे ॥ चलो० ॥ २ ॥ दश हजार उट्ठ सग नृप कृ, श्रावक धर्म वरापत हेरे । प्रनापगढ़ को पमार राजा, पुर में गुरु पधरापत हेरे ॥ चलो० ॥ ३ ॥ दया मूल आज्ञा जिनवर री, गरे ब्रत उचरापत हेरे । चउहाण भाटी पमार ईदा, पुन राठोड़ सुहापत हेरे ॥ चलो० ॥ ४ ॥ भीसोद्या सोतसी नरनर महाजन पदवी पावत हेरे । ऐसे सात राज सम नित्यर, खरतर सध वणावत हेरे ॥ चलो० ॥ ५ ॥ कुष जलधर ज्ञवन भगवन, वेर्ड यक लोक जीवावत हेरे । ब्रावन ज्ञरी यस्माहेवर, ओ सवश पसरावत हेरे ॥ चलो० ॥ ६ ॥ तीम हजार एक लग्न श्रावक, सरतर सध रचावत हेरे । कहत राम ऋषियार गुरुर्वी, फल पूजा फल पापत हेरे ॥ चलो० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ श्लोक ॥

फनमोचमदाफलकर्कटः ॥ सुसुखदोक्षिलश्रीफलचिर्भट्टः ॥
शफल० ॥ उँ हीं श्रीं परम ॥ जिनदत्त ॥ फलनिरिपामिते
स्वाहा ॥ ८ ॥

* दोहा *

वन्न अतर गुर पूजना, चोवा चादन चम्पेल ।
दुरमन सन सज्जन हुवे, करे सुग्गा रेल ॥ १ ॥

॥ देशी ॥

(चाल-मनडोकि महीन वाजे)

लरमी लीला पावेरे सुन्दर, ल० जेगुर वन्न चढोवेरे मुन्नर,
ल० सुजस अतर महकोरे सुन्न ल० टुजन शीमन गावेरे,
सुदर ल० । (देर)

दरिया बीच जहाज श्रावक की. छवण स्वतंत्रे आवे, साचे मन
समरे सठ गुरु कूँ. दुख की टेर सुणावेरे ॥ सुदर ल० ॥ १ ॥
बचतां व्याख्यान सूरीधर. पंखीस्थे थावे. जाय समंद में जिहाज
तिराई, फिर पीछा जब आवेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ २ ॥ पूर्वे संव अचरज
में भरिया, गुरु सब बात सुणावे, ऐसे दादा दत्त कुशल गुरु. परचा
प्रगट दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ३ ॥ बोथर गृजरमल श्रावक
की, दादा कुशल तिरावे, सुख सूरि गुरु समय सुन्दर की,
जिहाज अलोप दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ४ ॥ वरे सैद्धान्येरे दत्त
सूरी. अजभेर अणसण ठावे ऊज्यासौ धर्मा देवलोके,
सीमंधर फरमावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ५ ॥ इक अवतारी कारज सारी,
मुक्ति नगर में जावे, कुशल सूरि देराउर नगरे सुवन पतीनुर
थावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ६ ॥ फागण वदि अमावश सीधा. पूनम
दरस दिखावे माणि धारी दिल्ली में पूज्यां, संकट मुपने नावेरे
॥ सुन्दर ल० ॥ ७ ॥ रथी उठी नहीं देखवा दसा, वांही चरण
पधरावे, वस्त्र अत्तर पूजा सद्गुरु की, ऋषाद्विसा रम नभावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥
॥ ८ ॥ इति ॥

श्लोक ।

अखिलहीरशुचिनवचीरकै ॥ प्रवरप्रावरणैखलुगंधतः ॥
॥ शकल० ॥ उँ हीं श्रीं परम० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ वत्त्वचोवाचंदनं
पुष्पसारंनिविषपामिते स्वाहाः ॥ ६ ॥

* दोहा *

ध्वज पूजा गुरु राज की, लहके पवन प्रचार ।
तीन लोक के शिखर पर, सो पहुंचै नरनार ॥ १ ॥

॥ राग ॥

(चाल जिन गुणगान श्रुति अनुवारे)

धज पूजन कर हरत्व भरोरे, ध० ॥ (देर)

सज शोले सिणगार सहेत्या, श्री सद गुरजी के द्वार मरोरे । ध० । अपद्वर रूप मुतन सुकलीनी ठम २ पग भणकार करोरे ॥ ध० ॥ १ ॥ गावत मगल देत प्रदक्षणा, धन २ मगल आज धरोरे । ध० । निर्धन कूँ लखमी बगसापत पूत्र विना जाके पुत्र करोरे ॥ ध० ॥ २ ॥ जो जो परतिस परचा देव्या, सुणो भविक दिल धीच वरोरे । ध० । फतेमल्ल भडगतिया आबरु, पहली शकाजोर करोरे ॥ ध० ॥ ३ ॥ परतिस देखू जब मैं जारू, प्रगट्या ततरिण तरण तरीरे । ध० । पुष्य माल शिर केरर दीका, अधर श्वेत पोसास करोरे ॥ ध० ॥ ४ ॥ माग २ चर बोले बाणी, फरक घतावो गुर मेघ करोरे । ध० । फरक उगायो दोय लाख पर, तेरी महिमा नित्त हरीरे ॥ ध० ॥ ५ ॥ म्यानचन्द गोलेबा कूँ तें, परतिस दीना ढरस करोरे । ध० । दीकानेर मैं धूम तुमारा, चित्र करावत सुर सुदरीरे ॥ ध० ॥ ६ ॥ थानमल लूरणा पर फिरपा, लसमी लीला सह जपरीरे । ध० । लद्दमीपति दूशङ्क की साहिव, हुड़ी की भुगताण करीरे । ध० ॥ ७ ॥ जो उपगार करा तै मेरा, दीनी सन्मुख अमृत जरीरे । ध० । तेरी कृपा से सिद्धि पाई, जागे बस अरु भागे मरीरे ॥ ध० ॥ ८ ॥ भूखा भोजन तिसिया पानी, भरत हाजरी देव परीरे । ध० । विषम चखत पर सहाय हमारे, अद्विसार की गरज सरीरे ॥ ध० ॥ ९ ॥

श्लोक ।

मृदु मधुर व्वनि यिषणी नादकैः ॥ धज गिचिप्रितवि-

स्तृतवासकैः ॥ शकल० ॥ उँ ह्रीं श्रीं परम० श्रीजिनदत्त०
शिखरोपरि ध्यजां आरोयवामि स्वाहाः ॥ १० ॥

— दोहा —

भद्रारक पदवी मिली, जोने बाढ़ी बृद्ध ।

कठ विग्रजित सरावती, जग में श्रीजिनचंद ॥ १ ॥

राग आसावरी तथा वन्दामिरि ॥

पूजन जग सुखकारी सुगुरु तेरी पू० तेरे चरण कन्तु वलिहारी
सुगुरु० (टेर)

साह सलेम डिल्ही को बाढ़शाह, सुरणी है शोभा तिहारी । भड़
हरायो चरचा करके, भद्रारक पदवारी ॥ सुगुरु० ॥ १ ॥ अन्मावरा की
पू०म कीनी, चंद उगायो भारी । चढ़के गगन करी है चरचा, सूरज से
तपधारी ॥ सु० ॥ २ ॥ उगरणीसे चौदे की साल में, लखनउ नगर
मझारी । गोरा फिरंगी टोपी बाला, बिल में ये बात विचारी ॥ सु०
॥ ३ ॥ जैन श्वेतावर देव जो सज्जा, पूर्ण मनसा हमारी । बाणी निकली
राज्य तुमारा, होवेगा अधिकारी ॥ सु० ॥ ४ ॥ अधे की खोली आँख
सूरत में, पूजे सब नरनारी । कहांलग गुण वरण मैं तेग, तू ईश्वर जय-
कारी ॥ सु० ॥ ५ ॥ उगरणीसे संवत्सर तेपन, मिगसर मास मझारी ।
शुक्रल दूज जिनचंदसूरीश्वर, खरतर गच्छ आचारी ॥ सु० ॥ ६ ॥
कुशलसूरि के निज शंतानी, क्षेम कीर्ति मनुहारी । प्रति बोध्या जिन
क्षत्री पांचसै, जान सहित अणगारी ॥ सु० ॥ ७ ॥ क्षेमधाड शाखा
जब प्रगटी, जग में आनन्दकारी । धर्म शील साधु गुण पूरे, कुशल
निधान उदारी ॥ सु० ॥ ८ ॥ या पूजा करतां सुख आनन्द, अन धन
लक्ष्मी सारी । कहत रामऋषि सार सुरु की, जय २ शब्द उचारी
॥ सु० ॥ ९ ॥ अर्ध दीजे ॥

इति श्री दादा सदगुरु पूजा सम्पूर्ण ॥

* आरती *

जय २ गुरुदेवा, आरती मगल मैवा, आनन्द सुग्र लेवा, जय २ गुरु देवा । (टेर)

एक न्रत तुय न्रत तीन चार ब्रत पचन्रत में सोहे । गुरु ४० ।
 भविक जीव निन्तारण, सुग्नर मन मोहे ॥ जय० ॥ १ ॥ दुख दोहग
 सम हरकर मद्गुरु, गजन प्रति गोधे । सुत लद्धमी वर देकर, श्रावक
 कुल मोधे ॥ जय० ॥ २ ॥ निदा पुस्तक धरकर सदगुरु, सुगल पूत
 नारे । वम कर जोगण चौसठ, पाच पीर सारे ॥ जय० ॥ ३ ॥ बीज
 पटती वारी सदगुरु, ममद जिहाज तारी । बीर किये नस बान, प्रगटे
 अवतारी ॥ जय० ॥ ४ ॥ जिनद्व जिनचद कुशल सूरि सुर, खरतर
 गच्छ राजा । चोरासी गच्छ पूजे, मन वधित ताजा ॥ जय ॥ ५ ॥
 मन शुद्ध आरती कष्ट निवारन, सदगुरु की कंजे । जो मागे सो पावे,
 जग में जस लीज ॥ जय० ॥ ६ ॥ विक्रमपुर में भक्त हुमारो, मन
 कलाधारी । नित उठ भ्यान लगावत, मन वधित फल पावत, रामऋद्धि
 सारी ॥ जय० ॥ ७ ॥ इति सदगुरु आरती सम्पूर्ण ॥

* आरती दूजी *

जग २ सदगुरु आरती कंजे श्रीजिन कुशलसूरि समर्जे जय०
 (टेर)

पहली आरती दादाजी नी कंजे, दुस दोहग सम दूर हरीजे
 ॥ जय० ॥ १ ॥ बीजी नीज पडती वारी भय वारण तूही सुम्बकारी
 ज० । तीजी परचा पूरण तेरी दूर हरो सम दूर मति मेरी ॥ ज० ॥ २ ॥
 चौथी सुगल पूतजी वदायक सुर नर हुकम धेरे ज्यू पायक ज० ।
 पाचमी पचनदी जिन साधी सघ शकलनो शक्ट वारी ॥ ज० ॥ ३ ॥

छट्ठी थांभो वज्र विदारी विद्या पोथी परगटकारी ज० । सातमी चोसठ
योगण साधी सूरि मंत्र कर सुर आराधी ॥ जय० ॥ ४ ॥ इण विध
सात आरती कीजे मन वंचित सुख संपति लीजे जय० । जैन लाभ
खरतर गणधारी सद्गुरु चरण कमल वलिहारी ॥ जै जै० ॥ ५ ॥
इतिपदं ॥



श्रीः

उपाध्याय प्राणाचार्य युवति वारिधिः श्री रामलालजी गणिः

के विद्यार्थी शिष्य

वैद्याचार्य पं० रामगोपाल शर्मा का आयुर्वेदीय औषधालय, वीकानेर
की शास्त्र सिद्ध व अनुभव सिद्ध औषधियों का

* संक्षिप्त मूल्यापत्र *

फी नोटा		फी नोटा	
रोय भरम	१०)	स्वर्ण पर्यटी	३०)
रोह „	४)	श्वास कुटार	२)
ताम्र „	११)	हिंगाटक	१=)
नाग „	५)	लवण भास्कर	॥)
जसद „	५)	लाई चूर्ण	॥)
स्वरपर „	५)	धातुवर्द्धक	=)
बग „	५)	मधुपक हैंड फी नग	२)
अब्रक „	१०)	दस्त बद की गोलीया	२)
महर „	४)	कुचिले की गोलीयां	१)
प्रवाल „ (मुगा भरम)	॥)	खांसी की गोलीया	१)
शाख „	॥)	अब्रक वटी	११)
सीप „	॥)	कुचा वर्द्धक वटी	॥)
कपर्द „	१)	ब्राह्मी की गोलीयां	१)
स्वर्णमाचिक	२)	मोहरे की गोलीयां	१)
पिपल चौसठ पौहरी	२०)	अमृत संजीवनी गुटिका	१)
गिलोय सत्त्व असली	॥)	अमर सुन्दरी गुटिका	१)
हेम गर्भ पोटली रस	६०)	चंडग्रभा गुटिका	४)
मकरच्छज चद्रोदय	१००)	विष गर्भ तैल फी सेर	८)
वसंत मालती	२०)	लालानि तैल „	८)
अहणी कपाट	५)	पंचगुणा तैल „	५)
पंचामृत पर्यटी	२०)	दाद की स्वदेशी औषधि	=)

सर्व औषधि मिलने का पता—

वैद्याचार्य पंरिडत रामगोपाल शर्मा,
आयुर्वेदीय औषधालय, आचारजों का चौक, वीकानेर।

पुस्तक
प्रयोग संख्या ५२



मोक्षमार्गगति

(उत्तराध्ययन का अद्वाइसवाँ अध्ययन)

अन्वयार्थे भावार्थे तथा संस्कृत छापा सहित



प्रकाशक—

मेरोदान जेठमल सेठिया

बीकानेर (राजस्थाना)

प्राप्ति ० २४५२
प्रियमस ० १६८३
इ-मन ० ६२१

— प्रथम ग्रन्थ ० ० न्याव दर्ज ॥ पौने दो आने
सो भी जात्याते मरणेगा

श्री अगरचन्द्र सैरोदान सेठिया जैन- पारमार्थिक संस्थाओं के नाम.

१ सेठिया जैन विद्यालय.

इस विद्यालयमें धार्मिक महाजनी हिन्दी और साधारण अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है।

२ सेठिया जैन आविका पाठशाला

३ सेठिया जैन संस्कृत-प्राकृत विद्यालय

४ सेठिया जैन बोर्डिंग-छात्राश्रम

५ सेठिया जैन शास्त्रभंडार [लायब्रेरी]

(क) ग्रन्थसंग्रह—विभाग

(ख) सूत्रलेखन—विभाग

(ग) ग्रन्थसंशोधन—विभाग

(घ) अनुवाद—विभाग

इस विभाग में हिन्दी भाषा में प्राकृत संस्कृत आदि भाषा के प्रत्यों का अनुवाद किया जाता है।

(ङ) ग्रन्थप्रकाशन—विभाग

(च) दीक्षाउपकरण—विभाग

६ सेठिया जैनप्रिंटिंग प्रेस

यदि किसी सज्जन को उक्त संस्थाओं की नियमावधी आवश्यक हो, —) आनेका टिकट आने पर भेज दी जायगी।





मोक्षमार्गगति

(उत्तराध्ययन सुन्न का नू- दीं अध्ययन) -

— 11 —

गाथा—मोक्षदर्शनगगड तच्च (तत्य) सुणेह जिणभासिय ।

चउकारणसजुत्त नागादसग्नलक्खर्ण ॥१॥

न्द्राया— मोक्षमार्गं गति तथ्या यज्ञात जिनभाविताम् ।

चतुर्वारणमयुक्तं शादशनलक्षणाम् ॥१॥

अन्वपार्थ— ह भवनीरो' (जिणभासिय) जिनेल गगतान् से
उपदिष्ट (तच्छ) मत्यमृत 'धउकारणमंजुत्त) सम्पर्शेन मम्यत्राम
मम्यरुचागित्रऔरसम्प्रतय इन चार कारणों से सयुक्त अर्थान् इन चार
कारणों से प्राप्त होनेवाली (नागादमणलक्षण) ज्ञान दर्शन जिम का
चिद है ऐनी (मोक्षमगाहं) गन दर्शन चारित्र और तपमूल्य मोक्षमा-
र्ग से प्राप्त होनेवाली रिदमनि को (सुषोह) मुनो ॥१॥

भारतीय—पहली भी अनादि काल से ज्ञानापराधि आठ दर्शों के वर्णन में युक्त है। भगवान् भगवर्गीन गम्भृत्याचित्र श्री भग्वन् द्वा भेदन करा में उद्यन्नर्मामेसु इह विद्वगति (विद्वापरस्य) दा प्राप्त-
युगा ?। इह विद्वगति दा अधिकारी भी आमा हो उक्ता ?., जिसके

सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन का आविर्भाव है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है। अतएव हे भग्नजीवो! आनंद की असली अवस्था को बताने वाले इस 'मोक्षामार्गगति' नामके अध्ययन को मुनो ॥१॥

मोक्ष का मार्ग क्या है? इसे बताते हैं

गाथा—नाणं च दंसणं चेव, चरितं च तत्वो तहा।

एस मग्नुत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥२॥

छाया—ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

एष मार्ग इति प्रज्ञस्तो जिनेवरदर्शिभिः ॥२॥

अन्वयार्थ—(नाणं च) सम्यग्ज्ञान(दंसणं च) सम्यग्दर्शन (चरितं च) सम्यक्चारित्र(तहा) और(तत्वो) सम्यक्तप (एस एव) इन चारों का समुदाय ही (मग्नुत्ति) मोक्ष का मार्ग है, ऐसा (वरदंसिहिं) समस्त-पदार्थों को देखनेवाले (जिणेहिं) जिनेन्द्र भगवान ने (पन्नत्तो) कहा है ॥ २ ॥

भावार्थ— जीवादि तत्त्वों का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञानना सम्यग्ज्ञान है, यह ज्ञान वीर्यन्तराय-कर्म के साथ ज्ञानावरण-कर्म के क्षय या क्षयोपशम से प्रकट होता है। जीवादि तत्त्वों की श्रद्धा(प्रतीति) करना सम्यग्दर्शन है। यह आत्माका शुद्धस्वभावरूप सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय-उपजाम या क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। संसारं की कारणभूत हिसा आदि क्रियाओं का त्याग तथा मोक्ष की कारणभूत सामायिक आदि क्रियाओं का पालन करना सम्यक् चारित्र है। यह चारित्र चारित्रमोहनीयकर्म के क्षय उपजाम या क्षयोपशम से प्राप्त होता है। जिसका आचरण करनेसे पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है। यह दो प्रकार का है, एक वाह्य और दूसरा आभ्यन्तर। वाह्यतपके १ अनडान (उपवास), २ ऊनोदर (रुचिसे कम भोजन करना), ३ वृत्तिपरिसंबंधान(अभिग्रह-आखड़ी लेना), ४ रसत्याग, ५ कायुकलेश, और ६ प्रतिसंलीनता इंद्रियादि-वश करना, इस प्रकार छह भेद हैं। आभ्यन्तरतपके १ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयावृत्त्य ४

स्वाध्याय, ५ ध्यान और ६ नुत्सर्ग(कायो त्सर्ग) इम प्रकार द्वह भदहै। यद्यपि चारित्रम तप आनता है, किन्तु तप कर्म का क्षय करने में असाधारण कारण है, इस बात को बताने के लिए चारित्र से तपका पृष्ठ महण किया है। सम्पाद्नान सम्पादर्शन सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप इन चारों का पालन करने से ही मात्र होता है, अतएव निनन्द देव ने इनको मात्रकामार्ग कहा है ॥२॥ इन सम्पादनानाटि जो पालन करन से वया फल गिलता है, इसे उन्धाते हैं -

गाथा-नाण च दंसण चेव, चरित्ते च तयो तहा ।

एष मग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छति मुगड ॥३॥

द्वाषा-नान च दर्जा चेव चारित च तपमत्ता ।

एत मागमनुप्राप्ता जीवा गच्छति सदगतिम् ॥३॥

अन्वयार्थ--(नाण च) सम्पादन (दंसण च) सम्पादर्शन (चरित्ते च) सम्यक् चारित्र (तहा) तया (तयो) सम्यक् तप (एवं एव) इसी (मग्ग)मार्ग द्वा (अणुप्पत्ता) आध्रय लेनपाल (जीवा) जीव (मुगड) सङ्क्षिप्ति मीम (गच्छति) पाते हैं ॥३॥

भावार्थ--नीपाटि तन्माका यर्पिना, जोपाटि तत्वा दादृ विश्वाम अहिमा सामाधिक आटि चारित्र द्वा पालन, तया अनशन आटि याहै प्रकार के तप का आचारण करनेसे जीव मीक्ष पाना है ॥३॥

उद्देश के अनुमाग वस्तु का र्णा होगा है, इस नियम के अनुनाम रान के भेद नहात हैं -

गाथा-तत्य पचिति नाण, मुअ जानिगियोहित्य ।

ओहित्यनाणतु तट्य, मणनाणच तेपला ॥४॥

गाथा-तत्र पचिति गा । भुतमानिनिराधिरम् ।

अरपितान तु राय, गान , रत्नम् ॥५॥

अन्वयार्थ— (तत्य) मोक्ष के चार कारणों के मध्य (नामं) ज्ञान (पञ्चविंहं) पांच प्रकार का है, (आभिगिण्योहियं) आभिनिवेदिक— मतिज्ञान (सुयं) श्रुतज्ञान (तद्यं) नीतिरा (ओहियनारंगं) अवधिज्ञान (मणनारंगं) मनःपर्ययज्ञान (च) और (केवलं) केवलज्ञान ॥ ४ ॥

भावार्थ— इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य देश में स्थित पदार्थ का पांच इन्द्रियों और मनद्वारा जो ज्ञान होता है, उसे आभिनिवेदिक (मति) ज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान दो प्रकार का है, द्रव्यश्रुत और भाव श्रुत । शब्द लिपि पुस्तक आदि भाव श्रुतज्ञान के निमित्त कारण को द्रव्य श्रुत कहते हैं । शब्द मुनने वाले के या स्वयं बोलने वाले के या पुनर्नक में लिखे हुए अक्षरों को बांधने वाले के या स्पर्शनादि इन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थों का विज्ञान करने वाले के जो ज्ञान होता है, उसे भावश्रुत ज्ञान कहते हैं । इसमें द्रव्यश्रुत की भाँति अक्षर का सम्बन्ध नहीं रहता है अर्थात् यह सिर्फ़ ज्ञान स्वरूप है । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल आदि की मर्यादा पूर्वक रूपी द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिज्ञानी नीचे क्षेत्र के पदार्थों को अधिक और ऊपर क्षेत्र के पदार्थों को बहुत कम जानते हैं । मानसिक विचारों को उत्पन्न करनेवाली जो मनोद्रव्य की पर्याय हैं उन को मनःपर्ययज्ञान जानता है । समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को शुगप्त (एकताय) जानने वाला केवलज्ञान है । मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय ये चार ज्ञान एक साथ भी रहते हैं, किन्तु केवलज्ञान अकेला ही रहता है, अतएव इसे केवल कहते हैं । नन्दी आदि सूत्रों में मतिज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का पाठ है । यहाँ पर श्रुतज्ञान का पहले पाठ देकर श्रुतज्ञान की प्रधानता प्रकट की है, कारण यह है कि शेष मति अवधि आदि चारों ज्ञान का स्वरूप श्रुतज्ञानसे मालूम होता है ॥ ४ ॥

ज्ञान का प्रियग ज्ञाने है—

गाया—पथ पचविह नाण, दद्वाण य गुणाण य ।

पञ्जवाण य सञ्चेस्मि, नाण नाणीहिंदेसिथं॥५॥

छाया—एतत्पचविध ज्ञान दद्वाणा च गुणाना च ।

पर्याणा च सर्वेषा ज्ञान ज्ञानिभिर्देशितम्॥६॥

अन्यथार्थ—(नाणीहिं) अतिग्राय ज्ञानवाले केवली भगवान् ने (पथ) यह(पचविह)पाच प्रकार का(नाण)ज्ञान(सञ्चेस्मि) सर (दद्वाण) दद्वय (य) तरा (गुणाण) गुण (य) और (पञ्जवाण) पथायों को (नाण) ज्ञाने वाला(देसिथ) कहा है॥५॥

भावार्थ—मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मा पर्याणान ये चारी ज्ञानावगण कक्षयोपशम स प्रकृत होते हैं । अतएव ये ज्ञान मन दद्वय और गुणों की ममूर्ण पथायों को नर्त जान मरते । मति और श्रुत ये दो परोक्षज्ञान, अवधि मन पथप और केवल ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान हैं । इन्द्रिय और मन की महायता में हान ताले ज्ञान को पुरोक्षज्ञान और इन्द्रिय मन की सहायता पिना सिर्फ जात्या से हानवाले ज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं । इन पात्र ज्ञानोंका मन मतिज्ञान श्रुतज्ञान ममूर्ण दद्वयों के कुछ गुण और कुछ पथायों को जानता है । अप्रधिज्ञान एवं दद्वयों की कठिपय(युक्त) पथायों को जानता है, तरा मन पर्याणान मनोदद्वय की पथायों को भी जानता है, और कथनज्ञान ज्ञानावगण के नय मे उत्पन्न होकर कारण ममूर्ण दद्वयों के ममूर्ण गुण और पर्यायों को जानता है । ज्ञानदद्वय गुण और पर्याय को प्रियग कहता है, ऐस करन मे योगाचार (पौदमा का एवं भव) का “ज्ञान के पिता नमाम अन्य देह रत पट ब्राह्मि जायदद्वय गुण ॥५॥” ही है, अतापि ज्ञान अपन स्वरूपो हा जानता है दद्वयों को “ही” गिरमग्नि दिया है । योगि न गुणा देख दुष्टा है इत्याहि ज्ञान वा ज्ञान घार एवं पर्याय ममूर्ण पथायों का भी जान जाता है ॥६॥

द्रव्य गुण और पर्याय का लक्षण कहते हैं—

गाथा— गुणारां आसओ द्रव्यं प्रगद्रवसिस्या गुणा ।

लक्खणं पञ्जवागां तु उभयो अस्तित्वा भवे ॥५॥

छाया— गुणानामाशयो द्रव्यमेव द्रव्याश्रिता गुणाः ।

(लक्खणं पर्यावागां तु उभयो गाश्रिता भवेयुः ॥६॥

अन्वयार्थ— (द्रव्य) द्रव्य (गुणाणं) गुणों का (आसओ) आधार है (गुणा) गुण (प्रगद्रवसिस्या) अपने आधारभूत एक द्रव्य में स्थित हैं (तु) और (पञ्जवागां) पर्यायों का (लक्खणं) लक्षण यह है कि पर्याये (उभयो) द्रव्य और गुण दोनों में (अस्तित्वा) गहनेवाली (भवे) है ॥६॥

भावार्थ— जिस में गुण उत्पन्न होते ठहरते और नष्ट होते हैं, वह द्रव्य है । रूपादि गुण अपने आधाररूप द्रव्य में ही रहते हैं, गुणों में कोई दूसरा गुण नहीं रहता । पर्याये द्रव्य और गुण दोनों में रहती हैं । सदा द्रव्य के साथ रहने वाले धर्म को गुण और क्रमसे होनेवाले धर्म को पर्याय कहते हैं । जैसे पुद्गलद्रव्यरूप घट के हमेशा साथ रहने वाले रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण हैं । स्थास कोश कुशल कपाल आदि घट वनने के पहले होनेवाली अवस्थाएँ घट द्रव्य की पर्याय हैं । वैसे ही रूप गुण की काला पीला नीला लाल और सफेद ये पांच वर्ण, रस गुण की खट्टा मीठा कड़वा कसायला और खारा ये पांच, गन्धगुण की सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो, तथा स्पर्शगुण की हल्का भारी कठोर नर्म रुखा चिकना ठण्डा गर्म ये आठ पर्याय हैं । इसी प्रकार सब द्रव्यों की गुण पर्यायों का विशेष विवेचन पंचाध्यायी आदि अन्य ग्रन्थों से जानना चाहिए, ग्रन्थ विस्तार के भय से यहां नहीं लिखते हैं ॥६॥

द्रव्य के भेद बताते हैं-

गाथा— धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुण्गलजंतवो ।

एम लोगुति पन्नतो जिगेहिं वरदंसिहिं ॥७॥

चाया— धर्मार्थ आकाश काल पुद्गलजत्तर ।

ए प लोक इति प्रजासो जिनेव्वदर्जिभि ॥७॥

अन्वयार्थ—(धर्मो) धर्मस्तिकाय(अधर्मो) अपर्मस्तिकाय (आगास) आकाशस्तिकाय (पुग्गलजत्तरो) पुद्गलास्तिकाय जीवा मितकाय और (कालो) समयरूप काल(एम) यह, उह द्रव्यरूप (लोगुति) लोक है ऐमा (वरदंसिहिं) केवलशन याले (जिगेहिं) जिनेव्वदर्जिभि न (पन्नतो) कहा है ॥७॥

भावार्थ—जीव पुद्गल वर्म अधर्म आकाश और काल ये छह द्रव्य जितने क्षेत्र मे हैं उतने क्षेत्रको लोक कहते हैं । जहा आकाश के सिवा अन्य कोई द्रव्य नहीं है उसे अलोक कहते हैं ॥७॥

जीवादि द्रव्यों के भेद हैं या नहीं ? इसे बताते हैं—

गाया— धर्मो अधर्मो आगास द्रव्य इक्षिकमाहियं ।

अणताणि य दन्वाणि कालो पुग्गलजलबो ॥८॥

चाया— गमार्थर्म आकाश द्रव्यमकैकमात्यातम् ।

अनन्ताणि च द्रव्याणि काल पुद्गलजत्तव ॥८॥

अन्वयार्थ—(धर्मो) वर्मद्रव्य (आधर्मो) अधर्म द्रव्य (आगास) आकाश द्रव्य, इन तीनों को जिनेव्व भगवान् ने(इक्षिक) एक एक(दन्व) द्रव्य (आहिय) कहा है,(य) और (कालो) काल द्रव्य (पुग्गलजत्तवो) पुद्गल द्रव्य और जीवद्रव्य को (अणताणि) अनन्त (दन्वाणि) द्रव्य कहा है ॥८॥

भावार्थ—धर्म अर्म और आकाश ये तीनों एक एक द्रव्यहैं, अर्थात् इन के भेद नहीं हैं । काल द्रव्य अतीत अनागत की अपेक्षा अनन्त है और जीव पुद्गल अपने अपने भेदों की अपेक्षा अनन्त हैं ॥८॥

अब इन छह द्रव्यों का संक्षण कहते हैं—

गाथा-गड्डलक्खणो उ धर्मो अहम्मो ठारालक्खणो ।

भायणं सव्वदव्वाणं नहं ओगाह्लक्खणं ॥१॥

छाया—गतिजज्ञगम्भु धर्मोऽधर्मः नथानलज्ञगः ।

भाजनं सर्वदव्याणां न भोऽवगाहनलज्ञगम् ॥६॥

अन्वयार्थ-- (धर्मो)धर्मास्तिकाय(गड्डलक्खणो) गति लक्षण वाला है(अहम्मो)अधर्मास्तिकाय(ठारालक्खणो)स्थितिलक्षणवाला है। (उ) और(सव्वदव्वाणं)सब द्रव्यो का(भायणं) भाजन-आवारभूत(नहं) आकाशास्तिकाय(ओगाह्लक्खणं)अवगाहनलक्षणवाला है ॥६॥

भावार्थ—गमन करते हुए जीव पुद्दलों को धर्म द्रव्य गमनमें सहायता देता है, जैसे चलती हुई मछलीको जल चलने में सहायता देता है। ठहरते हुए जीव पुद्दलों को अर्थमें द्रव्य ठहरने में सहायता देता है, जैसे ठहरते हुए पथिक को वृक्षकी छाया ठहरने में सहायता देती है। आकाश द्रव्य समूर्ण जीवादि द्रव्यों को अवगाहना (जगह) देता है, जैसे दूध बताऊओं को और दीवार खूंटी को जगह देती है। अतएव धर्म का गतिहेतुत्व, अधर्म का स्थितिहेतुत्व, आकशका अवगाहनाहेतुत्व लक्षण है। क्योंकि जिससे वस्तुकी पहचान होती है, उसे लक्षण कहते हैं, उक्त गतिहेतुत्व आदि धर्मों द्वारा धर्मास्तिकायादि द्रव्य पहचाने जाते हैं, अतः ये ही इन धर्मादि द्रव्यों के लक्षण हैं ॥ ६ ॥ तथा—

गाथा—वत्तणालक्खणो कालो जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेण दंसणेण च सुहेण य दुहेण य ॥ १० ॥

छाया—वर्तनालज्ञगः कालो जीव उपयोगलज्ञगः ।

ज्ञानेन दर्शनेन च सुखेन दुःखेन च ॥ १० ॥

अन्वयार्थ--(कालो) कालद्रव्य (वत्तणालक्खणो) वर्तनालक्षणवाला है (जीवो) जीवद्रव्य (उवओगलक्खणो) उपयोगचेतना लक्षणवाला है (च) तथा जीव (दंसणेण) दर्जन (य) और

(नाखोणं) ज्ञान (सुहेण) सुख (य) और (दुहेण) दुःख से जाना जाता है ॥ १० ॥

भावार्थ— यान्त्रिक आवर्तना (सप्तर्णी की अपस्थाओं को पश्चलना) लक्षण है। जीव का लक्षण उपयोग (चेतना) है, प्रत एव ज्ञान दर्शन सुख दृष्टि द्वारा जीव पहचाना जाता है। वस्तु के विशेषताओं को प्रदृश करने वाले आत्मा के गुण को ज्ञान, और वस्तु क सामान्य वर्भु को प्रदृश करने वाले आत्मा के गुण को दर्शन कहते हैं ॥ १० ॥

जीव का दूसरा लक्षण कहते हैं—

गाथा— नाण च दंसण चेव चरित्त च तवो तहा ।

वीरिय उव ओगो य एय जीवस्स लक्षण ॥ ११ ॥

छापा— नां च दर्गा चेव चरित्र च तासतथा ।

वीयमुपयोगधीतज्जीवस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

अन्यार्थ— (नाण च) ज्ञान (दसण चेव) त्वंत (चरित्त च) चारित्र (तवो) तप (तहा) तगा (वीरिय) वीर्य (य) और (उवओगो) उपयोग (एय) यह (जीवस्स) जीव का (लक्षण) लक्षण है ॥ ११ ॥

मार्गार्थ— मन्त्रादि पाच वा, चन्द्रु आदि में होने वाले चाप दर्शन, पाच प्रकार का चारित्र, गग्ह प्रकार दातप, वीर्यान्तराय एवं केक्षयोपयम से उत्पत्त दूषा वीर्य (सामर्थ्य) और उपयोग ये सब जीव के लक्षण हैं, ये शारादि नीयक मियाभन्यु दुष्टगारि उत्तरों में नहीं पाये जाते हैं ॥ १२ ॥

पुढ़ नां च योग नात है—

गाथा— सदध्यार उज्जोओ पनो छापाऽन्तवुत्ति या ।

वष्णरसगथफासा पुगलाण तु लपरया ॥ १३ ॥

छापा— गन्धोपथार उज्जोन प्रना एयाऽन्तप इनि या ।

पग्गरगग्गन्यगा पुड्डाना तु लपराम् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ— (सद) शब्द (अन्धयार) अन्वकार (उज्जो ओ) रत्नादि का प्रकाश (प्रभा) . चन्द्रादि वी कान्ति (छाया) वृक्षादि की छाया (आतवो) सूर्य के विम्ब से होनेवाला उपर्युक्त प्रकाश (इति वा) वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध तथा भेदादि (तु) और (वण्णरसगंधफासा) वर्ण रस गन्ध और स्पर्श (पुगलाण) पुद्गलों का (लक्खण) लक्षण है ॥ १२ ॥

भावार्थ— शब्द अन्धकार उद्योत (रत्नादि का प्रकाश) प्रभा (चन्द्र आदि की कान्ति तथा किरणेण) शीतगुणवाली वृक्षादि की छाया आतप (सूर्यविम्ब का उपर्युक्त प्रकाश) लाख काठ आदि का बन्ध भेद स्पर्श रस गन्ध वर्ण आदि पुद्गल के लक्षण हैं । इन के द्वारा पुद्गल द्रव्य पहचाना जाता है । जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह पुद्गल द्रव्य ही होता है, शब्द अन्धकार आदि इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, अतएव ये सब पुद्गल के स्वरूप हैं ॥ १२ ॥

इसप्रकार द्रव्य का लक्षण कह चुकने पर पर्याय का लक्षण कहते हैं—

गाथा— एगतं च पुहुतं च संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य पञ्जवाणं तु लक्खणं ॥ १३ ॥

छाया— एकत्वं च पृथक्त्वं च संख्या संस्थानमेव च ।

संयोगाश्च विभागाश्च पर्यवाणं तु लक्षणम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ— (एगतं च) एकत्व-एकपना (पुहुतं च) पृथक्त्व-पृथक्पना (संखां) एक दो तीन आदि संख्या (य) तथा (संठाणमेव संस्थान - आकार (संजोगा) संयोग (य) तथा (विभागा) विभाग (य) और नवीन पुराना आदि (पञ्जवाणं तु) पर्यवों - पर्यायों का (लक्खणं) लक्षण है ॥ १३ ॥

भावार्थ— जिन परमाणुओं से घड़ा बना है, उन के परस्पर मिन्न २ रहने पर भी यह एक घड़ा है, ऐसी प्रतीति जिस से होती है,

उसे एकत्व कहते हैं। यह घडा इन वस्त्रादि से पृथक् (भिन्न) है ऐसी प्रतीति जिससे होती है, उसे पृथक् कहते हैं। एक दो तीन आदि को सख्या, परिमण्डल वुद्भक वामन आदि आकार को स्थान, दो तीन आदि पदार्थों के सम्बन्ध को सयोग तभा समुक्त पदार्थों के अलग होने को विभाग कहते हैं। वस्तु का नवीनपना और पुराणपना इत्यादि ये सब अन्य की पर्यायों ना स्वरूप हैं। अर्थात् एकत्व पृथक् व आदि से पर्यायों का ज्ञान होता है ॥ १३ ॥

ज्ञान का स्वरूप और विषय कह चुके, अब दर्शन का वर्णन करते हैं—

**गाथा—जीवाजीवा य वधो य पुण्ण पावासवो तहा
संवरो णिज्जरा मोक्खो सतेए तहिया गच ॥१४॥**

द्वाया—जीवा अजीवश्च वधश्च पुण्य पापमाश्रयस्तथा ।

सवरो निर्जरा मोक्ष सत्येते तथा नन ॥१४॥

अन्वयार्थ—(जीवा) जीव (अजीवा य) अजीव(आसवो) आश्रय(वधो) वन्य(पुण्ण) पुण्य (पाव) पाप (सवरो) सवर (तहा) तथा (णिज्जरा) निर्जरा (य) और (मोक्खो) मोक्ष (एए) ये(गच) नौ तत्व (तहिया) सत्य (मन्ति) हैं॥१४॥

भावार्थ—चेतनागुण वाग जीवतत्व, चेतनागुण रहित धमास्ति कायादि अजीवतत्व, कर्म आने का निमित्त कारण मिथ्यात्व आदि आश्रयतत्व, जीव और कर्मों का गाढ़ सम्बन्ध होना ववनत्व, गुणि मादि द्वारा कर्मों का रुक्ना मप्रतत्व, फल देकर तथा तप द्वारा कर्मों का आत्मा से अटग होना निर्जगतत्व, और ममूर्ण कर्मों में अलग होकर आत्मा का स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्षनन्व है। ये सब सत्यभूत हैं, अन्य—

गाथा—तहियाण तु भावाण सम्भारे उवाम्भण । -

भारेण मद्भृतस्म सम्भृत त ग्रियाहिय ॥१५॥

छापा— तथानां तु भावानां सङ्गाव उपदेशनम् ।

भावेन श्रद्धतः सम्यक्त्वं तद्वचार्यात्म् ॥ १५ ॥

अन्दगार्थ— इन (तहियोणं तु) सत्य (भावाणं) जीवादि तत्वों ता (स्तु मावे) असली स्वरूप वत्तलानेवाले (उवएस्सणं) उपदेश का (भावेण) अन्तःकरण से (स्तुहंतस्स) श्रद्धान्-विश्वास करने वाले के (स्तुम्) सम्यक्त्व—सम्यग्दर्शन होता है (तं) ऐसा (वियो-हियं) जिनन्ददेवने कहा है ॥ १५ ॥

भावार्थ— उक्त जीवादि नव तत्वों का असली स्वरूप वर्णन करने वाले उपदेश का अन्तःकरण से श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन (सम्यक्त्व) है । यह सम्यग्दर्शन आत्मा का विचित्र शुभ परिणाम है, अतएव जीवादि तत्वों का ज्ञान होने पर भी यह सम्यक्त्व किसी किसी जीव के होता है, सब के नहीं । ऐसे चक्षु इन्द्रिय सब जीवोंके समान होने पर भी निर्मल चक्षु वाला ही शेख को श्वेत (सफेद) देखता है, काचकामल (पीलिया) आदि रोगविशिष्ट नेत्रवाला उसी सफेद शंख को पीला नीला आदि विपरीत रूप देखता है । वैसे ही जिस आत्मा के मिथ्यात्व मोहनीय कर्मका क्षय उपशम या क्षयोपशम हुआ है उसीके सम्यक्त्व होता है, दूसरेके नहीं । इस सम्यक्त्व की पहचान प्रशंस संवेग निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पांच बाह्य चिह्नों से होती है । जिस आत्मामें यह सम्यक्त्व द्वाणमात्र एक बार भी हो जाता है उसका अर्धुद्वलं कालके अन्दर अवश्य मोक्ष होता है ॥ १५ ॥

इस प्रकार सम्यक्त्व का स्वरूप बताकर अब सम्यक्त्व के भेद बताते हैं —

गा— निसग्गुवृएसर्है आणारुह सुत्तवीयरुहमेव ।

अभिगमवित्यारर्है किरियासंखेवधमर्है ॥ १६ ॥

छापा— निसगोपदेशरुची आज्ञारुचिः सूत्रवीजरुची एव ।

अभिगमविस्ताररुची कियासंक्षेपधर्मरुचयः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ— (निसर्गगुद्देशसर्वे) निसर्गरचि, उपदेशरचि, (आणारुद्द) आज्ञारचि (सुत्तवीयस्तडमेव) सूत्ररचि बीनरचि (अभिगमवित्यारुद्द) अभिगम - ज्ञानरचि विस्ताररचि (किरियासंखेप॒मरुद्द) क्रियार्थ ५ राज्ञारचि और धर्मरचि ॥ १६॥

मार्गार्थ — जिन के निसर्ग (स्वभाव) से तत्त्व की रचि (श्रद्धा) उत्पन्न होती है उसे निसर्गरचि १, जिसके गुरु आदि के उपदेश मे तत्त्व की रचि पैदा होती है उसे उपदेशरचि २, जिसके सर्वज्ञकी आज्ञा मात्र से तत्त्व रचि उत्पन्न होती है उसे आज्ञारचि ३, जिसके सूत्र (आगम) से तत्त्व की रचि उत्पन्न होती है, उसे सूत्ररचि ४, जो अक्षर अनेक अर्थ का बोध बगता है वह वीजाक्षर है, इस वीजाक्षर से जिस के सम्पत्तव प्रकाश होता है उसे वीजरचि ५, तग जिस के अभिगम (पदार्पणान) विस्तार क्रिया सक्षेप और धर्म से रचि उत्पन्न होता है, उसे अभिगमरचि ६, विस्ताररचि ७, क्रियारचि ८, सक्षेपरचि और धर्मरचि १० कहते हैं ॥ १६ ॥

इन दश प्रकार के सम्पत्तव का विस्तारपूर्वक अर्थ कहते हैं—

गाया— भृथत्येणाहिगया जीवाजीवा य पुण्यपाव च ।

सहस्रुहच्चा आसवसवरो य रोण्ड उ निसग्गो ॥ १७॥

चाया— भूतार्थेनाधिगता जीवाजाग्रथ पुण्य पाप च ।

गहसपत्याऽऽथनसरो च राचत तु निसग ॥ १८॥

अन्वयार्थ— (सहस्रुहच्चा) परोपदेश विना जातिस्पर्श प्रतिभा आदि ज्ञानद्वाग (जीवाजीवा य) जीव और अजीव (पुण्यपाव च) पुण्य और पाप (आसवसवरो) आश्रम और मरण (य) ८-९ निर्जग और मोक्ष (भृथत्येण) ये पदार्पण सत्य हैं इस प्रकार जिसन (अहिगया) जान लिया है, उसके जो (रोण्ड उ) श्रद्धान होता है उसे (निसग्गो) निसर्ग सम्पत्तव कहते हैं ॥ १७॥

भावार्थ— विना किसी उपदेशके स्वयमेव जातिस्मरण प्रतिभा आदि ज्ञानद्वारा जो आत्मा। जीवादि नौं तत्वों का असली स्वरूप जानकर श्रद्धान्-विश्वास करता है, उसके निसर्गसम्युक्त होता है ॥ १७ ॥

इसी विषय को फिर स्पष्ट कहते हैं—

गाथा— जो जिणादिष्टे भावे च उच्चिह्ने सद्द्वाइ स्यमेव ।
एमेय नद्वहत्ति य निसर्गरूपहत्ति नायद्वो ॥ १८ ॥

छाया— यो जिनद्वषान् भावांश्चतुर्विधान् श्रद्धानि स्यमेव ।

एवमेतत्वान्यथेति च निसर्गरूचिरिति ज्ञातव्यः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ— (जो) जो प्राणी (स्यमेव) परोपदेश विना (जिणादिष्टे) तीर्थकर के जाने हुए (भावे) जीवादि पार्थों को (उच्चिह्नहेति) द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप से अथवा नाम स्थापना द्रव्य भावरूप से चार प्रकार (एमेय) ये इसप्रकार ही हैं (नद्वहत्ति) अन्य प्रकार नहीं हैं इसप्रकार (सद्द्वाइ) श्रद्धा करता है वह (निसर्गरूपहत्ति) निसर्ग सम्यक्त्ववाला है, ऐसा (नायद्वो) जानना चाहिए ॥ १८ ॥

भावार्थ— मिथ्यात्वमोहनीयका क्षयोपशन उपशम या क्षय होनेपर गुरु आदि के उपदेश के विना स्वयमेव जातिस्मरण प्रतिभा आदि ज्ञान द्वारा जीवादि तत्व का स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव से या नाम स्थापना द्रव्य भाव इन चार निक्षेपों से जानकर 'ये जीवादि तत्व जैसे जिनेन्द्र भगवान ने वर्णन किये हैं वैसे ही है, दूसरी तरह नहीं है' इसप्रकार जो श्रद्धान करता है, उसे निसर्ग सम्पदिष्ट जीव समझना चाहिए ॥ १८ ॥

उपदेशरूचि सम्यग्दृष्टि का स्वरूप कहते हैं—

गाथा— एष चेव उ भावे उच्छिष्टे जो परेण सद्द्वड ।

छुडमत्येण जिगेण च उद्देसरूपहत्ति नायद्वो ॥ १९ ॥

छाया— एतांश्चेततु भावानुपदिग्नान् यः परेण श्रद्धाति ।

द्वद्वयेन जिनेन वोपदेशरूचिरिति ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ— (जो) जो (परेण) दूसरे (द्वउभत्येण)
 द्वास्य - अल्पतः (व) अपग (जिग्नेण) केवलीद्वारा (उवहटे)
 उपदिष्ट - कह गये (एवेचेव) इहाँ (भावे उ) जीवादि तत्त्वों का
 (सदहइ) अद्वान करता है यह (उवएससुडत्ति) उपदेशरचि है
 ऐसा (नायन्त्रो) जानना चाहिए ॥ १६ ॥

भावार्थ— केवली भगवान् अपग अन्य द्वास्य साधु आदि के
 उपदेश से जिसको जीवादि तत्त्वों की श्रद्धा होती है, उसे उपदेशरचि स-
 स्पर्शित जीव सफलना चाहिए ॥ १६ ॥

आगारचि सम्पर्शित का स्वरूप कहते हैं—

गाया— रागो दोसो मोहो, अणाण जस्स अवगथ होइ।

आणाए रोयनो, सोखलु आणार्ह नाम ॥ २० ॥

चाया— रागो द्वेषा मोहोऽग्न यस्याग्न त भदति ।

आक्षया रोचमान स तल्लावारचिर्गमि ॥ २० ॥

अन्वयार्थ— (जस्स) जिसक (रागो) गग (दोसो) द्वेष
 (मोहो) और शेष मोहनीय वर्म (अणाण) मिथ्याक्षान (अवगथ)
 एक देश नष्ट (होड) हुआ है, अत्यन्त (सो) वह जीव (आणाए)
 आचार्यादि की आङ्गा से ही (रोयनो) जीवादि तत्त्वों की श्रद्धा करने वा-
 ला (खलु) निर्थय से (आणार्हनाम) आजारचि सम्पर्शित है
 ॥ २० ॥

भावार्थ— जिस जीव के गग द्वेष शाह मान माया लोम आदि मो-
 हनीय वर्म की मन्दता है, उसे आचार्य की आङ्गा मात्र से जीवादि तत्त्वों
 पी श्रद्धा होता है, वह आजारचि सम्पर्शित बना जाता है । जैसे एक मु-
 नि ने प्रथम उपदेश मुनरग पाठे तीर्ती वा उद्दद की दाल धाते हुए द-
 खन, उद्दद भी उनके की भावि भावना तीर्ती भिन्न २ है इन प्रकार
 शाह होनसे मन्दत्तम उपर्यन्त स्थिता था ॥ २० ॥

सूत्ररुचि सम्यग्दृष्टि का स्वरूप बताने हैं—

गाथा— जोसुत्तमहिङ्जनो सुण्ण ओगाहइउ संमतं
अंगेगवाहिरेण न रो सुत्तरहिति नायव्यो ॥ २१ ॥

छाया— यः सूत्रपूर्णानः सूत्रणावगाहेत तु सम्बद्धत्वम् ।

उड्डेत होता गस सूत्रचिरिति ज्ञातव्यः ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ— (जो) मनुष्य (सुत्तं) सूत्र (अहिङ्जनो) पढ़-
कर (अंगेण) आचार आदि अंगो से (ब) अथवा (वाहिरेण)
११ अंगो से वाह्य उत्तराध्ययन आदि (सुण्ण) सूत्रसे (संमतं) स-
म्यत्व (ओगाहइ) प्राप्त करता है, (सो उ) वह (सुत्तरहिति)
सूत्ररुचि सम्यग्दृष्टि है ऐसा (नायव्यो) जानना चाहिए ॥ २१ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य आचाराङ्गादि अङ्गप्रविष्ट सूत्र अथवा उत्तरा-
ध्ययनादि अङ्गवाह्य सूत्रों का अध्ययन कर इन में से किसी सूत्र से सम्यत्व
प्राप्त करता है, उसे सूत्ररुचि सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥ २१ ॥

बीजरुचि का स्वरूप कहते हैं—

गाथा— एगेण अणेगाहं पयाहं जो पसरह उ सम्मतं ।

उद्देव तिल्लविंदू सो धीयरहिति नायव्यो ॥ २२ ॥

छाया— एकेनानेकेषु पदेषु यः प्रसरति तु सम्बद्धत्वम् ।

उदक इव तैलविन्दुः स बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ— (जो) जिस की (सम्मतं) रुचि- श्रद्धा
(एगेण) एक जीवादि पदोंसे (अणेगाहं) अनेक जीवादि (पयाहं)
पदोंमें (उद्देव तिल्लविंदू) जलमें तैल की बूंद की तरह (पसर-
ह उ) अवश्य फैलती है, (सो) वह (धीयरहिति) बीजरुचि सम्यग्दृष्टि
है ऐसा (नायव्यो) जानना चाहिए ॥ २२ ॥

भावार्थ— जैसे एक बीज क्रमसे अनेक बीजों को उत्पन्न करता है

१उद्यव्य ।

‘ वैसे ही जिस आत्मा में एक जीवादि पर्द से उत्पन्न हुई रुचि (श्रद्धा) विशिष्ट क्षणोपशम के बल से अनेक जीवादि पदों की रुचि (श्रद्धा) को उत्पन्न करती है, उसे धीरुचि सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥ २२ ॥

अभिगमरुचि का स्वरूप बताते हैं—

गाथा— सो होइ अभिगमरुई, सुअनाणं जेण अत्यओदिदं
इक्कारस अगाह, पहण्णग दिट्ठिवाओ य ॥ २३ ॥

छापा—^१ स^२ भवत्यभिगमरुचि, श्रुतज्ञानं येनार्थतो दृष्टम् ।

“ एकादशाङ्कानि, प्रकीर्णक दृष्टिवादथ ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ— (जेण) जिसने (इक्कारस अंगाह) ग्याह अग (पहण्णग) उत्तराध्ययनादि प्रकीर्णकसूत्र (दिट्ठिवाओ) दृष्टिगाद (य) और औपपातिक आदि उपाङ्करूप सम्पूर्ण (सुअनाणं) श्रुतज्ञान को (अत्यओ) अर्थरूपसे (दिदं) जान लिया है (सो) वह (अभिगमरुई) अभिगमरुचि सम्यग्दृष्टि (होइ) है ॥ २३ ॥

आवार्य— जिसने ग्याह अग उत्तराध्ययन आदि प्रकीर्णकसूत्र सथा उपाङ्क आदि सम्पूर्ण श्रुत का अर्थ जानलिया है, वह अभिगमरुचि सम्यग्दृष्टि है ॥ २३ ॥

विस्ताररुचि का स्वरूप दिखाते हैं—

गाथा— दब्बाणा सव्वभावा, सव्वपमाणेहि जस्स उवलद्वा ।

सव्वाहि नयविहीहि य, वित्थाररुहस्ति नायब्बो ॥ २४ ॥

छाया— दब्बाणा सर्वभावा, सर्वपमाणैर्यत्योपलघ्याः ।

सर्वनयविधिभिश्च, विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्य ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ— (जस्स) जिसने (दब्बाणा) द्रव्यों की (सव्वभावा) समस्त पदार्थों को (सव्वपमाणेहि) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों (य) और (सव्वाहि) सब (नयविहीहि) नैगम आदि नयों से (उवलद्वा)

जानलिया है, (वित्ताररुद्धत्ति) वह विस्ताररुचि है ऐसा (नायब्बो)
जाननाचाहिए ॥ २४ ॥

भावार्थ— जिसने धर्मस्तिकायादि छहों द्रव्यों की समूर्ख पर्यायें
प्रत्यक्ष अनुमान आदि सब प्रमाणों तथा नैगम संप्रह आदि सातों नयों से जान
ली हैं, वह विस्ताररुचि सम्यग्दृष्टि है ॥ २४ ॥

क्रियारुचि का स्वरूप बताते हैं—

गाथा— दंसणनाश्चरित्ते, तवविणए सच्चसमिहगुत्तीसु ।

जो किरिया भावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥ २५ ॥

छाया— दर्शनज्ञानचरित्रे, तपोविनयसत्यसमितिगुप्तिपु ।

यः क्रियाभावरुचिः स खलु क्रियारुचिर्नाम ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ— (जो) जो (दंसणनाश्चरित्ते) दर्शन ज्ञान
चारित्र (तवविणए) तप विनय (सच्चसमिहगुत्तीसु) सत्य-
समिति और गुप्ति की (किरिया भावरुई) क्रियाओं का पालन करने
में भावपूर्वक रुचि रखता है, (सो) वह (खलु) निश्चय से (किरिया-
रुई नाम) क्रियारुचि नाम का सम्यग्दृष्टि है ॥ २५ ॥

भावार्थ— जिस की दर्शन ज्ञान चारित्र तप विनय समिति गुप्ति का
आचरण करने में भावपूर्णरुचि है, वह क्रियारुचि सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥ २५ ॥

संक्षेपरुचि का स्वरूप कहते हैं—

गाथा— अणभिग्गहियकुद्धी, संखेवरुद्धत्ति होइ नायब्बो

अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहिअओ य सेसेसु ॥ २६ ॥

छाया— अनभिग्गहीतकुद्धिः, संक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्यः ।

अन्तिशारदः प्रवचनेऽनभिग्गहीतश्च शेषेषु ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ— (अणभिग्गहियकुद्धी) जिसने बौद्ध आदि
मिथ्यामतका प्रहण नहीं किया है, तथा (पवयणे) जिनागम से
(अविसारओ) अनभिग्ग है (य) और (सेसेसु) कपिल आदि

के शास्त्रों का भी (अग्नभिगमहि ग्रो) जाता नहीं है वह (सखेवरुद्धति) सक्षेपरुचि सम्यग्दृष्टि (होह) है ऐसा (नायव्यो) जानना चाहिए ॥ २६ ॥

भावार्थ— जिसने बौद्धादि का मत धारण नहीं किया है । जो जैनमत के शास्त्रों और साख्यादि मन्त्र मत के शास्त्रों को भी नहीं जानता है, चिलाती-पुन की भाति केवल प्रशम आदि तीन पदों से इच्छा (श्रद्धा) प्राप्त करता है, वह सक्षेपरुचि सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥ २६ ॥

~ धर्मरुचि का स्वरूप बताते हैं —

गाथा— जो अतिथकायधर्म, सुयधर्म खलु चरित्तधर्म च ।

सद्दहड़ ज्ञिणाभिहिय, सो धर्मरुद्धति नायव्यो ॥ २७ ॥

छाया— योऽस्तिकायधर्म, श्रुत्यर्थे सलु चरित्तधर्म च ।

थ्रद्गाति जिनाभिहित, स धर्मरुचिरिति ज्ञातव्य ॥ २७ ॥

अन्यथार्थ— (जो) जो (जिणाभिहिय) जिनन्द भगवान् से कह गये (अतिथकायधर्म) धर्म अर्थे आदि अस्तिकाय के गति स्थिति आदि धर्मों की (सुयधर्म) आगम के स्वरूप की (चरित्तधर्म) सामायिक आदि चारित्र-धर्म की (सद्दहड़) श्रद्धा — प्रतीति करता है (सो) वह (धर्मरुद्धति) धर्मरुचि है ऐसा (नायव्यो) जानना चाहिए ॥ २७ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य वीतराग जिनेन्द्रि देव के बताए हुए धर्म-स्तिकाय आदि के गति आदि वर्म तथा श्रुत्यर्थे (आगमका स्वरूप) और सामायिक आदि चारित्र धर्म की श्रद्धा (प्रतीति) करता है, वह धर्मरुचि सम्यग्दृष्टि कहा जाना है । यद्यपि ये सम्यक्त्व के दस मेद निसर्ग और उपदेश इन दो भगवा निसर्ग और अधिगम इन दो भेदों में गम्भीर हो जाते हैं, लेकिन शिश्यों को समझ ने के लिए इन का पृथक् २ स्वरूप बताया है ॥ २७ ॥

सम्यक्त्व की उत्पत्ति के निमित्तकारणों को ज्ञाते हैं —

गाथा— परमत्यस्यद्यो वा, सुदिव्यपरमत्यसेवणा वाचि ।

वावन्नकुदंसणवज्जणा, य संमत्त सद्धहणा ॥ २८ ॥

छाया— परमार्थसंततो थो, सुदृष्टपरमार्थसेवनं वाऽपि ।

व्यापककुदर्शनवर्जनं, च सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ— (परमत्यसंथयो) सचे जीवादि पदार्थों का बारं बार परिचय करने से (वा) तथा (सुदिष्टपरमत्यसेवणा) सम्यक् प्रकार तत्त्वों के ज्ञाता आचार्य उपाध्याय साधु आदि की सेवा (वा) अथवा वैयाकृत्य (वैयावच्च) करने से (अवि) तथा (वावन्नकुदंसणवज्जणाय) जिन्होंने प्राप्त हुए सम्यक्त्व को छोड़ दिया है ऐसे तथा शाक्यादि कुर्दर्शनियों की संगतिका त्याग करने से (संमत्त सद्धहणा) सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥

भावार्थ— जीवादि तत्त्वों का बार बार चिन्तन करने से, जीवादि तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप जानने वाले आचार्य उपाध्याय साधु आदि की सेवा वैयाकृत्य करने से, प्राप्त हुए सम्यक्त्व का त्याग करने वाले निहृत आदि तथा शाक्य आदि कुर्दर्शनियों की सङ्गति न करने से, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥

सम्यक्त्व का माहात्म्य (महिमा) बताते हैं—

गाथा—नत्य चरित्तं सम्मतविहृणं दंसणे उ भइयञ्चं ।

सम्मतचरित्ताइं, जुगवं पुव्वं व सम्मतं ॥ २९ ॥

छाया— नास्ति चरित्रं सम्यक्त्वविहीनं दर्शने तु भक्त्व्यं ।

सम्यक्त्वचारित्रे युगपत्पूर्वे वा सम्यक्त्वम् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ— (सम्मतविहृणं) सम्यक्त्व विना (चारित्तं) चारित्र (नत्य) नहीं होता है, (उ) और (दंसणे) सम्यक्त्व के होनेपर (भइयञ्चं) चारित्र भजनीय है अर्थात् होताभी है और नहीं भी होता है, (सम्मतचरित्ताइं) सम्यक्त्व और चारित्र (जुगवं) युगपत्-क्षक्षसाथ (वा) अथवा (पुव्वं) पहले (सम्मतं) सम्यक्त्व होता है ॥ २९ ॥

भावार्थ— सम्यक्त्व न होन पर चारित्र कभी न हुआ है और न होगा । सम्यक्त्व हानेपर चारित्र होता भी है और नहीं भी होता है । सम्यक्त्व चारित्र के साम भी गृह्णा है और पहलेभी गृह्णा है, अथात् सम्यक्त्व चारित्र का करण है ॥ २६ ॥

आर भी सम्यक्त्व का माहात्म्य प्रनाते हैं—

गाथा— नादंसणिस्स नागा नाणेण विना न होति चरणगुणा ।
अगुणिस्स न लिय मोङ्करो न लिय अमाक्खस्स निव्वागां । ३० ।

छाया— नादशनिनो ज्ञान ज्ञानेन विना न भवति चारित्रगुणा ।

अगुणिनो नास्ति मोङ्को नास्त्यमोङ्कस्य निर्वाणम् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ— (अद्विणिस्स) सम्यादर्शन रहित के (नाण) सम्यज्ञान (न) नहीं होता, (नाणेण) ज्ञान के (विना) विना (चरणगुणा) चारित्र-बतारि, गुण पीडिशुदि आदि (न होति) नहीं होते (अगुणिस्स) चारित्र गुण रहित के (मोङ्करो), कमी रा क्षय (न लिय) नहीं होता, और (अमाक्खस्स) अमुक्त कर्म सहित की (निव्वागा) सुक्ति (न लिय) नहीं होती ॥ ३० ॥

भावार्थ— तमान्तर के विना नितना ज्ञान है, वह सब मियज्ञान होता है और सम्यक्त्व के हाने ही वह मि-यज्ञान सम्यज्ञान हो जाता है, अतएव सम्यज्ञान या काण्ड सम्यक्त्व है । सम्यज्ञान के विना अहिमा आदि घट और पिण्ड विशुद्धि आदि गुण उन्पन्न नहीं होते । निम के चारित्र और गुण नहीं हैं, उसके कमीका नाश नहीं होता, और उसके काश तुष विना सुक्ति नहीं होती, इसलिए सुक्ति का मृद यापण सम्यक्त्व है ॥ ३० ॥

आठ प्रकार के दर्शनाचार का पालन करने से उन्नता गुण की प्राप्ति होती है, आ दर्शनाचार को प्रनाने हैं—

गाथा— निस्सक्षिय निःकृतिय निव्विनिगिच्छ्र अमृदिष्टिय ।

उपरूपधिरीकरणे दद्दलपभारणे अष्ट ॥ ३१ ॥

**छाया-निःशब्दिकृतं निःकांडिभ्रतं निर्विचिकित्सं (निर्विजुगुप्तं) व्रमृद्धविष्ट्वा ।
उपवृहास्थिरीकरणे वात्सल्यभावने अष्ट ॥ ३१ ॥**

अन्वयार्थ— (निस्संक्षिप्त) जिन वचन में शंका न करना (निकंखिय) बोद्धादिके मत को भला न बताना (निवित्तिगिर्च्छ) धर्म के फल में संदेह न करना अथवा साधुओं का भैला शरीर देख कर घृणा न करना (असूदिष्टी) कुतीर्थियों को कृद्विशाली देखकर भी जैनमत को निर्दोष समझ कर स्थिर रहना, (उच्चवृहथिरीकरणे) सम्पर्दशन आदि गुण वाले मनुष्यों की प्रशंसाकर उनके गुण की वृद्धि— उपवृहा करना, धर्म से डिगते हुए को धर्म में स्थिर करना (वच्छल्लपभावणे) सावर्णियों के साथ गौ बछड़ेके समान वात्सल्य-प्रेम रखना और जैन मत की प्रशंसा और उन्नति के लिए चेष्टा करना (अट्ट) ये आठ दर्शनाचार हैं ॥ ३१ ॥

भावार्थ— जैनधर्म के तत्त्वों पर सन्देह न करना अर्थात् जहाँ तक युक्ति अनुमानादि द्वारा तत्त्व का निर्णय हो सके निर्णय करना, लेकिन युक्ति आदि के अगोचर सूक्ष्म और गहन विषय में शङ्खा न करना निःशब्दित दर्शनाचार है । अन्य मतों में भी अहिंसा आदि धर्मों का वर्णन होने से वे भी अच्छे हैं तथा युक्ति-संगत हैं, ऐसा अभिप्राय न रखना, निकांकित दर्शनाचार है । धर्म के लिए इतना हेश सहते हैं, इस का कुछ फल होगा या नहीं, इस प्रकार धर्म के फल में सन्देह न करना निर्विचिकित्सा तथा साधुओं का मलीन शरीर देखकर घृणा न करना निर्विजुगुप्ता है । कुतीर्थियों को समृद्धिशाली देखकर भी वीतराग जैनमत को उत्तम और निर्दोष समझना अमृद्धृष्टि दर्शनाचार है । यह चार प्रकार का अन्तर्गत आचार है । सम्पर्दशनादि गुण सहित सत्पुरुषों की “आप महापुरुष हैं, आप का ही जन्म सफल है” इत्यादि प्रशंसा कर उनके गुण की वृद्धि करना उपवृहण दर्शनाचार है । धर्म से डिगते हुए मनुष्यों को अनेक प्रकार की सहायता देकर धर्म में स्थिर रहना स्थिरीकरण दर्शनाचार है । सधर्मी मनुष्यों को भोजन वस्त्र

द्रष्ट्र आदि उचित वस्तु देकर, जैसे गौ बहुडे से प्रेम करती है वैसेही प्रेम प्रकार करना वात्सस न्य दर्शन चार है । विद्यालय ठात्राश्राम (बोँडिंगहाउस) धर्मोपदेश ग्रन्थ-प्रकाशा आदि अनक उपायों से जैर्धर्म की उन्नति करना प्रभायना दर्शनाचार है । ये अन्तके चार वाह्य माचार हैं । इन आठ आचारों का पाचन करने वाडा चारित्र का पाचन फरथयश्य मोक्ष पाता है ॥ ३१ ॥

ज्ञान दर्शन को मोक्ष का मार्ग बताऊर चारित्र को भी मोक्ष का मार्ग बताने के लिए चारित्र का भेदपूर्वक स्वरूप बताते हैं—

गाथा— सामाध्यत्य पढम छेदोवद्वावणं भवे वितिय ।

परिहारविसुद्धीय सुहृम तह सपराय च ॥ ३२ ॥

अकसायमहकस्याय छउमत्यस्स जिणस्स वा ।

एष चयरित्तकरं चारितं होइ आहिय ॥ ३३ ॥

छाया— सामायिकमत्र प्रथम घेदोपस्थापन भरेद् ढितीयम् ।

परिहारविशुद्धिक सूदम तथा सम्पराय च ॥ ३२ ॥

असाय ययारत्यात द्वम्यस्य जिनम्य वा ।

एतचयरित्तकरं चारित्र भवत्यारव्यगतम् ॥ ३३ ॥

अन्यथार्थ — (अत्य) चाग्निमें(पढम) पहला (सामाध्य) सामायिक (वितिय) दूसरा (नेंद्रोवद्वावण) घेदोपस्थापन (परिहार-विसुद्धीय) तीमग परिहारविशुद्धि (सुहृम तह सपराय) चौथा सुद्धम-सम्पराय है, (आगसाय) वपाय के क्षय या उपशम से हानेवाला (चहकस्याय) यह पाचवों यगाल्यात (छउमत्यस्स) ग्यारहवें और बाहरवें गुणस्थानपत्ती मुनिरेवा अथवा (जिणस्स) केवली मगवान् के (भवे) होता है (एष) यह पाचों प्रकार का (चारित्र) चारित्र (चयरित्तकर) वर्षों वानाश करने वाला (होइ) है, ऐसा (आहिय) जिनेन्द्रभगवार् ने कहा है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

भावार्द— समूर्ण सावय नियाओं कात्याग कर राग द्वैप रहित

होकर समता भाव धारण करना, सामायिक चारित्र है। इसके दो भेद हैं, इत्वर और यावत्कथिक। भरत और ऐश्वर्य क्षेत्र में प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के तीर्थ की प्रवृत्ति रहने पर छेदोपस्थापना चारित्र वालों के इत्वर (अल्प काल रहने वाला) सामायिक चारित्र होता है। भगत ऐश्वर्य क्षेत्र में विचले २२ तीर्थकरों के तीर्थ में और महाविदेह क्षेत्रमें सदा यावत्कथिक (यावज्जीव) सामायिक चारित्र होता है ॥१॥ अतिचार सहित मुनिके तथा अन्य तीर्थकर के तीर्थ में गये हृषे अतिचार रहित मुनि के पूर्व पर्याय का छेद, और नवीन महाब्रत का धारण होता है, उसे छेदोपस्थापन चारित्र कहते हैं । २। तपस्या विशेष से विशुद्ध हुए चारित्र को परिहारविशुद्धि चारित्र कहते हैं । ३ मुनीश्वर गिलकर इस परिहारविशुद्धि संयम कल्प का प्रारंभ करते हैं । इनमें से ४ नाशु तपस्या, ४ साशु इन तपस्तियों की वैयावृत्य (सेवा) करते हैं और एक वाचनाचार्य होता है । तपस्या करने वाले साधु ग्रीष्म काल में जवन्य १ मध्यम २ उत्कृष्ट ३ उपवास, तथा शरद् ऋतुमें जवन्य २ मध्यम ३ उत्कृष्ट ४ उपवास और वर्षाऋतु में जघन्य ३ मध्यम ४ उत्कृष्ट ५ उपवास करते हैं । उपवास के पहले दिन और पारणके दिन आचाम्ल (आमिल) तप करते हैं । वैयावृत्य करने वाले तथा वाचनाचार्य सदा आमिल करते हैं ॥ इस प्रकार छह महीने समाप्त होने पर वैयावृत्य करनेवाले साधु तपस्या करते हैं तथा तपस्या करने वाले साधु वैयावृत्य करते हैं और वाचनाचार्य वही रहता है; इस तरह छह महीने और तीतने पर जो साधु वाचनाचार्यका काम करता था वह तपस्या करता है, शेष ८ साधुओंमें से एक वाचनाचार्य नियत किया जाता है और ७ वैयावृत्यमें रहते हैं; यह क्रम भी छह मास पर्यंत रहता है । उक्त प्रकार १८ महीने में परिहार विशुद्धि संयम कल्प समाप्त होता है । इसके बाद वे साधु जिनकल्प अवस्था धारण करते हैं, या पुनः गच्छ में आते हैं । दर्शवें गुण स्थानवर्ती मुनिके जो चारित्र होता है, उसे सूक्ष्मसम्पराय

चारित्र कहते हैं । ४। उपशातकपाय म्यारहवें, खीणरुपाय धारहवें तथा सयों केवली तेरहवें और अयोगकेवली चौदहवें गुणस्थान वर्तीं। महात्माओं के कपाय का अभाव होने से यथाख्यात चारित्र होता है । ५। इन पाचों प्रकार के चारित्र से कर्मपुङ्क का क्षय होता है । इस प्रकार तीर्थकर भगवान् ने कहा है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

चौथे तपकारण को कहते हैं—

गाथा—तवो अ दुविहो बुत्तो, यादिरन्विभत्तरो तहा ।

याहिरो छविहो बुत्तो, एवमन्विभत्तरो तवो ॥३५॥

द्वादशा—तपश्च द्विविधमुक्त वाद्यमाभ्यन्तर तथा ।

बाद॑ पद्मवधमुक्तमेवमाभ्यन्तर तप ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ— (तवो अ) तप (दुविहो) दो प्रकार का (बुत्तो) कहा है (यादिरन्विभत्तरो तहा) बाद तप और आभ्यन्तर तप (याहिरो) बाद तप (छविहो) छह प्रकार का (बुत्तो) कहा है (एव) इसी प्रकार (ग्रन्विभत्तरो) आभ्यन्तर (तवो) तप है, अथात् आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है ॥ ३४ ॥

भावार्थ— जैसे अग्नि में तपाकर सोन का मल दूर किया जाता है, वैसे ही तप द्वारा आत्मा को तपाने से कर्म मउ का नाश होता है । यह तप दो प्रकार का है, बाद और आभ्यन्तर । जिस तप का साक्षात् सम्बन्ध शरीर से और परम्परा सम्बन्ध आत्मा से है, उसे बाद तप तथा जिस का साक्षात् सम्बन्ध आत्मा से और परम्परा सम्बन्ध शरीर से है, उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं । बाद तप छह प्रकार का है, १ अनशन २ अवमोर्दर्य ३ वृत्तिपरिसरव्यान (अभिग्रह) ४ रसपरित्याग ५ कायद्वेश और ६ प्रतिसंलीनता । चार प्रकार के या तीन प्रकार के भोजन का त्याग करना, अनशन (उपवास) है । भोजन की अधिक दशि होने पर कम भोजन फलना, अवमोर्दर्य है । प्रतिदिन अभिग्रह (आरडी) लेकर अभिग्रह के अनुसार भोजन मिलने पर भोजन करना और

तदनुसार न मिलने पर भोजन नहीं करना, वृत्तिपरिसंरचना (अभिग्रह) है। प्रतिदिन किसी रस का त्याग कर भोजन करना रस परित्याग है। शक्ति अनुसार काय को हेश देने वाला तप करना काय हेश तप है। इन्द्रिय आदि वश करना, प्रतिसंलीनता तप है। आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है, १ प्रायथित्ति २ विनय ३ वैयावृत्य (वैयावच्च) ४ स्वाध्याय ५ ध्यान और ६ व्युत्सर्ग (कायोत्सर्ग)। अज्ञान प्रमाद आदि कारण से लगे हुए अतिचारों जो वोग्य तप आदि द्वारा शुद्ध करना, प्रायथित्ति तप है। विद्या वय तपस्या आदि में वड़े पुरुषों का आदर सत्कार करना, विनय तप है। रोग आदि से ग्रस्त हुए साधुओं की सेवा दृहल करना, वैयावृत्य (वैयावच्च) तप है। वीतराग सर्वज्ञ कथित शास्त्रों का पठन पाठन तथा मनन करना, स्वाध्याय तप है। चित्त को अन्य विषयों से हटाकर एकाग्र करना ध्यान तप है। शरीर से ममत्व त्याग कर कायोत्सर्ग करना, व्युत्सर्ग तप है। इस प्रकार तप के कुले वारह भेद हैं॥ ३४॥

दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इन चारों को मोक्षमार्गपना तो है, पन्नतु कौन कितना कार्य करता है, इसे बताते हैं—

गाथा—नाशेण जाणह भावे दंसणेण य सद्हहे।

चारित्तेण निंगिणहाह तवेण परिसुञ्जमह ॥ ३५ ॥

छाथा—ज्ञानेन जानाति भावान् दर्शनेन च श्रद्धते ।

चारित्रेण निःङ्गाति तपसा परिगुद्यति ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—आत्मा (नाशेण) ज्ञानसे (भावे) पदार्थों को (जाणह) जानता है (दंसणेण) सम्यक्तव से (सद्हहे) श्रद्धा करता है (चारित्तेण) चारित्र से (निंगिणहाह) कर्मों को रोकता है (य) और (तवेण) तप से (परिसुञ्जमह) पूर्व-कृत कर्म का क्षय होने के कारण शुद्ध होता है ॥ ३५ ॥

भावार्थ—यह आत्मा सम्यक्तव होने पर तत्त्वों की श्रद्धा करता है। ज्ञान द्वारा तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप जानता है। चारित्र द्वारा पापजनक क्रि-

याओं का त्याग करने से आते हुए कर्मों को रोकता है तथा तप द्वारा पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय कर शुद्ध होता है।

उक्त कथन से मार्ग का फल मोक्ष कह चुके, अब मार्ग की फलरूप गति को बताते हैं—

गाथा— सवित्ता पुञ्चकम्माड , सजमेण तदेण य ।

सञ्चदुक्खपहीणद्वा , परकमंति महेसिणो ॥ ३६ ॥
त्तिवेमि

चाया— जपयिता पूर्वकर्माणि सयमेन तपसा च ।

प्रक्षीणसर्वदु गार्था प्रकामति महर्षिण ॥ ३६ ॥
इतिवेमि ॥

अन्वयार्थ— (महेसिणो) महर्षि (सजमेण) सयम अर्योत् चारित्र (तदेण) तप (य) दर्शन और ज्ञान से (सञ्चदुक्खपहीणद्वा) सब दु ए और प्रयोजन का क्षय पर (परकमंति) सिद्धगति को प्राप्त करते हैं। (इतिवेमि) इस प्रकार मुख्यान्वयामी जन्मूस्थामी से बहते हैं।

भावार्थ— महर्षि दर्शन ज्ञान चारित्र और तप द्वारा पूर्व सचित कर्मपुण्डि का क्षय पर समूर्ख दु ए— रहित तथा कृतशृङ्खला हो अनन्त चतुष्पथ (अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुगम और अनन्त वीर्य) स्वरूप अविनश्या सिद्धगति को प्राप्त करते हैं ॥ ३६ ॥

इति मोक्षमार्गतिनामाध्यपनम्



सेठिया जैन अंथमाला की पुस्तकें-

तैयार

सामाधिकसूत्र मूलपाठ तथा विधि	रु०)
प्रतिश्रमण मूलपाठ और विधि	रु० -)
प्रकरण (थोकड़ा) संग्रह भाग दूसरा पक्षी जिल्द	रु० १)
सामाधिक शब्दार्थ, भावार्थ, और कोषसहित	रु० =)
प्रतिक्रमण सूत्र-शब्दार्थ, भावार्थ, विधि सहित	रु० ३)
तीनों बोल का थोकड़ा	रु० -)
जैन धालोपदेश	रु० =)
कर्तव्य कौमुदी द्वितीयभाग हिन्दी अनुवाद सहित	रु० । -)
क्रिया कर्म वैराग्य	रु० -)
आवक के बारह व्रत	रु० =)
शुण विलास (विविधप्रकार स्तवन)	रु० ॥
नंदीसूत्र मूल पाठ	रु० । =)
मांगलिक स्तवन संग्रह भाग पहला	रु० =)
” ” ” ” दूसरा	रु० -)
प्रस्ताररक्षावली (इसमें गांगेय अनगार के भाँगे, आवक व्रत के भाँगे और आनुपूर्वी के भाँगे हैं) पत्राकार पृष्ठ २८० पक्षी जिल्द	रु० १=)
नमिपञ्चज्ञा-अन्वयार्थ, भावार्थ, लंशुत छाया सहित	रु० ३)
महावीरस्तुति ” ” ” ”	रु० -) ॥
बृहदालोयणा भी आवक लाला रणजीतसिंहजीकृत	रु०) ॥
जैन सिद्धान्त कौमुदी (अद्वमागधीच्याकरणम्) पक्षी- जिल्द	रु० १)
नीतिदीपिकाशतक हिन्दी अनुवाद सहित	रु० =)
बड़ी-साधुवन्दना (तेरहाल तथा स्तवन)	रु० -)



निवंदन

१ इस पुस्तक को यतना से पढ़ें और सून मूल-पाठ को अस्त्रा
याय काल में न पढ़ें।

२ पुस्तक मगाने वाले महाशय अपना नाम माम पोष्ट जिला
स्पष्ट देवनागरी-लिपिमें लिखें, पन आने पर वी०पी० द्वारा मेजी
जायेंगी।

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द भैरोदान सेठिया

महोद्धा भरोटियोका

बीकाऊ (राजस्तान)




दो सेठिया जैन प्रिण्टिंग

में कुमार सरकारी पुस्तक वाणी जाती है

श्रीवितरागायनम् ।

श्रीउपकेश (कवला)गच्छके मुनिश्री ज्ञानसुदर विरचित

प्रश्नमालास्तवन् ।



छपावी प्रभिद्ध करनार,

जैन पाठशाला—फलोदी.

प्रथम आवृत्ति १०००

वर्ष सवत् २४४२

विक्रम सवत् १९७३

भाबनगर—“धी विद्या विजय” मुद्रालाल शाह
पुरुषोचमदास गीणाभाई पांचभायासे एक्ट्रिट.

कीमत ०-१-०

प्रस्तावना।

प्रिय पाठको ए वात कीसीसे छीपी हुई नहीं है कि जैनी स्याद्वदी है और जैनीओका आगम भी स्याद्वद की गभीर शेलीसे भरा हुवा है परन्तु अधुनीक समयमें कितनाक नामधारी+जैनी केवल ३२ सुत्रकाही मान बेठ हैं इसीका मुख कारण श्रीजिन प्रतिमाको बन्दनीकु पुजणीकु नहीं मानपाकाही है उनि महनुमावासे पुछा जाता है क्या ३२ सुत्र सच्चा है वाकी जुठा है इसपर कितनेहै केहते हैं की वाकी सुत्रामे मूर्ती का अधिकार पीछेसे मीला दीया है

प्रिय! जब ३२ सुत्रामे ही मुर्तीका अधिकार है तो केर अन्य सुत्रामे पीछेसे मिला दिया किस वास्ते केहते हैं। और क्या सावुरी है कितनेक मुर्ती उत्थापक केहते हैं कि ३२ सूत्रका मूल पाठमें तो मुर्तीपुजा है नहीं और टीका नियुक्ती आदिमें है वो हम नहीं मानते.

प्रिय! ३२ सुत्राका मूल पाठमें मुर्ती पुजाका अधिकार अछी तरदू से श्रीगणधर भगवान ने फुरमाया है वो हमारी बणहै (गयवर विलास) पुस्तकमें स्पष्ट बतला दिया है, अगर आप पाचगी नहीं मानते हो इसका क्या कारण है

(पुर्व पक्ष) मुल ३२ सुत्रसि पाचागीमें कीतनेही घोल अभीलते हैं

(उत्तर पक्ष) प्रिये जैन आगममें ऐसी वात कीसी पाचागी शकर्ण

* स्थानस्थायी तैरापन्धी।

मे नहीं है कि ३२ सुत्रांसे न माले परन्तु उनिकी गंभीर शेलीको पीछणा और अंतरंगत रेस्व को समजना ए बहुतही मुसीकल है।

परन्तु समयक ज्ञान शुन्य मुर्ति उत्थापक केवल अज्ञान के मारा अपणा मीथ्या कदाचाके वसीभुत है के पुर्व धारी आचार्य के वचनको

उत्थापन करते है उनिसे हम इसी स्तवन द्वारे प्रश्न पुछते है कि जो तुम ३२ सूत्र मूल पाठ मानते है तो ३२ सुत्रांमे एसे एसे वोल है कि वीगर पांचांगी समाधान नहीं होता है हमारे तो पुर्व आचार्य इनी वोलाका पांचांगी द्वारे समाधान कर गया है।

अब जो पांचांगी नहीं माननेवाला से हमारा केहना है की ३२ सुत्रांका प्रश्न ३२ सुत्रांका मूल पाठसे समाधान कर छापा द्वारे प्रगट करे नहीं तो अब आपका ३२ सुत्र ही मानने का कृतब्वी रंग चलणेका नहीं है।

प्रिय आप लोक पांचांगी आदि प्रकरणसे ही आपकी आजीवका चलाते हो और उनि पांचांगीको नहीं मानणा ए क्या कृतब्वीपणा नहीं है तो क्या हे स्वं विचार कर लेणा हम आपके हितार्थी शीषसा देत् है कि आप आपकी आत्म कल्याण करणा चाहते होते जैन आगम पांचांगी संयुक्त प्रभण कोरे अस्तु।

हमारे हुंदीय और तेरापंथी भाइ ऐसा न करे कि हम जो ३२ सुत्रांका मूल पाठसे प्रश्न पूछा है जीसीका उत्तर अङ्ग वङ्गसे दे देवे हम मूल सूत्र से लेणा चाहते हैं वो मुल ३२ सुत्रांसे ही देवे जो मुल सुत्र से उत्तर नहीं देवेगा तो आँम तोरसे जाहर होजावेगा कि जैन आगम की छोड़के केवल ३२ सुत्र मानणा ए ऐक भद्रीक जीवांके लीए जाल रचा है परन्तु अब आपकी ढोल जीतनी पोल वीद्वतासे छीपी हुई नहीं है इतनाही केहके प्रस्तावना समाप्त करता हुं श्रीरस्तु । लेखक।

श्री रत्नप्रभसूरि गुरुभ्यो नमः
 ॥ श्री प्रश्नमाला स्तवनः ॥
 ॥ दोहा ॥

मगळ शासन नाथजी, मगळ गौतम स्वाम ।
 मगळ बाणीजिन तणी, बल्लीत सीजे काम ॥ १ ॥
 स्याद्वाद् गधीरता, जाणे पूर्वधार ।
 पचागी जीणने रची, खोल दीया सब तार ॥ २ ॥
 नबो पंथ प्रगट हुवो, माने सूत्र वतीस ।
 भोला लोको आगले पूरे मन जगास ॥ ३ ॥
 पूछधासे ती, इम कहे, प्रकरण टीका माय ।
 धीलता, बोलज को नहि, तीणसु मानो नाय ॥ ४ ॥
 तिण कारण नचि लखु, वतीस सुपका बोल ।
 विनया चागी दीजीये, मूल सूरथी खोल ॥ ५ ॥

॥ ढाल ॥

आदर जीव क्षमा गुण आदर । एदेशी ।
 मूल सूरथी उत्तर आपो, के करो पंचागी परमाणजी ॥ एटेक ॥
 सच्चावनसो कहा सपवायाग, मध्वी मनप्रजव जाणजी ।
 छड़े अगे कहा आठसो, आ जिनवरकी बाणीजी ॥ मू ॥ १ ॥
 गुणसठ सो कहा अवधीनाणी, सपवायांगरो छेखजी ।
 दोय सहस भद्वी जिनवरके, झाता सूत लो देखजी ॥ मू ॥ २ ॥
 झाता में कृश की राणी, वतीस सहसको मानजी ।
 सोला सहस कही ते देखो, ओ अन्तगढ़को झानजी ॥ मू ॥ ३ ॥
 च्यार झान केसी स्वामी के, रायपसेणी जोयजी ।
 तिन झान उत्तराध्ययन वोले, केसी स्वामी होयजी ॥ मू ॥ ४ ॥

विराधी पहले देवलोके, भगवतीमें वातजी ।
 ज्ञातामें गाइ ईसान देवी, आदुंद एक साथजी ॥मू॥५॥
 उववाइमें तप देखो, उत्कृष्टा जोतषी जायजी ।
 भगवतीमें, तां मली, तापस, ईसांण इंद्रेके हायजी ॥मू॥६॥
 उववाइ छडे देवलोके, जावे चोद पूर्वना धारजी ।
 कर्तिकशेष पहले देवलोके, भगवतीजीमें तारजी ॥मू॥७॥
 तीन करण योगथी टाले, श्रावक कर्मादानजी ।
 उपासकमें हल निवाडा, सगडाल आनंद गुणवानजी ॥मू॥८॥
 वेदनी कर्मकी वार मूर्हूर्त, जगन धिति पञ्चवण जाणजी ।
 तेहिज अंतर्मूर्हूर्त दाखी, उत्तराध्ययन की वाणजी ॥मू॥९॥
 भगवतीमें वाल मरणथी, बदे अनंत संसारजी ।
 ठाणायंगमें दो मरणकी, आज्ञा दी करतारजी ॥मू॥१०॥
 चौदे पूर्व महावल भण्यो, भगवती अहा देवलोकजी ।
 छट्ठाधी नीचे नहि जावे, उववाइ सुन् अबलोकजी ॥मू॥११॥
 लसण मांहे जीव अनंता, उत्तराध्ययनमें सारजी ।
 प्रतीक काय पञ्चवणा बोले, पंचागी लो धारजी ॥मू॥१२॥
 दोय भाषारी आज्ञा नहि, दश वीकालक जाणजी ।
 चार भाषा अलराढ़ी बोली, पञ्चवणाकी वाणजी ॥मू॥१३॥
 दश विकालक चित्रामकी नारी, नहिरे हे अणगारजी ।
 छायंग के पंचमे ठाणे, साधु आर्जीयां रेवे लारजी ॥मू॥१४॥
 रोग आयो औषद नहि करणो, उत्तराध्ययनमें लेखजी ।
 वीरगभुजी औषध कीनो, भगवती लो देखजी ॥मू॥१५॥
 दशैवकालिक भोजन करवो, एक भक्त को मानजी ।
 वीकिट भोजी तपसी साधु, ओ कल्पसुत्रको ज्ञानजी ॥मू॥१६॥

अल्पछत्रा जावे गोचरी, कल्पसुत्रमें जाणजी ।
 वर्षता चीलकुल नहि जावे दशविकालीक वाणीजी ॥मू॥१॥
 भगवतीमें अणसण कधी, कदाचित करे आहारजी ।
 घीजो सुत्रप्रत भग को, लागे दोष अपारजी ॥मू॥१८॥
 पन्नवणमें स्त्री रेदका, स्थितिका पच अदिशजी ।
 सर्वज्ञका मतमें किम चाले, पीण छे सुत्रनी रेसजी ॥मू॥१९॥
 राजपिंड साधु नहि लेवे, ठाणायागमें जाणजी ।
 देवकी बहेराया छे साधुने, अन्तगढकी वाणीजी ॥मू॥२०॥
 पचवीश जोजन उपद्रवनहि होवे, समवायांग अतीसय अर्धकारजी
 अभंग सेणीदी मुली चडीया, रिपाक सुत्र मुजारजी ॥मू॥२१॥
 दोय साधु समोसरण मांये, घालया गोतालो आणजी ।
 ठोहीठाण हुवो भगवत के, आ भगवतीनी वाणीजी ॥मू॥२२॥
 समवायागमें थावक केरा, चैस हुडीमें होयजी ।
 उपासक नुत्रमें देखो, पाठ न दीसे कोयजी ॥मू॥२३॥
 अल्प आयुषो ठाणायागजी, देदो खीलो आहारजी ।
 अल्प पापने रहु निंजरा, भगवती मुत्र मझारजी ॥मू॥२४॥
 पच महानदी नदी उतरणी, ठाणायागरो लेखजी ।
 मार्ग जाता नदी उतरे, आचाराग लो देखजी ॥मू॥२५॥
 चोपासामें विहार नहि करणो, वृद्ध कल्पकी साखजी ।
 पचमें ठाणे विहार ऊरणा को, वितराग गथा भास्त्रीजी ॥मू॥२६॥
 त्रिपिथे २ इसा नहि करणो, आचाराग दसवि काढजी ।
 नदि उतरे नावे बेटे, आचारागमें भास्त्रीजी ॥मू॥२७॥
 कल्पमूत्र साधु, वर साले रिगे नहि लेवे वारमवारजी ।
 सुयगडागमें निषेध झीनो, नहि देवे अणारजी ॥मू॥२८॥

सचित्त मिश्र वस्तु नहि खाणी, दश विकालिक जाणजी ।
 आचारंगमें लुण खावणकी, आ जीनवरकी आणजी ॥मू॥२९॥
 भगवती सुत्रमें देखो, निवडो तिखो होयजी ।
 कडवो कहो अध्ययन चोत्तिसे, उत्तराध्येन लो जोयजी ॥मू॥३०॥
 जुठ बोलवारा त्यागज कीना, दशविकालिक जाणजी ।
 आचारंग 'मृगादिक' तांइ, जुठ बोले दया आणजी ॥मू॥३१॥
 समवायांग तेइस तीर्थकर, सूर्य उगो केवळ ज्ञानजी ।
 नेमिश्वर पाछले पोहरे, दशाश्रुत स्कंथ पीछणजी ॥मू॥३२॥
 सूर्य उगतां ज्ञान उपनो, तेव्रीश तीर्थकर जाणजी ।
 पाछले पोहरे मल्ही जीनवर, ए ज्ञातासूत्रकी वाणजी ॥मू॥३३॥
 दश प्रकारे वैयावच्च बोली, उववाइमें लेखजी ।
 हरकेसीकी वैयावच्च करतां, जक्ष ब्राह्मण हणीया देखनी ॥मू॥३४॥
 प्राणभूत जीव सन्त्वने, दुःख नहि देणो कोयजी ।
 प्रत्यक्ष मांहे ब्राह्मणहणीया, वैयावच्चकीणविध होयजी ॥मू॥३५॥
 ठाणायंगे मल्ही जीनवर, दिक्षा लिवी जीणा सातजी ।
 छसो जीण साते निकल्पा, आ ज्ञातासुत्र की वातजी ॥मू॥३६॥
 मल्ही जीनने केवळ उपनो, पछी गंत्री दीक्षा जाणजी ।
 सात जीण साथे दीक्षा, आ ठाणायंगकी वाणजी ॥मू॥३७॥
 पसु पंडिग रहित होसेज्जा, उत्तराध्ययन रहे अगगारजी
 साधु साध्वी भेला रहे, ठाणायंग सुत्र मंजारजी ॥मू॥३८॥
 निषेद प्रशंसा नहि करणी, सुयगडांग सावद्य दानजी ।
 एकांत पाप कहो जीनवरजी, आ भगवती को ज्ञानजी ॥मू॥३९॥
 नन्दन वन पांचसो योजनको, जंबुद्विप पन्नति वायजी ।
 बळकुठ शहस जोजनको तेमे केम समायजी ॥मू॥४०॥

पाचसो जोजनकी चोढादा रव्या, गजदता दोर्य जाणनी ।
 उपरकुट शहस जोजनको, जंगुद्विप पन्नति वखाणजी ॥मु॥४१॥
 रूभ कुटको पहेला पणी, आठ जोजनको मुलजी ।
 पाठतर चार जोजनको, जंगुद्विप पन्नति सु मूलजी ॥मु॥४२॥
 अर्द्ध भरतकी जीवा दाखी, जंगुद्विप पन्नति मजारजी ।
 नव सहस सातसो अडतालीश, चारा कला विचारजी ॥मु॥४३॥
 चोथे ओगे तेहीज जीवा, नव हजारको मानजी ।
 पंचागी बना ते कीम जाणे, हिरदे आणो झानजी ॥मु॥४४॥
 चोथे ओगे जगन थिति, चत्तीस सागर बीजे वीमाणजी ।
 पन्नबणमे ईगतीस सागर, जघन थिति परमाणजी ॥मु॥४५॥
 रूभ बीरके बीचे समवायाग, अतरो कोडा कोड एकजी ।
 बयालीस सहसर्वे छे उणा, जंगुद्विप पन्नति लो देखनी ॥मु॥४६॥
 साधु आधा कर्मी आहार भोगवे, सुयगडाग बोले एमजी ।
 कर्मीथी लेपे नहि लेपे, दो बता मीले केमजी ॥मु॥४७॥
 भगवती सुरेम देखो, आधाकर्मी अधिकारजी ।
 चउगतीको कर्यो पोवणी, रुले वहुत ससारजी ॥मु॥४८॥
 उणो सहस तेसीस मूर्य, चक्र फर्सेचोथे अंगजी ।
 चत्तीस सहस एक जोजन जाजे, जंगुद्विप पन्नति चगनी ॥मु॥४९॥
 सतक आठ उदेसो दशमी, भगवती अग पेलाणजी ।
 पोगले पोगाली कयो जीवने, तेहनो सु परमाणजी ॥मु॥५०॥
 सोला नाम मेरुका चाल्या, मप्रवायागमे जोयजी ।
 आठमो प्रियदर्शन दारयो, चाँदमो उत्तर होयजी ॥मु॥५१॥
 तियाहीज जंगुद्विप पन्नति, मेरुका सोला नामजी ।
 आठमो सलोचय चाँदमो उत्तम, ओपचागीको कामजी ॥मु॥५२॥

अण आहारी दोसमा थीति, पन्नवण पीछाणजी ।

तीन समा भगवती वोले, आजीनवरकी आणजी ॥मू॥५३॥

चर्म तीर्थकर कल्पसुत्रे, वेयालीस वर्ष दिक्षा संगजी ।

वायालीस वर्ष जाजेरा, देखो चोथो अंगजी ॥मू॥५४॥

जीवा भिगम रुचक द्विपको, कहो असंख्यानो मानजी ।

ठाम दुणो संख्यातो आवे, जोवो जीनवरको ज्ञानजी ॥मू॥५५॥

मेरु कंड अडतीस सहसको, समवायांगमें होयजी ।

तेहिज छत्तीस सहस वतायो, जंबुद्विप पन्नति जोयजी ॥मू॥५६॥

इगसठ संहस जोजनको जाणे, समवायांग दुजौ कांडजी ।

तेसठ हजार जोजनको देखो, जंबुद्विप पन्नतिमांडजी ॥मू॥५७॥

नव हजार नवसो जोजनको, नन्दनवन चोथो अंगजी ।

चौपन जोजन जाजेरो दाख्यो, जोवो पंचमे उपांगजी ॥मू॥५८॥

दशमे अंगे वत्तीसइद्र, अडतालीश पांचमे उपांगजी ।

चौष्ट कहा दुजेठाणे, देखो तीजे अंगजी ॥मू॥५९॥

सिद्धांकी अवगणा उववाइ, वत्तीस अंगुलको मानजी ।

जगन्य सात हाथको सीद्धे, ओ भगवतीको ज्ञानजी ॥मू॥६०॥

सीद्ध सलिलाथी उणो जोजन, सीद्ध सेत्र भगवती जाणजी

उववाइमे पुरो जोजन, करो पंचागी परमाणजी ॥मू॥६१॥

छहनिरकका मध्य भागसु, धणोदधिनो चरमांतजी ।

गुर्जीयासी सहस्रसमवायांग वोले, श्री जीनवाणी सत्यजी ॥मू॥६२॥

जिवाभिगम गिणती करतां, इठितर सहस्रजोजन परमाणजी ।

पंचागी विनते किम जाणो, हिरदे आणो नाणजी ॥मू॥६३॥

रेवंतिथी जेष्टातांइ, तारा अट्टाणु होयजी ।

गीणती करतां सत्ताणु आवे, समवायांगलो जोयजी ॥मू॥६४॥

नव जोजन धार्णेंद्रि विषे, पन्नवणामे जाणजी ।
 द्व्यार पांचसो जोजन दाखी, दुजे उपाग परमाणजी ॥मु॥६५॥
 भगवतीमें पलकालको, कुवा तणो कहो मानजी ।
 तेथी फर्क घणेरो दिसे, अणुयोग द्वारको ज्ञानजी ॥मु॥६६॥
 असुर अवधि ज्ञान जग नथी, पचीस जोजन चोथे उपागजी ।
 अगुल भाग असख्यो दाख्यो, देव सुधर्मा चगजी ॥मु॥६७॥
 वादर तेड मनुष्य लोकमे, पन्नवणा पेऊणजी ।
 देखो अग्नि कही नरकमें उत्तराध्ययन ओगणीसमे जाणजी ॥मु॥६८॥
 शोरीपुरमें नेमीनाथजी, कद्या, उत्तराध्ययन मजारजी ।
 दिसा लेतो कहि द्वारका, मुळथी काढो सारजी ॥मु॥६९॥
 शोरीपुर पूर्वमें जाणो, द्वारका पश्चिम दिस जाणजी ।
 राम कुश बदण कर चाल्या, आ जीनवरकी बाणजी ॥मु॥७०॥
 सात कुलधरका नाम बताया, ठाणांयग ठाणौ सातजी ।
 दश कुलधरक कद्या दशमे ठाणे, मुलथी मेलौ वातजी ॥मु॥७१॥
 तिहीज आवती उसपणी जाणे, कुलधरको अधिकारजी ।
 सातमे दशमे ठाणो देखो, उपरवत् विचारजी ॥मु॥७२॥
 सुधर्म इशा कहो वरोऽस, जिवाभिगम जोयजी ।
 भगवती सूत्रमे देखो, इशान उचो होयजी ॥मु॥७३॥
 तिर्छी गति कही असुरकी, नदीश्वर दीप मजारजी ।
 गजयानी असरया दीपे, भगवती अग विचारजी ॥मु॥७४॥
 मादावेदना, समद्रष्टी, नेरीया, पहेले सतके थायजी ।
 सतक अठोरे उदेशो पाचमी, अल्प वेदना कहेचायजी ॥मु॥७५॥
 वारमो तीर्थकर कहो कुशने, अतगढ अधीकारजी ।
 जिनवर होसी तेरमो देखो, समवायांग सूत्र मोजारजी ॥मु॥७६॥

मनुष्य तिर्यचको काल वेक्र, अंतर्मूहूर्त पांचमे अंगजी ।
 भीन्नमूहूर्त च्चार बताया, जोवो तीजे उपांगजी ॥मु॥७७॥
 जगन्न अरादी रत्न त्रीयकौ, नव करे सत अठजी ।
 नर देवे उत्कृष्टो रेवे, अद्ध पुदगल मठजी ॥मु॥७८॥
 भगवतीमें निद्रा लेतो, सात आठ वंदे कर्मजी ।
 तीजा पहोरे निद्रा लेणी, उत्तराध्ययनमें मर्मजी ॥मु॥७९॥
 असंवेणी कहा नेरीया, जोवो तीजे उपांगजी ।
 उत्तराध्ययन सुयगडांग देखो, मांस खपावे करे तंगजी ॥मु॥८०॥
 दिव्य संधेणी क्या देवता, लेवो पन्नवणा देखजी ।
 असंवेणी जाणो देवता, जीवाभिगम को लेखजी ॥मु॥८१॥
 भगवती असन्नी मनुष्यको, अडतालीस मूहूर्त अवठीया कालजी।
 चोवीस मोहूर्तको, वीहरो, बतायो, पन्नवणामें नाढजी ॥मु॥८२॥
 ब्रह्म कल्प विमण ठाणायंग, रक्त स्वर्यम नीलवर्ण जाणजी ।
 रेक्त पेत मुकल बतायौ, जीवाभिगम पिछाणजी ॥मु॥८३॥
 समवायांग भगवती माँहे, शक्र स्तवन अर्धीकारजी ।
 दोनु पाठमे फर्कंज दीसे, पंचागी लो धारजी ॥मु॥८४॥
 पांचसो तीस भेद बताया, पुद्धल पन्नवणा लेखजी ।
 चारसो व्यासी दाख्या जीनवर, उत्तराध्ययन लो देखजी ॥मु॥८५॥
 जघन कलमेषी, सुर्धम, जावे, पन्नवणा की बायजी ।
 भगवती सुत्रमे देखो, भूवन पतीमें जायजी ॥मु॥८६॥
 सारण करतो में नहि जाणुं, कल्प सूत्र परमाणजी ।
 आचारंगमें कहेमे जाणुं, आ वीर जीणदक्की बाणजी ॥मु॥८७॥
 पहेला देवने पछे मनुष्यने, धर्म कहो जगनायजी ।
 अछामे वाणी निष्फळ, मेलो मुलके साथजी ॥मु॥८८॥

योग वर्तायो हिंसा हुवे, भगवतीमें वातजी ।
 आङ्गादि सुभ योगकी प्रभु, मेलो उवगाइ सातजी ॥मु॥८९॥
 चारा ब्रत लेसु इम बोल्यो, आणद उपासक जोयजी ।
 आठवृत उचरीया जाणी, अतिचार वारेका होयजी ॥मु॥९०॥
 वनम्पति सधटो नहि करणो, भगवतीमे लेखजी ।
 शाड पकड खाडासु नीकले, आचारग लो देखजी ॥मु॥९१॥
 समय यात्र प्रमाद न करणो, उत्तराध्ययन दशमे जाणजी ।
 तीजी पेहेरे निद्रा लेणी, छावीसमे अध्ययन परमाणजी ॥मु॥९२॥
 गृहस्तीने कठण नहि बोले, निशीथ सूत्रमें लेखजी ।
 केसी कहे मुढ तुच्छ प्रदशी, रायपसेणी लो देखजी ॥मु॥९३॥
 निसाथमे साहुने वरज्यो, कोइ चीज देखवा जायजी ।
 विषाक गौतम मृगा लौडी, देखो जीनवर भायजी ॥मु॥९४॥
 गृहस्तीसे प्रचो नहि करणो, दश विकालीक जाणजी ।
 गौतम अगुली पकडी अमतौ, आ अतगढकी वाणजी ॥मु॥९५॥
 उ पुरुष सातमी खी, अंतगड अर्जुन जाणजी ।
 पुरुष सातमो ते कही स्ती, प्रगट पाठ परमाणजी ॥मु॥९६॥
 इत्यादि वहु बोलवालीया, मूलसूत्रमें नालजी ।
 स्याद्रादकी सेली विना, तेकिम जाणे वालजी ॥मु॥९७॥
 जो नहि माने ते पंचागी, तासु कहीये तेमनी ।
 मूल पाठथी उत्तर आपो, जब बोले पाधरा एपजी ॥मु॥९८॥
 परमपरा न बले धारणा, टवा अर्थमे जोयजी ।
 मत यक्षारा चाला सुणतो, आर्थर्ष उपजे मोयजी ॥मु॥९९॥
 लुकाजी पञ्चुरी करता, चौरीसे उलटो ज्ञानजी ।
 परपरा हुमे केहनी चालो, हिरदे आणो ज्ञानजी ॥मु॥१००॥
 टवा बालो हेला पाडे, में कीयो टीका अनुसारजी ।

टबो माने टीका नहि माने, वे हुवे हुवावण हारजी॥मू॥१०१॥
 भद्रवाहु स्वामी वृत्ति कीनी, ते वहु कठण जाणजी ।
 तेनी सुगम करी आचारज, ते वृत्ति परमाणजी ॥मू॥१०२॥
 वादी कहे वातो पंचागी, गइ कालमें वीतजी ।
 नवी रची आचारज ज्यारी, कीम आवे प्रतीनजी ॥मू॥१०३॥
 सुत्र रहा “निर्युक्ति” वीती, तेहना सुपरमाणजी ।
 आचारज रच्या नहि मानो, आगो सुणजो वाणजी॥मू॥१०४॥
 तीन छेद भद्रवाहु रच्या, पनवणा श्यमाचारजी ।
 देवद्वी गणीजी नंदी वणाइ, दश विकालीक सजंभव गण-
 धारजी ॥मू॥१०५॥

धर्म धूरंधर पुर्व धारी, टीका करतां जाणजी ।
 काम पेंडे जद बोल चालको, सरणां लेवो आणजी ॥मू॥१०६॥
 जैनी नाम धरावे फोगट, जिन आगमथी दूरजी ।
 तेहिज भाची पंडत भाजो, कृतश्चीने कुरजी ॥मू॥१०७॥
 मुल सहीत पंचागी मानो, दो वहु आदर मानजी ।
 स्याद्वादकी शैली समाजो लो गुरु गमशे ज्ञानजी ॥मू॥१०८॥

॥ कल्स ॥

नाभि रायकुल वंसभुसण, मारुदेवा मायजी ।

“अष्टपद” पर आप सिध्या, गयवर प्रणमे पायजी ॥
 एकादशी अषाढ मुकल, उगणीश वहुत्तर सालजी ।
 देस मरुधर गाँव तिवरी, प्रभु जोडी प्रश्नमालजी ॥१॥

॥ इति श्री प्रश्नमाला संपूर्ण ॥

इन प्रश्नोंका उत्तर ३२ सुत्र मानणेवाला (दुँडीया या तेरापन्थी) दोनु एक मासके अंदर प्रगट करे ताके आपके अंध सरद्धालु मत पक्षीयां के मीथ्यात्वका नसा फोरन् उत्तर के ४ समक्षि रत्नकी प्राप्ति हो अस्तु.



८ वी

दादा गुरुदेव पूजा ।

उपाध्याय प्राणाचार्य युक्तिमारिविः
श्रीरामलालजी गणि。
सकूलित ।

धपा के प्रसिद्धरूपी शिष्य प० श्रीनेमचंड मुनि ,
प० श्रीप्रेमचंद्र मुनि , विद्याशाला,
श्रीविनाननेर, राजपूताना ।

राम हृषि स्वामी ।

वीर स० २४६६-पिकम स० १६७६
आवृत्ति दूसरी १०००

प्रन वर्मना पगिडत ओङ्कारदत्त शास्त्री के प्रनाथ से
आयुर्वेद भूषण श्रीमान् प० जीवनगमजी हर्ष के
श्रीकेवल जीवनानन्द प्रेम वीकानेर
मे मुद्रित ।

पुस्तक मिलाद या थान
श्रीविनाननेर राजपूताना मोहल्ला रामडी,
उपाध्याय श्रीरामलालजी की निदाशाला ।

भूमिका ।

मालुम हो तां १७ व-१८ ईस्वी को जैन नाम के ग्रन्थमार्ग में गुरन्त्रे की महिमा को असद्यमान दो पुरुषों के नाम से १२ आनेप रूप प्रश्न प्रगट करे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर स्वबुद्धयानुसार यहां प्रगट करना उचित समझ कर, करा है। प्रश्नों का नवर क्रम नहीं लिखा केवल समुच्चय उत्तर लिख दिया है।

जिनत्व सूरीधर के देवलोक हुये पीछे खरतर गण्ड का श्रीसध अत्यन्त उदाम हुआ उस समय बडगच्छ नायक श्री देवभद्रसूरि देवता ने सीमधर स्वामी को बदन कर प्रश्न पूछा, हे प्रभु खरतर गणपति ! जिनत्व सूरि कौन गति में गये और कितने भव ससार में करेंगे । तब सीमधर तीर्थकर ने कही दो गाथा उस का परमार्थ ऐसा है, जिन-दत्तसूरि सौधर्म देवलोक के टक विमान में चारपल्य की स्थिति धरम-हर्दिक देव हुये हैं वहां से च्यवकर महविहेह में मनुप्यावतार में सर्वज्ञ सर्व दर्शी मुक्ति पद पावेंगे । वे दो गाथा देवभद्रसूरि देवता ने अजय-मेरु नगर में खरतर श्रीसध को प्रगट होकर दी और सीमधर स्वामी के बचन श्रवण कराये तब से श्रीसध भक्त श्रावकर्वग नगर २ प्रति स्थापना कर द्रव्य भाव से पूजा करने लगे । दादा गुरु देव की, दादा की मूर्त्ति फ़ाचित् है प्राय चग्ण स्थापना है । मुक्ट कुडल गुरुदेव भी प्रतिमा को भावी जिन मानमर पहनते हैं यथा वर्चमान जिन बदन पूजा योग्य हैं तैमे ही आगामी जिन भी बदनपूजनयोग्य जैनागम सम्मत हैं । भेवाइ उदयपुर में आगामी जिन पद्मनाभ स्नामी की प्रतिमा वा वर्चमान निायन पूजा पर्णे हमो ग्रन्थ भेजा है, शक्ता हो तो तेज-

लेना। गौतमादि गणवरों की मूर्तिं को भी गुकट कुंडल भार्मडल व्यन्नादि श्रावक वर्ग आरोपण करते हैं। तैसे ही गणधर मुक्तिगामी दादा गुरु देव को भी आरोपण करते हैं।

२. अंबड श्रावक के देवी ने हथेली में सुवर्ण अङ्गर लिख कर कहा था जिसके बास क्षेप से ये अङ्गर पढ़े जावे उस कँ युग प्रधानाचार्य जानना। वह श्रीजिनदत्तसूरि के बासक्षेप से हुआ विक्रम सम्बत् वारेसै इन्धारे में आप देवलोक हुये। आंचल समुद्राय वारेसे तेरह में प्राट हुई। हेमचंद्राचार्य उस समय पर्यत प्रसिद्धता नहीं पाई थी इसलिये उन्हों की कोई अवज्ञा देवी ने नहीं करी, स्वर्ण पत्र देवी ने नहीं लिखा था।

३. मुलतान नगर में आचार्य पद का प्रत्यनीक अंबड वणिक् साहंकार वाक्य जिनदत्तसूरिजी को कहा तब निमित्त द्वारा भावी फल गुरु देवने उस को कहा यथा गोसाले को वीर प्रभू ने कहा था हे गोसाला तूं सातवें दिन अमुक रोग से मरण पावेगा पुनः निमित्त प्रभावीक भद्रवाहू स्वामी ने राजा के पुत्र की सातवें दिन विलाड़ी से मृत्यु कही। कालिकाचार्य जी ने दत्त प्रोहित के मुख में विष्टा गिरेगी पीछे सातवें दिन मृत्यु कही। यदि इस को श्राप माने उस की रुचि। गुरुदेव शुद्धचारित्र धर सम दृष्टि थे। किसी का भी विगाड़ नहीं करा है।

४. श्रीजिनदत्तसूरि विजलीगिरी को पात्र के नीचे दबाया और बरदान लेकर छोड़ दिया। जैन आगमानुसार विजली की अधिष्ठाइका देवी है उस से बरदान लिया था। सायन्स में विजली कुछ वस्तु नहीं यह भी प्रत्यक्षपनें असत्य है विद्युत्सार लोहा होता है जिस को मकानों पर विद्युत् भय से बचाने लगाते देखा है। हाथ कंगणको आरसी क्या। जिनदत्त दादा नाम लेने से उस स्थान कदापि विजली नहीं गिरती है। यदि प्रश्नकर्ता जैन शास्त्रोक्त सर्व पदार्थों को

सायन्स द्वारा सिद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो तो सूचित करे तो वे वार्तायें प्रगट कर देंगे। जैन धर्म को तो जैन शास्त्रोक्त पदार्थ सत्य मानने से ही सद्वर्णन है, अन्यथा मिथ्यात्म है।

५ भरु अच्छ नगर में मुसलमान नबाब के पुत्र को परकाय प्रवेश विद्या से ६ मास पर्यंत जीवित तुल्य कर दिया था, निज जीव द्वारा नहीं जीया था। आत्मारामजी तपगष्ठ के साधू ने पाल्हणपुर प्रश्नोत्तर में लिखा है। सिद्धसेन दिवाकर ने उज्जयण के बन् समगत विद्या पुस्तक निकाल दो विद्या सीरी फेर देवता ने हाथ स्तमित कर कहा बस बद करो तुमरे भाग्य में ये दो ही विद्या भी अन्य ये सर्व विद्या जिनदर्शसूरि जी को प्राप्त होगी। वह विद्या पुस्तक दादा साहन को प्राप्त हुई थी। वह सर्व सफल हो गई थी। पुन अत्यन्त आत्मबल से ५२ वीर चौसठ योगनी पचपीर जिनों की सेवा करते थे। परकाय प्रवेश विद्या को अन्य दर्शनी भी प्रमाण करते हैं। मेसमेरिजम विद्या योग सिद्धि द्वारा दृष्टिपास, हस्तपासकर, पर को मूर्च्छित कर उस को अनेक वार्तायें पूछते हैं मूर्च्छित जो कहता है वह सर्व सत्य होता है उच्च मेसमेरिजम कर्ची व्यतरो का अद्वान मूर्च्छित में कर देता है ये विद्या इम समय प्रत्यन्त है। आत्मारामजी जैनतत्वादर्श में अमेरिका की विद्या मेरे को बुलाकर इरा समय चात करा देते हैं ऐमा लिखते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र की वृत्ति में लेख है एक साधु मर कर देव हुआ लघु शिष्य की पालना को म्यमृतक शरीर में प्रवेश कर उस को गुरनत् शिक्षा और देवमाया से आदार देता रहा, यह मरा केसे जीता हुआ इसलिये दादा साहन मृतक को परमेश्वर विद्या द्वारा कुछ अवधि पर्यंत जीवित दिखाया इस में शरा क्यों घरते हैं। देव शक्ति तो अनेक सिद्धि हो सकती है। गृहक तुल्य ग्रामान्ति चेष्टा रहिन सन्यास रोगियों पर्यंत पुन सचेतन दर देते हैं। निन दाना गुरु ने नाहर राव पडिहार के ग्रतान ता कुष्ट

मिटाया जिन की १२ मास समाप्त श्रावक इन समय विद्यमान है। कुरुक्षेत्र, चोपड़ा, गांगरिया आदि गुलनाम एवं गहरायमंडी आर्जनाह मूलपन मंडेश्वरी का पुत्र यांप भागा गृही में गाँड़ को निरुलया गर्वीविन करा जिन अलूगिया गोव्र लग्नर श्रावक विद्यमान है। इस प्रकार एक लघु तीन सहन धरे राजन्य धैश्य ब्राह्मणादि उचम कुलभागियों एवं आनन्दन द्वाग आपदा दूरकर मिथ्यात्व कुड़ाय मूलपन गन्ध में श्रावक होते। प्रत्यक्ष है। प्रनाम की आवश्यकता नहीं। गगार्गों की मूर्ति भवनजन हमेशा से भरते जाने आये हैं। प्रधकर्ता, देवशिल्पी अमरा की मूर्ति सेम-चन्द्राचार्य की मूर्ति एक मूर्ति लिल्ला है। यदि मूर्ति है तब तो श्रावक अवश्य उस की दृश्य भाव द्वारा पूजा करने से होंगे तो आचार्य पद की पूजा करणी, स्थापना करणी, मृत्यु: भिद्ध हो गई। दादा गुरुदेव तो भावी जिन हैं और मिथ्यात्व कुड़ाने वाले होये, वह तो विशेषतया संघ के पूजनीय हो, इस में आश्चर्य ही क्या, व्यंद स्तवन पूजा में विशेष परचा विद्यमान समय का श्रीजिनदत्तसूरीधर का ही लिखा है जिनदत्तसूरि: के पटोधर मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि: हुये। पृथ्वीराज चौहान अत मंड-लेश्वर इनों का परम भक्त था फेर यवन गजनी से आया सहावुद्दीन इस का सुख्य मंत्री कुतवुदीन ऐक जिस को मोहम्मद गोरी गजनी से दिल्ली तखत का वादशाह पद दिया ये तीनों जिनचन्द्रसूरी के भक्त हुये। राजन्य वंशियों को प्रतिवोध कर्द श्रावक किये, इनों के चौथे पट्ठ दादा श्रीजिन-कुशलसूरि: हुये। जिन्हों ने आत्मवल द्वारा अनेक आपदायें मेटकर पचास सहस्र राजन्य वंशियों को प्रतिवोध दे खरतर गच्छ के श्रावक किये। विद्यमान समय गूजरमल्ल बोहित्थरा की छावती हुई जिहाज को तारी। अस्मावस क्रो देवलोक हुये पूनम को प्रत्यक्ष हो संघ को प्रगट दर्शन दिया। एकमनध्याता भवत जनों के संकट में सहायकारी, वंदितपूरक हज़रा हज़र देव है। वीकाणनाथ राजा सुजाणसिंहजी को अरिभय मिटाने प्रगट दर्शन दिया। सांगासाह प्रमुख अनेक भक्त जीवों को

प्रगट तर्जन दिया, आग ढेते हैं सुजागणभृत नगपती ने गुरु परचे से आभारी हो नारा गाव में शाला कराई घट प्रियमान है ताना माहूर के रत्न के समीप ।

६ इहों के पाटापुमाट जिनगणित्यनूरि के पहुँच प्रभासर भृत्य घट के उत्तरो में धर्म के उदय कर्ता श्रीजिनच द्रसूरि अरनर चान्शाह के भमकालीं विक्रम सोले शताव्दी में हुये जिनों के उपनेश छारा अकनर दया धर्म धारण करा । इहोंने काजी की टोपी आकाशगिथत के प्रश्नवर्ती लिखता है हेमचान्द्राचार्य ने चाद्र उन्न्य करा । चरित्र में लिखा है तो क्या हेमाचार्य ने चाद्रोदय करने का टेका लेलिया था कि मेरे सिवाय आय कोई चाद्रोन्य करने की विद्या सिद्ध होई नहीं सरेगा जिन से ऐसी कम्भमी प्रश्नकर्ता के मन में उत्तन हुई जैसा हेमाचार्य पा चरित्र उनों के रातानियों ने लिखा है वैसे ही जिनचान्द्रनूरि का चरित्र उनों के पार्श्ववर्ती प्रश्नप्रश्न समय मुद्रगणि ने लिखा है । वह उम समय लाठौर में सग थे, अमाद मुदि नवमी से पूर्णमासी पर्यंत भारत में फोइ जीव मारा नहीं जावे पेमा परमान बांदेसाह अकनर ने जिनचन्द्रनूरि को लिख दिया । गम्भायत में मर्दाना न मारी जावे । मिट्टनूरि को आचार्य पद अपने गम्भुन गुरु से दिलाया । इम दया के परमान का जिकर मेजर जनरल गम्जान मानसम फी लिमी भेमायर आक से डूल इडिया पुनर दो जिल्ह म है उम की दृग्मी जिल्ह म है । उज्ज्वल के जैन मन्दिर में परमान का शिल्पा लेन प्रियमान है ।

७ प्रश्नकर्ता निरना है इनिहाँमें धर्दी भा दाना माहूर के परगों का लेम ऐसने में नहीं आया । अन्य तर्जनी जैन धर्मियों का दृग्माम यथो जिमने थे, इनिहाँमें नो नीर्धम्गे ए ३४ अनिश्चय

८ प्रतिहार्य दृप्. गुणवाणी के भी लेन्व अन्य दर्शनियों ने कही भी नहीं लिखा है तो क्याँ जैन शान्त का लेन्व अमंतव्य हो सकता है, कदापि नहीं।

जैसे अकबर ने पूछा हीरविजयसूरिः को, चंगहो जिम ३ अन्नर में हीर सौभाग्यकाव्य तपगच्छियों ने रच लिया है। यदि वह सत्य है तो खरतरगच्छवालों ने जो जो अपने पूर्वाचार्यों का सत्य इतिहास गुर्वावली आदि ग्रन्थों में लिखा है वह असत्य कैसे हो सकता है। प्रमाणीक आत्मार्थी कदापि असत्य नहीं लिखते।

९. प्रधकर्ता अंग्रेज सरकार के राज्य होने से महादुःखी हो एक प्रश्न लिखा है। दादा साहब ने पासे एक अंग्रेज आच्यो इत्यादि, चार दादा साहब के विद्यमान समय कोई भी अंग्रेज आया ऐसा लेख कही भी नहीं लिखा है। प्रमाणीक उपाध्याय के मुख की मुण्डी वार्ता पूजा में लिखी गई है। विक्रम उगणीसशय चौदे के संवत्सर में कालों की शेन्या ने अत्याचार प्रारंभ करा। लखनेऊ नगर में तब लखनेऊ का चौक सरकार ने तोड़ा डाला। देव स्थान तोड़ने का हुक्म हुवा तब भवरी आदि साह लोकों ने दरखास्त की। सरकार, दादा साहब आदि के देवस्थान नहीं तोड़े जावें अंग्रेज दादा साहब के वर्गीचे में गया और चरण स्थापना सन्मुख चित्त में विचारा हे देव ये उपद्रव बंध हो हमारा अधिकार हो यदि तूं सच्चा है तो बता दे। उस समय स्तूप में से देव वाणी हुई बंध होकर सर्व आपत्ति, तुमारा शांतिमय राज्याधिकार होगा वैसे ही हुआ। जिस अंग्रेज सरकार के राज्य होने से सर्व शांति हुई लड़ाई युद्धादि, राजाओं के परस्पर बंध होगये एक राजा एक के पास जाने लगे प्रेमानुभाव प्रगटा डेकेत लुटेरे धातकों का प्रचार बंध हुआ विद्या वृद्धि हुई च्यापार वृद्धि से धन की वृद्धि रेल तार अग्नि बोट, पोष्ट इत्यादि अनेक साधन प्रजा के सुखार्थ प्रगट हुये सड़कें जल की तंगी सर्वत्र मिटादी


फोर्ड भी किसी के धर्म में अत्याचार नहीं हर मक्ता देव स्थान तोड़ नहीं सकता इत्यादि ।

हिंमा तो हिन्दू राज्य में भी सर्वत्र वध नहीं थी वैदिक यज्ञ में पशु हिंसा होती थी श्रेणिक धीर प्रभू ना परम भगवत् मास भक्तो मध्य पानी था कालिक सूरिये चडाल की पाचसे दुरान राजगृही में लिखी है, पाचमे भैसे नित्य मार बेचता था लिखा है । जाता सूर में द्वोपदो के स्वयंवर में मास मटिरा मगाई केर्ह राजा भक्तक थे तभी तो लिखा है नेमतीथंकर के व्याट समय अनेक जीव मगाये थे यादव भक्तक थे केहयक, तभी तो मगाया होगा गऊ आदि पशुगण नो मारने से आर्ग प्रजा घृत दूध दहो की महाधाई के सबब दीन हीन हो गही है, ये दु न मिटाए न्यायवत् सरकार के आधीन हैं, खून करना सर्व शास्त्रों में मना है ।

उम तो अत करण से आर्गीचाँद देते हैं जैसा याय द्वाग गाति मय राज्य अमेन सरकार ने प्रथम से प्रवर्चीया वट सर्वदा राज्य शासन अखडित रहे ।

ये भद्रगुरु पूजा करने कराने वालों को सर्वदा फल्याणकारी होय ।

इस्ताघर उपाध्याय श्री रामश्रद्धिसार गणिः ।



सूचीपत्र ।

— — —

रक्षसमुच्चय—इसमें जिन धर्मों सरतरगच्छ तपगच्छ का सर्वधर्म कर्तव्य अनेक रक्षाओं का सागर है

६)

जैन शास्त्रानुसार वैद्यदीपक—ये वैद्यक का अद्भुत प्रम्थ शृणि अनादि (१) शारीर आहृति का निरूपण (२) वाणु जल अन्न फल दूध दहि घृतादिक के गुणानुवाद (३) रोग होने के निकट कारण, दूर कारण सर्व विवेचन (४) श्रीपथियों के गुणयोग, निघट विवेचन, अप्रेजी ओपथि, यूनानी ओपथि, होमियोपेथिरु, जल से रग रोसनी से रोग निवृत्ति करण क्रमोपर्थी आदि त्रिशेष विवेचन (५) रोगों की परीक्षा वैशी प्रतिकार, अप्रेजी प्रतिकार, यूनानी होमियोपेथिक प्रतिकार, पथ्य कुपथ्य विवेचन, ऊरोग वालरोग पशुरोग सब परीक्षा प्रतिकार, जगम स्थावर विष प्रतिकार सधलता प्राप्ति प्रतीकार इत्यादि (६) प्रकाश में अनेकानेक अनुभवी लेख हैं स्वात्मरक्षा पररक्षा से परोपगार, यदि उन्नार्थी पने इन ध्रुवका अवलोकन धारन करे तो विजयी वैद्य था यश पाये

५)

महाजन मुक्तावली—इसमें अध्यवति राजन्यवशी पुन वैश्य वण्ठपत्ति, क्षत्री, व्राह्मण, शद्रादि उत्पत्ति आदि अनक विवेचन करा है, पुनरावृत्ति में कई वातोंव उपयोगी लिखी गई हैं

६)

मिदु मूर्ति (भाग प्रथम)

७)

“ “ (भाग द्वितीय)”—इस में ३२ सूत पाठों रे मूर्ति पूज मिदु दशाएँ हैं

८)

धन कमाले का ग्रहस्थ विवहार	१।)
खरतरगच्छ की ३२ गायन घृजा	२।)
१६ चालवय—पासा डाल देखणे तो शकुनदली मन चितिन बात का जबाब देनी है, जैन स्वरोदय, भारा			III)
शकुन शास्त्र जिन दस्तऐरिचित—दुपर्णे, चौपत्तो के शुभ अनुरा फल, छुंक का, अंग फरकलन का, गिलरी गिरने का, सब वस्तु की तेजी मन्दी देखने का, मकान के नीचे में से निकलती वस्तु का, राजिने का १२४ दोहा	III)
मुख विलाश—(२२ टोलों का बनाया भया) इसमें अनेक चीजों का संग्रह, धैराश के पद	१।)
पांच प्रतिक्रिया—तथा १६ ल्तोत्र, भाषाटवार्षी	२।)
पंच प्रतिक्रिया—विधि मुहूर मूल	१।।)
कर्पूर चक्र—स्वप्न, सासुद्रक, दुनिया की सैर, दर महीने सब वस्तु की तेजी मन्दी निकालने का, अजमाया			।।)
दादाजी के स्तवन—१४४ आष्टक छन्ददि छपता है	१।।)
सब पुन्तके मिलने का पता—			
उपाध्याय श्री रामलालजी गणिः—मोहला रांघडी, विद्याशाला, धीकानेर, (राजपुताना).			
पाटियादार मुरु—श्री चितामणिजी का मंदिर, विचला भोई वाडा, मुंबई.			
संघजी हीरजी—मुक्केलर, पायधोनी, मुंबई.			

अथ पूजा सामग्री ।

१) रुपया नारेल थापना का, कैशर, पुण्य या लौंग, धूप, घृत, चामल, मिठाई, फल, अग लूहना २, वरक, अतर, धजा, १) रुपया नारेल जान पूजा श्रीजी के भेट, शक्ति होय तो नगदी दर पूजा प्रति थापना धेर, जो आता वा अधिक यथा शक्ति आरती में ढाते, बजारी रा रखन्ह न्हेवे, शक्ति होय तो गुरु प्रमादि न्हे, सीरणी वाटे, गुरु के सतानियों को भोजन दे ।

अथ हाजरा हजूर गा ।

ओ हीं श्री द्वीं श्री जिन कुशल द्विरः राजा एहि एहि न रदेहि देहि सुप्रशस्त्रामवतु वरदो मेस्वाहाः ।

अथ विधि—पूनम सोमवार क, पवित्र हो, पीतवस्त्र, पीत माला, पीन आशन, दर्ता द्विशा की तरफ मुग करके मनवच काया कूरियर करके सवा लन जाप जायें, ब्रह्मचर्य पाले, ससारी कथा करे नहीं, एक वरत ज्ञार का भोजन करे एसे ३ दिन धूप दोप अम्बड में प्रथम मिद्द करे, मन में किमी कामना की इच्छा नहो नहीं, जघाय जप सादी बोरे हजार करे, केर हमेस १ नवकार मन की माला, और १ माला इम मन की जपता रहे भाग्य प्रबल हो तो प्रत्यक्ष दर्शन दे अथवा स्वप्न में, अगर उर्जन नहीं तो गत्तामना निश्चय पूर्ण करे । आप भवनपती अमुर निशाय म भहर्धिक देव भये हैं भक्तों के आधीन हैं, वहे गदा मात्रि भी भक्ति वारक के वधित भी आप ही पूर्ते हैं, वहे दाना सातिन वैमानिक देव हुये हैं इम याने उस्यु का शामा तीनगलव भाता हो जिए ऐरे नहीं होता, पृथ जप तप रम त्य रात्म, एतम् यान न ही पाया गयने हैं, एताम तिव ही वर्णिकम् है ।

मंगल दीपक ।

मंगल दीपक गुरु का कीजे मन वंचित फल कारज सीझे ।
! म० । (टेर) मंगल दीप मंगल अडभासे, घर २ मंगल
धत्व प्रकाशे ॥ म० ॥ २ ॥ करे करावे मंगल माला, अन
धन लच्छी लहे शुविशाला ॥ म० ॥ ३ ॥ आलिय विम हर
मंगल दीवो, ऋद्धि सार भविजन चिर जीवो ॥ म० ॥ ४ ॥

इति मंगल दीपक ॥

अथ दादा गुरु महाराज की पूजा प्रारंभ ।



(पहले स्थापना वर्तके आद्वान का श्रोक पढे)

काच्य-सकुलगुणगरिष्यासत्तपोभिर्विरिष्टान् ॥ शुभदमयमधुष्टाचारुचा
रिग्निष्टान् ॥ निसिल जगत पीठे दर्शितात्मप्रभावान् ॥ मुटिपुशुर्णुल
सूरि स्थापयाम्यत्रपीठे ॥ १ ॥ ॐ ह्यं श्री श्री जिनदत्त श्री मणिधर
जिनचन्द्र श्री जिन कुशल श्री जिनचंद्र सूरि गुरुञ्चना बतग वतर
रवाहा ॥ ॐ ह्यं श्री श्री जिनदत्त श्री मणिधर श्री जिनचंद्र श्री जिन
कुशल श्री जिनचंद्र सूरि अत्रतिष्ठ ठ ठ स्वाहा ॥ इति प्रतिष्ठापन
॥ २ ॥ ॐ ह्यं श्री श्री जिनदत्त श्री मणिधर जिनचंद्र श्री जिन कुशल
श्री जिनचन्द्र सूरि गुरुञ्च अत्रमग सनिहितो भववषट् (इति सनिधि
करण) ॥ ३ ॥

(म्नात्रि या शुचि हो के जल का कलश ले रडा रहे)

* दोहा *

ईश्वर जग चितामाणि, कर परमेष्ठि ध्यान ।
गणधर पदगुण वर्णना, पूजन करो सुजाण ॥ १ ॥
सौभर्म्मा मुनिपत प्रगट, वीर जिनेश्वर पाट ।
मिथ्या भत तम हरन कृ, भव्य दिखावन वाट ॥ २ ॥
सुम्भित सु प्रतिपद्ध गुरु, सूरि मन को जाप ।
कोटिन्द्रियो जब ध्यानधर, कोटिक गच्छ सुथाप ॥ ३ ॥

दरा पूर्वीं श्रुत केवली, भये वज्र धर स्वाम ।
 ता दिन तों शुह गच्छ को, वज्र शाख भयो नाम ॥ ४ ॥
 च द्र सूरि भये चन्द्र सम, आत हि दुद्धि निधान ।
 चन्द्र कुर्ली सब जगत में, पसरयो बहु विज्ञान ॥ ५ ॥
 चर्द्धमान के पाट पद, सूरि जिनेश्वर भास ।
 चत्य दासि कूँ जीत कर, शुविहित पञ्च प्रकाश ॥ ६ ॥
 अणहिलपुर पाटण सभा, लोक मिले तिहाँ लक्ष ।
 खरतर विरुद्ध सुधा निधि, दुर्लभ राज समक्ष ॥ ७ ॥
 अभय देय सूरि भये, नव अंगटी का कार ।
 थंभन पारा प्रगट कर, कुष मिटावन हार ॥ ८ ॥
 श्री जिन वल्लभ सूरि गुरु, रचना शास अनेक ।
 प्रति वोधे श्रावक बहुत, ताके पट्ठ विशेष ॥ ९ ॥
 हुवड श्रावक वाघडी, अड्डरे हजार ।
 जैन दया धर्मीं किये, वरते जर्य २ कार ॥ १० ॥
 दादा नाम विख्यात जस, सुर नर सेवक जास ।
 दत्त सूरि गुरु पूजताँ, आनन्द हर्ष उल्लास ॥ ११ ॥
 दिल्ली में पतसाह ने, हुकम उठाया सीस ।
 माणिधारी जिनचंद्र गुरु, पूजो विसवा वीस ॥ १२ ॥
 ताके पट्ठ परंपरा, श्री जिन कुशल सरिंद ।
 अकबर कूँ परचा दिया, दादा श्री जिनचंद्र ॥ १३ ॥
 ऐसे दादा चार कूँ, पूजो चित्त लगाय ।
 जल चंदन कुमुमादिकर, ध्वज सौगंध चढाय ॥ १४ ॥

(चाल-दादा चिरजीयो)

गुरगज तणी कर पूजन भवि सुरकर मिलसी लच्छि पणी (टेर) गुरु दत्त सूरिन्द्र जग उपगारी, गुरु सेवक ने सानिध कारी । गुरु चगण कमलारी बलिहारी ॥ गु० ॥ १ ॥ शमत इम्यरे बारशसी, वर्तमै जनम्या शुभ द्विवसी । श्रावक कुल हुबठ ने हुलसी ॥ गु० ॥ २ ॥ जसु वाद्यगसापितु नाम भणे, बाहड दे माता हर्ष घणे । इक्तालीसे दीक्षाप भणे ॥ गु० ॥ ३ ॥ गुण हतरे बझम पाटधरी, गुरु माया बीजनो जाप करी । गुरु जग में प्रगाढ़ा तरण तरी ॥ गु० ॥ ४ ॥ मणिधारी जिनचद उपगारी, जिन दत्त सूरिंद के पटधारी । भये दादा दूजा सुगकारी ॥ गु० ॥ ५ ॥ राशल पितु देलहण दे माता, श्रीमाल गोत्र नोधन शाता । दिल्ली पत साह सु गुणगाता ॥ गु० ॥ ६ ॥ जसु चोये पाट उद्योत करी, जिन कुशल सुरिंद अति हर्ष भरी । तेरेसैती से जनम वरी ॥ गु० ॥ ७ ॥ जसु जिल्ला जनक जगत्र जीयो, वर जैत सिरी शुभ स्वम लियो । गुरु छाजेड गोत्र उद्धार कियो ॥ गु० ॥ ८ ॥ धन सेंतालीसे दीक्ष धरी, जिनचन्द सूरीधर पाट वरी । गुण हतरे सूरि मन्त्र जापकरी ॥ गु० ॥ ९ ॥ सेवा में वावन धीर सग, जोगणिया चौसठ हुक्म धग । गुरु जग में कई उपगार करा ॥ गु० ॥ १० ॥ माणक सूरीधर पद छाजे, जिन चन्द्र सूरि जग में गाजे । भये दादा चौथा सुखकाजे ॥ गु० ॥ ११ ॥ जिन चाद उगायो उजियालो, अम्मावश की पूनमवालो । सब श्रावक मिल पूजन चालो ॥ गु० ॥ १२ ॥ जिन अकवर कृ परचा दीना, काजी की टोपी वम फँना । वकरी का भेद कहा तीना ॥ गु० ॥ १३ ॥ गधोदक सुरभिन्नलश भरी, प्रक्षालन मन गुरु चरण परी । या पूजन रुपि ऋद्धि मारकरी ॥ गु० ॥ १४ ॥ इति द्वण पूजा ॥

इति ।

सुरनदीजलनिर्मलधारयः ॥ ग्रवलदुक्तदाघनिवारयः ॥
सकलमंगलमंच्छतदायकं ॥ कुशलज्जरियुरोथरणौयजे ॥ १ ॥
ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय ॥ परममुखदेवाय ॥ भगवतेश्रीजिनशा
सनोदीपकाय ॥ श्रीजिनदत्तमूरीथराय ॥ मणिमंडतभालस्थल
श्रीजिनचन्द्रद्वरीथराय ॥ श्रीजिनकुशलमूरीथराय ॥ अकवरअसुर
त्राणप्रतिबोधकाय ॥ श्रीजिनचन्द्रद्वरीथराय ॥ जलनिर्विपामिते
स्वाहाः ॥ इति ग्रथम पूजा ॥

अथ केशर चन्दन पूजा ।

* दोहा *

केशर चन्दन मृगमदा, कर धनसार मिलाप ।
परचाजिनदत्त सूरिका, पूज्यां तूटे पाप ॥ १ ॥

(चाल बीणवाजे की)

दीन के दयाल राज सार २ तं (टेर)

आये भरु अच्छ नग्र, धाम धूम धूं, वाजते निशाणठोर, हर्ष
रंग हूं ॥ दी० ॥ १ ॥ मुसलमान मुगलपूत, फौज मौजमूं । फौत
मौत हो गया, हाय कार सू ॥ दी० ॥ २ ॥ सम्ब विस्त देख आप,
हुक्म दीन यूं । लाओ भेरे पास आस, जीव दान दूं ॥ ३ ॥ दी० ॥
मृतक पूत मंत्र सें, उठाय दीन तूं । देख के अचंभ रंग, दास
खास कू ॥ ४ ॥ दी० ॥ करत सेव भाव पूर, तुरक राज जूं । खोड
के अभक्ष खाण, हाजरी भर्दं ॥ दी० ॥ ५ ॥ वीज खीज केपडी,

प्रति कमण के मृ । हाथ से उठाय पात्र, ढाक दीन छू ॥ दी० ॥ ६ ॥
 दामनी अमोल बोल, सिढ़ राख तू । देउ वरदान घोट, बन्ध कीन
 क्यू ॥ दी० ॥ ७ ॥ दत्त नाम जपत जाप, कम्त नाहिं चू । फेर
 में पहुंची नाहिं, छोड दीन फू ॥ दी० ॥ ८ ॥ करोगे निटाल आप,
 पात्र पलक नू । राम ऋढ़ि सारदास, चरण छाह लू ॥ दी० ॥ ९ ॥
 ॥ इति ॥

श्लोक ।

मलयचन्दनकेमरमारिणा ॥ निसिलजाडयरुजातपहारिणा
 शकल ॥ १ ॥ ओ हीं श्री श्रीजिनदत्तकेशरचन्दननिर्विपामिते
 स्वाहा ॥ २ ॥

* दोहा *

चपा चपेली मालती, मरआ अरु सुचउद ।
 जो चाढे गुरु चरण पर, नित पर होय आनन्द ॥ १ ॥

॥ राग माड ॥

(चाल-नींट तो गई रे चाढीला म्हारी)

गुरु परतिर सुर तरु रूप सुगुरु समदूजो तो नहीं दृगो तो
 नहीं, म्हारा चेतन दूजो तो नहीं। गुरु परतिर सुर तरु रूप, सुगुरु
 ने पूजो तो सही । (टेर)

नितोट रागरी बज गम में, विद्या पोर्धि रही । मत जन मिला
 से पूर्ण, गुरु निज हाथ ग्रही । गु० निज० ॥ गु० प० ॥ १ ॥ पुरा
 उज्जेणी महातान के, मन्त्र वम पही । मिठ शेन तिन दर धी
 पोर्धि, मिला मग्न लही । निज० ॥ प० ॥ २ ॥ उज्जेणी

व्याख्यान वीच में, श्रावि का स्वप्न ग्रही । जोगणियां छल ने कूँ आई,
सब कूँ सीतर्दई ॥ सब० ॥ गु० प० ॥ ३ ॥ दीन होय जोगणियां
चोसठ, गुरु की दास भई । सात दिया वरदान हरस्व से, पसरया
सुजस मही ॥ पस० ॥ गु० प० ॥ ४ ॥ पुष्प माल गुरु गुण की गूंथी,
चाढो चित्त चही । कहे राम ऋद्धिसार सुजस की, वूटी आप दई
॥ बूटी० ॥ गु० प० ॥ ५ ॥ इति ॥

श्लोक ।

कमलचम्पककेतकीपुष्यकै ॥ परिमलाहृतपद्मदृदंदकै ॥
सकल० ॥ ॐ हीं श्रीं श्रीजिनदत्त० ॥ पुष्पनिर्विपामितेस्वाहाः
॥ ३ ॥

* दोहा *

धूप पूज कर सुगुरु की, पसरे परि मल पूर ।
जस सुगंध जग में बढे, चढे सवाया नूर ॥ १ ॥

॥ राग सोरठ ॥

(चाल-कुवजाने जादू डारा)

अंवका विरुद वखाने, गुरु तेरो अ० । तुम युग प्रधान नहीं
बाने, गुरु तेरो अ० (टेर)

गढ गिरनार पै अंवड श्रावक, ऐसो नियम चित ठाने । युग
प्रधान इस जुग में कोई, देखूं जन्म प्रमाने ॥ गु० तेरो० ॥ १ ॥
कर उपवास तीन दिन बीते, प्रगटी अंवाज्ञा ने । प्रगट होयकर में लिख
दीना, सुवरन अन्नर दाने ॥ गु० ते० ॥ २ ॥ या गुण संयुत
अन्नर बांचे, ताकूं युग वरजाने । अंवड मुलक २ में फिरता, सूरि
सकल पतवाने ॥ गु० ते० ॥ ३ ॥ आया पास तुमारे सद्गुरु, कर

पसार निसलाने । वास क्षेप उन कपर डाला, चेला वाच सुणाने ॥ गु० ते० ॥ ४ ॥ सर्व देव है दास जिनों के, मरु धर कल्प प्रमाने । जुग प्रधान जिनदत्त सूरीधर, अनट रीस कुराने ॥ गु० ते० ॥ ५ ॥ उद्योतन सूरिनै निज हथ, चौरासी गच्छ ठाने, वह सब तुमरी सेवा सारे, चौरासी गच्छ माने ॥ गु० ते० ॥ ६ ॥ जो मिथ्यात्वी तुम कृ न पूजे, वह नहीं तत्त्व पिछाने । भद्र बाहु स्वामी तुम वीर्तिन, कीनी अथ प्रमाने ॥ गु० ते० ॥ ७ ॥ युग प्रधान प्रकीर्ण गडिका, गण धर पट दृतिम्याने । कहे राम श्रद्धि सार गुरु कृ, पूजा धूप कराने ॥८॥ ॥ गुरु ते० ॥

श्लोक ।

अगरचदनधूपदशागजै ॥ प्रशरितादिलादिचुमुधुम्रकै ॥
शकल० ॥ उँ हीं श्रीं परमपुरुषाय० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ धूपनिर्वि
पामिते स्थाहाः ॥ ४ ॥

* दोहा *

दीप पूजकर सुगुण नर, नित रे मगल होत ।
उजियालो जग में जुगत, रहे अखदित जोत ॥ १ ॥

॥ राग कालिंगडा ॥

(चाल ख्याल की)

पूजन कीजा जी नर नारी, गुरु महाराज का । (टेर)

सिंधु देश में पच नदी पर, साधे पाचू पीर । लोई ऊपर पुर्सप
तिगये, गेमे गुरु मधीर ॥ पूज० ॥ १ ॥ प्रगट होय के पाच पीर
नै, मात टिया प्रसान । मिनु देश में रमतर आवक, होवेगा धन
वान ॥ पूज० ॥ २ ॥ मिनु देश मुलतान नगर में, बड़ा महोन्नाव
देव । अनट और गच्छ का श्राम, गुरु से कीना द्वेष ॥ पूज० ॥

देख सके नहीं गुरु की, भेरे मिथ्यात्वी गुस में । मृतक गड जिन मंदिर आगे, रख दी सन्मुख चस में ॥ हो गु० ॥ २ ॥ श्रावक देख भये आकुलता, कहे गुरु से कस में । चिंता दूर करी है संघ की, गड उठ चाली डम में ॥ हो गु० ॥ ३ ॥ मरी गऊ कूँ जीती कीनी, लोक रहे सब हस में । जाके गाय पडी रुद्रालय, संघ भया सब खुस में ॥ हो गु० ॥ ४ ॥ ब्राह्मण पांव पडे सब गुरु के, देख तमाजा इस में । हुक्म उठावेंगे शिर ऊपर, तुम शंतति की दिश में ॥ हो गु० ॥ ५ ॥ नमस्कार है चमत्कार कूँ, कीनी पूजा रस में । कहै राम ऋद्धिसार गुरु की, आनन्द मंगल जस में ॥ हो गु० ॥ ६ ॥ इति ॥

श्लोक ।

वहुविधैश्चरुभिर्वटकैयकै ॥ प्रचुरसर्पिष्पिपकसुखज्जै ॥ शकल ०
१ ॥ उँ हीं श्रीं परम० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ नैवद्यन्निर्विपामिते
स्वाहा: ॥ ७ ॥

* दोहा *

फल पूजा से फल मिले, प्रगटे नवे निधान ।

चिहुंदिशि कीरत विस्तरे, पूजन करे सुजान ॥ १ ॥

॥ राग दुमरी ॥

(चाल-रथचढ यदुनन्दन आवत है)

चलो संघ सब पूजन कूँ, गुरु समरथां सन्मुख आवत हैरे, चलो०
(देर)

आनन्द पुर पहुन को राजा, गुरु शोभा सुण पावत हैरे । भेज्या
निज परधान बुलाने, नृप अरदास सुणावत हैरे ॥ चलो० ॥ १ ॥
लाभ जाण गुरु नगर पथारे, भूपत आय वधावत हैरे । राज कुमर को

कुष मिटायो, अचरज तुग्न निरापत हेरे ॥ चलो० ॥ २ ॥ दश
हजार कुटव सग नृम कृ, श्रावक धर्म धरावत हेरे । प्रतापगढ
पो पमार राजा, पुर में गुरु पधरावत हेरे ॥ चलो० ॥ ३ ॥ दया मूल
आज्ञा जिनरा की, गरे प्रत उचरावत हेरे । चउद्दाण भाटी पमार इंडा,
मुन गठोड सुहावत हेरे ॥ चलो० ॥ ४ ॥ सीसोद्या सोलखी नरनर
महाजन पदवी पावत हेरे । ऐमे सात राज सम कितधर, ररतर सघ
वणावत हेरे ॥ चलो० ॥ ५ ॥ कुष जलधर द्ययन भगदर, केह
यक लोक जीवावत हेरे । ब्राह्मन द्वात्री अरुमाहेश्वर ओ सवश पसरावत
हेरे ॥ चलो० ॥ ६ ॥ तीस हजार एक लग श्रावक, लरतर सघ
रचावत हेरे । कहत राम आदिसार गुरु की, फल पूजा फल पावत हेरे
॥ चलो० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ श्लोक ॥

फनममोचमदाफलकर्तैः ॥ सुसुसदैकिलश्रीफलचिर्भैः ॥
शकल० ॥ उँ हीं श्री परम ॥ जिनदत्त ॥ फलनिर्पिपामिते
स्वाहा ॥ = ॥

* दोहा *

चल अतर गुरु पूजना, चोवा चदन चपल ।
दुम्नन सन सज्जन हुवे, करे सुरगा खेल ॥ १ ॥

॥ देशी ॥

(चाल-मनडोकि महीन बाजे)

लगभी लीला पावेरे मुन्दर, ल० जेगुर वल चढोवेरे मुन्दर,
न० मुजस अतर महकोवेरे मुन्दर ल० दुरजन शीसन मावेरे,
मुन्दर ल० । (टेर)

दरिया बीच जहाज श्रावक की, छवण खतरे आवे, साचे मन
सनरे सद गुरु कूँ, दुख की टेर सुणावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ १ ॥
वांचतां व्यास्त्यान सूरीश्वर, पंखीरूपे थावे, जाव समंद में जिहाज
तिराई, फिर पीछा जव आवेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ २ ॥ पृथ्वे संघ अचरज
में भरिया, गुरु सब बात सुणावे, ऐसे दादा दत्त कुशल गुरु, परचा
प्रगट दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ३ ॥ बोधर गूजरमल श्रावक
की, दादा कुशल तिरावे, सुख सूरि गुरु समय सुन्दर की,
जिहाज अलोप दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ४ ॥ वोरे सैइग्योर दत्त
सूरी, अजमेर अणसण ठावे ऊपज्यासौ धर्मा देवलोके,
सीमधर फरमावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ५ ॥ इक अवतारी कारज सारी,
मुक्ति नगर में जावे, कुशल सूरि देराउर नगरे भुवन पतीसुर
थावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ६ ॥ फागण वदि अमावश सीधा, पूनम
दरस दिखावे माणि धारी दिल्ली में पूज्यां, संकट सुपने नावेरे
॥ सुन्दर ल० ॥ ७ ॥ रथी उठी नहीं देखवा दसा, वांही चरण
पधरावे, वस्त्र अतर पूजा सदगुरु की, ऋष्टाद्विसा रम नभावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥
॥ ८ ॥ इति ॥

श्लोक ।

आखिलहीरशुचिनवचीरकै ॥ प्रवरप्रावरणैखलुगंधतः ॥
॥ शकल० ॥ उँ हीं श्रीं परम० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ वस्त्रंचोवाचंदनं
पुष्पसारंनिविषामिते स्वाहाः ॥ ६ ॥

* दोहा *

ध्वज पूजा गुरु राज की, लहंके पवन प्रचार ।

तीन लोक के शिखर पर, सो पहुंचै नरनार ॥ १ ॥

॥ राग ॥

(चाल जिन गुणगान श्रुति अनृतरे)

भर पूनन कर हरम भरीं, ४० ॥ (टे)

मन शोले मिणगार सहेत्या, श्री मह गुरनी के द्वारा बरीरे । ४० । अपद्रा त्वय मुतन सुकलीनों ठम २, पग भणकार घरीं ॥ ५० ॥ १ ॥ गावन मगल नेत प्रवनणा, धन २ मगल आज घरीं । ५ । निर्धन कु लमर्मी यगमात पूत्र चिना जाके पुत्र घरीं ॥ ५ ॥ २ ॥ जो जो पगतिग परचा देव्या सुणो भविक टिल पोच घरीं । ५० । फनेमद्द भटगानिया ब्राह्म, पहली शरानोर घरीं ॥ ५० ॥ ३ ॥ पगतिग देव्य जन में जाण्, प्राटया ततस्मिण तमण तरीं । ५० । पुव्य माल शिर केरर टीका, अधर धेन पोखाग घरीं ॥ ५ ॥ ४ ॥ भाग २, धर खोले बाणी, फरक चमावो गुर मेष भरीरे । ५० । भर उगायो शेय लाम पर, लेरी महिमा निच दरीं ॥ ५० ॥ ५ ॥ न्यानचन्द गोलेद्या कु तें पगतिग दीना दग्म फरीं । ५० । चीकानेर में धैम उमारा, चिप रगवन उर सुरीरे ॥ ५० ॥ ६ ॥ धानमत लूप्या पर चिर्या, लमर्मी लीला मह जरीं । ५० । लन्मीपति द्वाड दी नातिव, हुड़ी दी शुगनाण ररीं । ५० । ॥ ७ ॥ जो उपगार पग नै खेग, दीरो नन्मुन अमून चरीं । ५० । नेरी दृगा मे भिद्धि पाहू तांग जम आ नांग मरीं ॥ ५० ॥ ८ ॥ भूमा भोका निर्भिया पानी, भरा हारी नेच घरीं । ५० । पियम चगत पर मलाय दमांग, क्रद्विया दी गम्ज ररीं ॥ ५० ॥ ९ ॥

श्लोक ।

मुदु मधुर धनि गिरगी नाढँ ॥ धज पिरिगितरी-

स्तुतवासकैः ॥ शकल० ॥ उँ ह्रीं श्रीं परम० श्रीजिनदत्त०
शिखरोपरि ध्वजां आरोपयामि स्वाहाः ॥ १० ॥

* दोहा *

भट्टारक पदवी मिली, जीते वादी बृंद ।

कंठ विराजित सरस्वती, जग में श्रीजिनच्छद ॥ १ ॥

राग आसावरी तथा धन्यासिरि ॥

पूजन जग सुखकारी सुगुरु तेरी पू० तेरे चरण कनल वलिहारी
सुगुरु० (टेर)

साह सलेम दिल्ली को वादशाह, सुणी है शोभा तिहारी । भड्ड
हरायो चरचा करके, भट्टारक पदधारी ॥ सुगुरु० ॥ १ ॥ अन्मावरा की
यूनम कीनी, चंद उगायो भारी । चढ़के गगन करी है चरचा, सूरज से
तपधारी ॥ सु० ॥ २ ॥ उगणीसे चौदे की साल में, लखनउ नगर
मभारी । गोरा फिरंगी टोपी वाला, दिल में ये वात विचारी ॥ सु०
॥ ३ ॥ जैन श्वेतांवर देव जो सच्चा, पूरे मनसा हमारी । वाणी निकली
राज्य तुमारा, होवेगा अधिकारी ॥ सु० ॥ ४ ॥ अवे की खोली आंख
सरत में, पूजे सब नरनारी । कहालग गुण वरण में तेरा, तूं ईश्वर जय-
कारी ॥ सु० ॥ ५ ॥ उगणीसे संवत्सर तेपन, मिगसर मास मभारी ।
शुक्ल दूज जिनचंदसूरीश्वर, खरतर गच्छ आचारी ॥ सु० ॥ ६ ॥
कुशलसूरि के निज शंतानी, क्षेम कीर्ति मनुहारी । प्रति वोध्या जिन
क्षत्री पांचसै, जान सहित अणगारी ॥ सु० ॥ ७ ॥ क्षेमधाड शारखा
जब प्रगटी, जग में आनन्दकारी । धर्म शील साधु गुण पूरे, कुशल
निधान उदारी ॥ सु० ॥ ८ ॥ या पूजा करतां सुख आनन्द, अन धन
लक्ष्मी सारी । कहत रामऋषि सार गुरु की, जय २ शब्द उचारी
॥ सु० ॥ ९ ॥ अर्ध दीजे ॥

इति श्री दादा सदगुरु पूजा सम्पूर्ण ॥

* आरती *

जय २ गुरुवा, आरती मगल मेजा, आनन्द सुर लेवा, जय २
गुर देवा । (टेर)

एक ब्रत दुय व्रत तीन चार व्रत पचव्रत में सोहे । गुरु ४० ।
भविक जीव निम्तागगा, सुरनर मन मोहे ॥ जय० ॥ १ ॥ दुख दोहग
सप हर्कर सद्गुरु, गजन प्रति बोधे । सुत लक्ष्मी वर देकर, श्रावक
उल भोधे ॥ जय० ॥ २ ॥ विद्या पुम्तक धरकर सद्गुरु, मुगल पूत
तारे । बम कर जोगण चौमठ पाच पीर सारे ॥ जय० ॥ ३ ॥ वीज
पटती चारी मद्गुरु, ममन जिहाज तारी । वीर किये वस बावन, प्रगटे
अवतारी ॥ जय० ॥ ४ ॥ निनदत्त जिनचढ़ उशल सुरि सुरु, खरतर
गच्छ गजा । चारामी गच्छ पूजे मन बद्धित ताजा ॥ जय ॥ ५ ॥
मा शुद्ध आरती इष्ट निमागन, मद्गुरु की कीन । जो मागे सो पावे,
जग में जम लोज ॥ जय० ॥ ६ ॥ निकम्पुर में भक्त तुमारो, मन
कलाधारी । नित उठ यान लगावत, मन बद्धित फल पावत, गमकृद्धि
नारी ॥ जय० ॥ ७ ॥ इति मद्गुरु आरती सम्पूर्ण ॥

* आरती दूजी *

जय २ मन्तगुर गारती र्जि श्राजिा कुगलमूरि समरजे जय०
(टेर)

पहली आरती दानाजी नी र्जि, दुर दोहग मध्य दूर हर्गने
॥ नय० ॥ १ ॥ वीनी वीन पटती वारी भय वागण तूही सुम्भारी
ज० । तीजी पगचा पूर्ण तेगी दूर हरो मध्य दूर मति मेरी ॥ न० ॥ २ ॥
चौथी मुगल पूतनी बडायर सुर नर हुक्म धेरे ज्यू पायक ज० ।
पाचमी पचनर्दी निन नाथी भय शुभननो उस्ट वारी ॥ ज० ॥ ३ ॥

बह्नी थांभो वज्र विदारी विद्या पोथी परगटकारी ज० । सातमी चोसठ
योगण साधी सूरि मंत्र कर सुर आराधी ॥ जय० ॥ ४ ॥ इण विध
सात आरती कीजे मन वंछित सुख संपति लीजे जय० । जैन लाभ
खरतर गणधारी सद्गुरु चरण कमल वलिहारी ॥ जै जै० ॥ ५ ॥
इतिपदं ॥



श्रीः

उपाध्याय प्राणाचार्य युक्ति वारिधिः श्री रामलालजी गणिः

के विद्यार्थी शिष्य

वैद्याचार्य पं० रामगोपाल शर्मा का आयुर्वेदीय औषधालय, वीकानेर
की शास्त्र सिद्ध व अनुभव सिद्ध औषधियों का

* संचित सूचीपत्र *

फी तोला		फी तोला	
रेप्य भरम	१०)	रवर्ण पर्फटी	३०)
तोह „	४)	श्वास कुठार	२)
ताम्र „	११)	हिंगाटक	।=)
नाग „	५)	संवरण भारकर	॥)
जस्त „	५)	लाई चूर्ण	॥)
खरपर „	५)	धातुवर्ढक	=)
बग „	४)	मटुपक्त हैंड फी नग	२)
अभ्रक „	१०)	दस्त बद की गोलीया	१)
महूर „	४)	कुचिले की गोलीया	१)
प्रवाल „ (मुगा भस्म)	॥)	सासी की गोलीया	१)
शाख „	॥)	अभ्रक वटी	११)
सीप „	॥)	चुधा वर्द्धक वटी	॥)
कपर्द „	१)	ब्राह्मी की गोलिया	१)
स्वर्णमाचिक	२)	मोहरे की गोलिया	१)
पिपल चौसठ पौहरी	२०)	अमृत सजीवनी गुटिका	१)
गिलोय सत्व असली	॥)	अमर सुन्दरी गुटिका	१)
हेम गर्भ पोटली रस	६०)	चडप्रभा गुटिका	४)
मकरध्वज चंद्रोदय	१००)	विष गर्भ तैल फी सेर	८)
वस्त मालती	२०)	लाज्जादि तैल „,,	८)
अहसी कपाट	५)	पचगुणा तैल „,,	५)
पचामृत पर्फटी	२०)	दाद की स्वदेरी औषधि	=)

सर्व औषधि मिलने का पता—

वैद्याचार्य परिष्टत रामगोपाल शर्मा,
आयुर्वेदीय औषधालय, आचारजौं का चौक, वीकानेर ।

प्रस्तावना

ॐ अहं

॥ अहो भव्यजीवो ? सम्पूर्ण सृष्टि प्रवाहके चलानें वाले उसका हुड़ा अग्रमणिकालमें देवाभिन्नेव परमेश्वर वीतराग अहं इपदेव सवन्, सर्वदग्धो हुवे। जिनोनें पुर्स्पोक्ती गृहज्ञर कला, स्त्रीयोंका चौसठ कला, शतशिल्पकार, अदारह लिपिया रखै। न्यारत्तर्ण म्यापित कोये। और चौदह पूर्व द्वादशागी वाणीकों गुथने वाले इन्हाँके पुण्डरिको व्रथमगणयर हुए। इन्हीकी आलासे भरत चक्रवर्ती वैक्रीय लन्दिमें चार मुखबाला चार वेदोंका उच्चारण करता हुवा। और इन्हीके वशमें तिर्थकर, चक्रवर्ती, वामदेव, बलदेव आदि यडे यडे पुरुष हुए। और इन्हीके वशमें तेऽस वै तिर्थकर पार्ख्वनाथ स्वामी १ तिनके प्रथम गणधर शुभदत्तजी हुवै २ तिनके पाटपे हरदत्तजी हुवै ३ तिनके पाटपे आर्य समुद्रजो हुवै ४ तिनके पाटपे केमीगण यर परदेसी रासतानिक राजाओं आदि ले केढ़ राजाओं को प्रतिरोध देणे गाले और चोइस वै तिर्थकर भवावीर स्वामी तिनके प्रथम गणधर गौतम स्वामीके साथ अग्निज्ञर उत्तरा यथन २३ मे अयनमें है। तथा रायपमें गी सूत्रमें है। तिनके पाटपे स्वयप्रभ मृति हुवै, जिनोनें श्री श्रीमाल और पो-ग्वाड आपकु रीये। तिनके पाटपे दाढ़ा साहब युगप्रधान भट्ठारक रत्नप्रभमूरि जातके विग्रामर हुवै, जिनोनें जोएस्या नगरीमें आयके उद्देव मतीका पुत्र जीयायकर उपलदेव गजाको प्रतिरोध दे, जैन-गर्म स्थापित करके और ओमनाम किये। अदारह गोत्र स्थापे, तिनके नाम ये है—ग्रेषु गोत्र वेद-मूर्या १ तातेड २ नाफणा ३ मोरान् पोरणा ४ सातला ५ कर्णविद ६ बरहगोत्र तथा एका वाके गासें-दीया ७ कुरुहटगोत्र-विरहटगोत्र ८ श्री श्रीमान्गोत्र ९ मुचनि-शप-

अंश सदासचेति १० चोरडीया ११ भूरिगोत्र १२ भाद्रगोत्र १३
चींचटगोत्र १४ कुंभटगोत्र १५ कलोजगोत्र १६ डींडगोत्र सांप्रते को-
चर १७ लघुश्चेष्टिगोत्र १८ ये है। इनमें से सर्व शाखा फुटी है, ये
निश्चय वात है। इसका सारांश कमलागच्छकी वृहत् पटावलीमें है
सो देख लेना। इनके पाठ्ये यक्षदेवमूरि, उपकेश गच्छके धरने वाले
यक्षराज मानभद्रकों प्रतिवोध देने वाले हुवै। इनके पाठ्ये कितने ही
अनेक आचार्य युगप्रधान लघियसंपन्न विद्यासंपन्न हुवै है। और जिनकी
महिमा संपूर्ण भूमन्डल जानता है। और अमेरिकाके चिरागो सेहरमें
६०० विद्वानों अनेक मतके इकठे हुए, जिनमें जैनमतकी प्राचीनता
आजकलके चालु मतोंसे श्रेष्ठ बताइ है। और यूरोपियन विद्वान
डॉक्टर मेक्षमूलर साहेबने आपने बनाये हुवै धर्म परीक्षाके संस्कृत
साहित्यमें जैनधर्मकी बड़ी भारी तारीफ लिखी है। और कहता है
“जैनधर्म बड़ा प्राचीन मत है। जैन शब्द “जि” जय-धातुसे बनता
है और यह जैन धर्म पृथ्वी पर रखके समान है। इसके सेवन करनें
से प्राणी भवससुद्रमें शीघ्र ही पार हो जाता है। अतः—

हे भव्यजीवो मोक्षमार्गको देनेवाले तथा बतानेवाले ऐसे सद्गुरु
महाराज उवकेशगच्छिया रत्नप्रभसुरिजि महाराजको शुद्धदिले पांचो हि
पदधरो के चरणकमलोंको द्रव्य भावसे पूजन करके अपना जन्म स-
फल करो। युग प्रधानोंके गुण जैसा ग्रन्थोंमें लिखा है वैसा लिखते
है। दुःख और कष्टकों दूर करे। लक्ष्मी वा पुत्रादि कामना पूरण
कर। विद्यासिद्धि, देवसिद्धि वघनसिद्धि और पचाचार पालनेवाले
ऐसे युगप्रधान दो हजार च्यार पूर्वोक्त कुलमें होणा है। एसा वीर-
प्रभु कह गए है। जो प्रतिवोधके श्रावकधर्म बढ़ावै इत्यलम् ।

वांचनेवाले विद्वानोंसे तथा श्रावकोंसे निवेदन है कि जो कोइ
भी दृष्टि दोष रहा हो—उसे क्षमा करें, और सुधार लेवें।

आपका शुभाचिंतक उपकेश गच्छिया शुभकर्ण यति। समाप्त ॥

स्थान लंकर. गवालियर. सराफा ॥

संवत् १९७२ द्वितीय वैशाख अक्षय तृतीया ॥



श्रीजिनाय नमः

दादाजी श्रीरत्नप्रभसूरिआदि गुरुवरोकी

अष्टप्रकारी पूजा

७७०७

विधि—प्रथमस्नात्रीया श्रीफल—नाणा यथा-
शक्ति हाथमें लेके खडा रहे । फिर युरु आहानके
श्लोक पढ़के स्थापना सुन्दर पट्टेपर करावे ।

श्लोक—रत्नप्रभान् सूरिगुरुन् निधाय

सुरत्नपीठे कनकोज्ज्वलाभान् ।

प्रवोधपुष्टान् तपसा वरिष्ठान्

गुणीर्गरिष्ठान् विमलान् नमामि ॥१॥

समस्तगुणमणिडतान् परमसत्तपस्कान्मुनीन्

शमोपरतिनिष्ठा परमपूज्यपादाम्बुजान् ।

प्रदर्शितनिजप्रभावगतिकार्यससाधकान्

हृदञ्जकमले तथा रुचिरपीठके स्थापये ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजिनरत्नप्रभसूरि—श्रीजिनयक्षदेव
सूरि—श्रीजिनसिद्धसूरि—श्रीजिनकृष्णसूरि—श्रीजिन-

देवगुप्तसूरियुरो ! अत्र अवतर अवतर स्वाहा ॥ १ ॥
 जँ ह्रीं श्रीं श्रीजिनरत्नप्रभसूरियुरो ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ
 ठः ठः ठः स्वाहा इति प्रतिष्ठापनम् ॥ २ ॥
 जँ ह्रीं श्रीं श्रीजिनरत्नप्रभसूरियुरो ! अत्र सम संनि-
 हितो भव वषट् ! इति समिहितकरणम् ॥ ३ ॥

अथ स्तवनाप्रारम्भः

अब कलश लेके स्नात्रीया खडा होवे—

दुहा—अर्हन सिद्ध सूरीश्वरा, पाठकमुनिगुणवंत ।
 ए सेवे किल विष टलै, भाजे कुमाति कुपन्थ ॥१॥
 श्रीजिनपासजिनन्दसें, शोभित छठे पाट ।
 रत्नसूरि पद सेवतां, होय सुचंगा ठाट ॥२॥
 दस-चतुर-पुरव श्रुतिधरा, रत्नसूरि भये स्वाम ।
 भूमणि दिनकर तुल्यसम, अमर रटे गुणग्राम ॥३॥
 पद्मा-अम्बा-सिद्धादिका, वहुदेवीं सुर साथ ।
 पूजे स्वयंप्रभसूरि पद, करजोरे धर माथ ॥४॥
 श्रीश्रीमाल स्वयंप्रभु-कीने अरु पोरवाड ।
 चरम जिनेसर आंतरे-पहाँच्या स्वर्ग मजार ॥५॥
 त्रयलख श्रावक एकसम-चोराशी हजार ।
 रत्नप्रभसूरिकिये, मिथ्याताप विडार ॥ ६ ॥

गोत्र अठारे स्थापकर, विचरे महीयल सूर।
 इनमेसें गाखा चली, अनगिनती भरपूर ॥७॥
 दुःख दोहग दूरि किया, पूरि भविजन आस।
 ऐसे सत्गुरु प्रणमतां, पावै लीलविलास ॥८॥
 तिनके पाट कलानिधि, यक्षसूरि भये स्वाम।
 प्रतिबोधे श्रावकवहुत, पाम्या सुख अभिराम ॥९॥
 सिद्धसूरि सिद्धसम भये, तीजै पाट विशाल।
 शास्त्र रचे वहु अर्थरस, वाणी अमिय रसाल ॥१०॥
 कक्षसूरि तिन पाटपे, कारज सारे अनेक।
 कुमति कुपन्थ हटायके, कीना जैन विवेक ॥११॥
 देवगुप्ति भये देवसम, देव्या पूजे पाय।
 पूजे भविजन भावसें, पातिक दूर पलाय ॥१२॥
 ये गुरु नामें ओलखे, ये गुरु सेवै पाय।
 ये गुरु पूजे भावसें, दुःख अरि दूर पलाय ॥१३॥
 गंधोदक जल शुद्धसें, जो पूजे गुहराय।
 मोह मदादिक दूरहो, पावै लच्छी अथाह ॥१४॥

अथ प्रथमजलपूजाप्रारम्भः ढाल-पहली

श्रीमिद्भगवन् आराधो, मनवाडित कारज साधोरे भवियो ए देशी ॥
 तथा काफी-आशावरी रागेण गीयने ॥
 सद्गुरु चरनं पखालों । मनसुध पूजनने चालोरे

भवियां । ए आंकडी ॥ प्रभुरत्नसूरि गुणवंता जिन-
गुण पाया ना अंतारे भवियां ॥ सद्गुरु० ॥ १ ॥
प्रभुरत्नसूरि सुखकारी, सवजीवनके उपकारीरे भवि-
यां । सद्गुरु० ॥ २ ॥ प्रभुरत्नसूरि नितपूजै, पापसन्ताप
सु ध्रुजैरे भवियां । सद्गुरु० ॥ ३ ॥ प्रभुरत्नसूरि सु-
ख दाया, गढ ओएश सुं आयरे भवियां । सद्गुरु०
॥ ४ ॥ प्रभुरत्नसूरि उपदेश सुनावै । पद्मा-अम्ब-सि-
द्धादिका आवेरे भवियां । सद्गुरु० ॥ ५ ॥ प्रभु मास
सलेखना लीनी । साचलने विनती कीनीरे भवियां
सद्गुरु० ॥ ६ ॥ प्रभु मास चोमासे ठहरो । लाभ
हुवै अति गहरोरे भवियां । सद्गुरु० ॥ ७ ॥ प्रभु
उहडपुत्र जीवायो । नगर भेलो हुय आयोरे भवियां ।
सद्गुरु० ॥ ८ ॥ प्रभुसेवै उपलदे राजा । मनका सं-
शय भाजारे भवियां । सद्गुरु० ॥ ९ ॥ प्रभु बारे व्रत
उच्चरावे । नगरी सब श्रावक कहलावैरे भवियां । स-
द्गुरु० ॥ १० ॥ प्रज्ञु ओएश वंश स्थाप्यो । मिथ्या
तम जडसें काप्तोरे भवियां । सद्गुरु० ॥ ११ ॥ प्रभु
चरन ज्ञानकी आशा । यो शुभकरण सुवासारे भ-
वियां । सद्गुरु० ॥ १२ ॥ -

काठ्य.

तुभस्वर्धुनीवारिपुण्यप्रवाह
प्रमृष्टे प्रकृष्टे सदा लोकजुष्टे ।

सदा पापतापापहेऽभीष्टदेहम् ।

गुरुणां पदावजे भजे भङ्गलाय ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजिनरत्नप्रभसूरीश्वराय, श्रीजि-
नयक्षदेवसूरीश्वराय, श्रीजिनसिद्धसूरीश्वराय, श्रीजि-
नकफ्सूरीश्वराय, श्रीजिनदेवगुप्तसूरीश्वराय, देवान्
प्रतिबोधकाय, मिथ्यात्वविद्धसकाय, ओएशवंशस्था-
पकाय, जब्तं निर्बपामि ते स्वाहा ॥ १ ॥

अथ द्वितीयचन्दनपूजाप्रारम्भ-

दुहा.

चदन मृगमढ काशमरीं, घसीं घनसार सु भेल ।
जो चरचे गुरु चरनपे, लहै सुरंगा खेल ॥ १ ॥

ढाल द्रूसरी

निमलगिरि ढग धरीए । ए देशी ।

सद्गुरु पूजन करिए सुघडजन । ए आकडी ।
पूजा करतकटै भवफदा । भव भव पातिक कटरिये
सुघडजन । सद्गुरु० ॥ १ ॥ तीन लाग्व अरु सहस चौ-
रासी । श्रावक गुरुगढ करिये सुघडजन । सद्गुरु०
॥ २ ॥ एकदिवस उहडदे श्रावक । करजोरे पद प-
रियें सुघडजन । सद्गुरु० ॥ ३ ॥ नाम नारायण दे-
हरो वनाडं । दिरस वने निशि परियें । सुघडजन

सद्गुरु० ॥ ४ ॥ ये विनति सुन श्रावककी । सद्गुरु
 वयण उचरिये सुघडजन । सद्गुरु० ॥ ५ ॥ वीर ना-
 मसें देहरो वनावो । नाथ ठवि सुखभरिये सुघडजन
 सद्गुरु० ॥ ६ ॥ देवी चामुंडा विम्ब वनावे । वेलु
 दुग्धसें धरीये सुघडजन । सद्गुरु० ॥ ७ ॥ हर्षसें
 पुछै संघ प्रभुसें । विंव कहां शुभ धरिये सुघड-
 जन । सद्गुरु० ॥ ८ ॥ ये सुन सद्गुरु बोले वाणी ।
 विंव साचलदे करिये सुघडजन । सद्गुरु० ॥ ९ ॥
 संघ कहे हम तुरत वतावो । ये इच्छा उर धरीये
 सुघडजन । सद्गुरु० ॥ १० ॥ देर अभिहे सात
 ढिवसकी । जलदि ना श्रावक करिये सुघडजन ।
 सद्गुरु० ॥ ११ ॥ करजोरे पुनःशीशनमावै । सब
 श्रावक पग परिये सुघडजन । सद्गुरु० ॥ १२ ॥
 दरस करावो वीर प्रभुको । हय-गय-रथसुं उव-
 रिये सुघडजन । सद्गुरु० ॥ १३ ॥ सद्गुरु संघ
 सकलसब मिलकर । वरघोडे लेड विचरिये सुघ-
 डजन । सद्गुरु० ॥ १४ ॥ शुभ सम मुहूरत प्रभुकुं
 काढे । नाटक-नृत्य विस्तरिये सुघडजन । स-
 द्गुरु० ॥ १५ ॥ कोटि सोनैया दान जो देके ।
 निछरावलमणि करिये सुघडजन । सद्गुरु० ॥ १६ ॥
 मनसुध भावे भावत याविध । बाह्य मंडपमें धरिये ।
 सुघडजन । सद्गुरु० ॥ १७ ॥ करण कहे शुभ

केसरपूजा । पूजनसें भवतरीये सुधडजन । सद्-
युह० ॥ १८ ॥

काव्य.

मलयचन्दनकुङ्कुमवारिणा
निखिलजाड्यरुजातपहारिणा ।
वहुलगन्धपरम्परया युत
रचितमर्प्यत ईशपदाम्बुजे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजिनरत्नप्रभुसूरीश्वराय, श्री-
जिनयक्षदेवसूरीश्वराय, श्रीजिनसिङ्गसूरीश्वराय,
श्रीजिनकफ्सूरीश्वराय, श्रीजिनदेवगुप्तसूरीश्वराय
देवान् प्रतिवोधकाय, मियात्वविघ्वसकाय, ओए-
शवंशस्थापकाय चन्दनं निर्वपामि ते ॥म्बाहा२॥

इति छितीया चन्दनपूजा सपूर्णा

— —

अथ—तृतीयपुण्पपूजाप्रारम्भ.

दूहा.

घेला मरुआ मालती । केतकी जूही गुलाव ।
चपा चमेली मोगरो । चाढो रुडे भाव ॥ १ ॥

ढाल तिमरी,

मटा पूजां गुरुपाया । भनभय नाग दुरित

विनाश । ए आंकडी । कोरंट श्रावक सवमिल
 आवे । विनति करै समुदाया हो ॥ भव० ॥ १ ॥
 भुवन रच्यो वहां चरमजिनंदको । चलिय तहां
 गुरुराया हो ॥ भव० ॥ २ ॥ ये सुन सहुरु तब युं
 भाखै । वक्तपे आवे उमाया हो ॥ भव० ॥ ३ ॥
 मूलरूपरख निज ओएस्यां । कोरंटवैकी सुं धाया
 हो ॥ भव० ॥ ४ ॥ एकसम गुरु दोय भुवनमें । विवप्रतिष्ठ
 कराया हो ॥ नव० ॥ ५ ॥ ये देख अचरिज बहुत
 मिथ्यात्वी । शिष्य भये समुदाया हो ॥ भव० ॥ ६ ॥
 देवी चांसुडा समकितकीनी । महिष-अजा छुडवाया
 हो ॥ भव० ॥ ७ ॥ छाणा उपर वासक्षेपसें । धन
 अगनित दरसाया हो ॥ भव० ॥ ८ ॥ भूप करन
 गुरु इच्छा कीनी । देवी कहै हरखाया हो ॥ भव०
 ॥ ९ ॥ वाणिक करो गुरुगोत्रअढारे । साख बढे बहु
 ताया हो ॥ भव० ॥ १० ॥ याम-नगर-पुर-पाटन
 विचरे । जहां तहां संघ बनाया हो ॥ भव० ॥ ११ ॥
 याग हिंसादिक दूर कराके । श्रावक व्रत उचराया
 हो ॥ भव० ॥ १२ ॥ जैन मीमांसा कुमति विध्वं-
 सन । नवतत्व वृत्ति रचाया हो ॥ भव० ॥ १३ ॥
 बहुत देशकी कुमति हठाके । जैनधर्म झलकाया
 हो ॥ भव० ॥ १४ ॥ संघ चतुरविध स्थापित कर-
 के । श्रीसंघ पद दरसाया हो ॥ भव० ॥ १५ ॥

सिंहगिरिपर डेढ मासकी । संलेखनाकर सुख पाया हो ॥ भव० ॥ १६ ॥ चरस चोरासी चरमप्रभुसे । माघसुटि सुख पाया हो ॥ भव० ॥ १७ ॥ उपजा छादशमें डेवलोके । पूर्णा तीथि गुरुराया हो ॥ भव० ॥ १८ ॥ तीजी पूजा विकसकुसुमकी । पूजन कर सुख पाया हो ॥ भव० ॥ १९ ॥ करन कहे मम पातिक भाजे । चरन जरन शुभ आया हो ॥ ॥ भव० ॥ २० ॥

काव्यम्

मालती पाटली चैव केतकीसङ्गतोद्वां ।
विकासामोढकुमुम—सन्तति निर्वपामि ते ॥ १ ॥

ॐ द्वी श्री पुण्य निर्वपामि ते स्वाहा
इति तृतीया पुण्यपूजा समाप्ता.

अथ—चतुर्थधूपपूजाप्रारम्भ

दृढा.

द्वाणागर मृगमढ नगर । सेलारस लोवान ।
जो गेवे युक्तवरनपे । जो लहे सुरपुरस्थान ॥ १ ॥

टाल चौथी

मिद्दूषकमद रन्दो । ए देशी । राण आगामी राणा गीष्मे,
सद्युपुष्पद नित रंदोरे भविका । चर्चित होन

आनंदोरे ॥ भविका० स० ॥ राजगृहि सवसंघ मि-
 लकर । विनति पत्र पठावे । बहुतसे श्रीसंघ सामा
 आवे । गुरु पद शिशा झुकावेरे ॥ भविका० स० ॥ १ ॥
 करजोरे पुन विनति करत है । संघ उपद्रव टालो
 यक्ष मानभद्र नित्य सतावे । ताको विघ्न निवारोरे
 ॥ भविका स० ॥ २ ॥ ये सुन विनति सद्गुरु बोले ।
 हम आवे तत्काल । लविध संपन्न लविधसे पहुंचे ।
 पूर्णभद्र चैत्यालरे ॥ भविका स० ॥ ३ ॥ “नमि-
 ऊण” मंत्र गुरु तब भाखे । छांटे जलधर धारा, यक्ष
 प्रसन्न हों सवसें बोले । ये गुरु मोटो उपगारे ॥
 भविका स० ॥ ४ ॥ जीवन छोडे इन चरननसें । मैं हुं
 चाकर दास । समकित लीनो कुमति हटाके । सेवे गुरु
 पद खासरे ॥ भविका स० ॥ ५ ॥ जो इन गुरुकी
 सेवा करेहै । ताके उपद्रव चुरुं । नित नित वित्त सुय-
 श बढ़ावुं । मन इच्छा सव पुर्से ॥ भविका० स०
 ॥ ६ ॥ बहुत उपद्रव शांति कीना । पुर पट्टण विच
 धामे । ऐसे सद्गुरु अष्टम पाटे । यक्षदेव भये स्वामिरे
 ॥ भविका० स० ॥ ७ ॥ पाट अठारमें इण गुरुनामें
 पूर्ण भये गुणवान । पाटनमांहे दीक्षा दिधि । वज्रसेन
 शिष्य सुच्यारे ॥ भविका० स० ॥ ८ ॥ नागेन्द्र-
 चन्द्र निवृति विद्याधर । शाखा चतुर गुरु थापे । उप-
 ज्या पंचमदेव विमाने । नामसें भाजे तापरे ॥ भवि-

का० स० ॥ ९ ॥ चोथी पूजा धूप सुगंधित । धूप
खेयां पुरे आस । करण कहे शुभ सद्गुरु म्हारा ।
दीजो सुमति सुवास हो—भविन्ना० स० ॥ १० ॥

। काव्यम् ।

वितीर्णदिक्सुसौरभम् प्रकीर्णमञ्जधूमकम्
दशाङ्गधूपमुज्ज्वलं निवेदयामि रोचकम् ॥ १ ॥

ॐ ह्री श्री धूप निर्विपामि ते स्वाहा
इति चतुर्थधूपपूजा समाप्ता.

अथ पञ्चमदीपकपूजाप्रारम्भ.

दूहा.

सुरभि धृत सयुक्तसे । वातीं सूत्र नवीन
ज्योतर्हीं दीपक अघ हरे । फेले सुयश भुव तीन ॥१॥

दाल पाचवी.

रेखता रागेन गीयते.

सुगुरु पद आजमें पायो । भाज्यो मिथ्यात्वमो-
मनको । कल्पतरु कलिकालमें देया । गुरुसम और ना
कोड भाजे मिथ्यात्व चरणनमें । अमा सुघ सहजमें होड
॥ सुगुरु ॥ १ ॥ ओएश गढ वीच लघु श्रावक करे ।
पूजा जिनंदकी जी । पुरब चन्द्रमूरि कहि भाग्या । उप-

द्रव होयगा कीजी ॥ सुगुरु ॥ २ ॥ छेदी तन गांठ
जिनवरकी । वही जद रक्तकी धारा । अनिल सम
कोप करे देवी । नगर सब शून्य कर डारा ॥ सुगुरु
॥ ३ ॥ गइ जद बात सद्गुरुपे । पादानुलिखिसें आये
कराइ शान्तिविध पूजन । सकलजन देख हरखाये
॥ सुगुरु ॥ ४ ॥ बजा ढक बाय घरघरमें । सुहागन
गीत मील गावै । बधाइ दे रही गुरुकुंजीवों । युग स-
हस दुनियामें ॥ सुगुरु ॥ ५ ॥ गुरु झट लैश संध
आज्ञा । चले अति शीघ्रगामीसें । मुहुर्तपद स्थानपे
आये । हुवे लयलीन स्वामीसें ॥ सुगुरु ॥ ६ ॥ धरा
पर जैनका डंका । बजा गुरु कक्षसूरिका । हजारों भूप-
सुरसेवें । भाज्या मिथ्यात्व पूरिका ॥ सुगुरु ॥ ७ ॥
श्रवण करो दासकी विनती । परंपद आपो स्वामिजी
चरन रज रोज में मागुं । ये ही सुभ अरजी नामी-
जी ॥ सुगुरु ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥

सुवर्णपात्रसंस्थितैः प्रभाहतान्धकारकैः
सुवर्तिसाज्यदीपकैः प्रदर्शयामि ते पदम् ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं....दीपं निर्विपामि ते । स्वाहा ।

इति पञ्चमी दीपकपूजा समाप्ता.

अथ षष्ठाक्षतपूजा पारम्भः

दूहा,

स्वस्तिक विग्ने भावसे । चाढे मुक्ता निर्धान
ताघर कंसेला आनके । चास करै सत्यजीन ॥१॥

ढाक्क छट्टी

आज आनंद भयो । सद्गुरु चरणसरोज
भ्रमरमनमेरो लिपट रह्यो ॥ आंकडी ॥ गुरु
तारण तरण जिहाजा । सद्गुरु रखीये मेरि
लाजा । मेहुं अभागी सिरताजा ॥ आज० ॥ १ ॥
में आन पड्यो कारागारा । दुःख मोसें सह्यो
नहिं जाय जरा । गुरु करना सुदृष्टि आजभला ॥
आज० ॥ २ ॥ छ लु लु ल सद्गुरु पावां लागु । कक्क
कक्क सूरि नामा भाखुं । दिन रात जयुं हियडे राखुं ॥
॥ आज० ॥ ३ ॥ में अपराध कीया बहू तेरा सो । सब
खमिये सद्गुरुमेरा । सकट काट करो निवेरा ॥
आज० ॥ ४ ॥ नाम जपत चट बेडि टूटी । सात
पुडतकी भखसी फुटी । महीपति हाथ जोडे झट उठी
आज० ॥ ५ ॥ सोम कहे धन धन गुरु राया । आप
गुननके पार न पाया । नामसें भाजे संकट छाया ।
आज० ॥ ६ ॥ ये चित धार दरसकी टानी । शंका
आंनगि राखलमानी । साचलमात जरा रिसयानी ॥

आज० ॥ ७ ॥ जब सद्गुरु साचलकुं ध्यावै । हाथ
जोड़कर देवी आवै । गुरु मुखसे युं फुरमावै ॥ आज०
॥ ८ ॥ गुरु मनसा जान जीवावे । करवट ले उठ-
सो मा ध्याता । धनगुरु तुम जग विख्याता ॥ आज०
॥ ९ ॥ करण कहे सुभ आशा पुरो । मोह प्रचंडसे
करिय दूरो । द्यो गुरु अविचल पद नूरो ॥ आज०
॥ १० ॥

काव्यम्

नानारत्न समाकीर्णानिन्दुकुन्दयुतीनहम्
श्वेताक्षतान् सृदून् सम्यग् । अर्पयामि शुभावहान्
जुँ ह्रीँ श्रीँ....अक्षतं निर्वपामि ते स्वाहा ॥

इति अक्षतपूजा समाप्ता.

अथ सप्तनैवेद्यपूजापारम्भः

दूहा.

मोदक सुंदर नवनवा । पचधारी वृतपूर
चाढे रुडे भावसे । जावे संकट दूर ॥१॥

ढाल सातवीं.

राग केरवा.

सद्गुरु चरणसु मेरे मन वसीया । शैल अचल
गुरुराज पधारे । दर्शनकुं संघ आवै उहसिया ॥ सद्गुरु

॥ १ ॥ करजोडे पुन विनति करतहैं । लुल लुल लागे
 पावें फरसिया ॥ सद्गुरुण ॥ २ ॥ वहुत तृपा व्याधि
 श्रीसंघकुं । चट उठ युह पथ स्थान दरसिया ॥ स-
 दगुरुण ॥ ३ ॥ डांग इसरे अमिजल निकला । लख
 यश गावत देत हरसिया ॥ सद्गुरुण ॥ ४ ॥ पीकर
 नीर हए संघ खुसीमैं । जल अगाध विलोकि तर-
 सिया ॥ सद्गुरुण ॥ ५ ॥ पंच प्रमाणिक अन्धके कर्ता
 । तरणि प्रकासिक तेज वरसिया ॥ सद्गुरुण ॥ ६ ॥
 तर्क सुक्षेत्र समासकी टीका । रच-वह अर्थ गंभीर
 दरसिया ॥ सद्गुरुण ॥ ७ ॥ दधि सम गुणगण कक्ष-
 सूरिके । नामसें भाजे कलुप कुरसिया ॥ सद्गुरुण
 ॥ ८ ॥ उपज्या पचम देव विमाने । गावत गुणजन
 प्रात उहसिया ॥ सद्गुरुण ॥ ९ ॥ त्रय चतु पाट
 सूरि गुहराया । शासन मंगल सकल वरतिया ॥ स-
 दगुरुण ॥ १० ॥ धन धन करण कहे शुभ स्वामी ।
 मुज मनमान्दिर तुम गुण वसिया ॥ सद्गुरुण ॥ ११ ॥

काव्यम्

प्रभूतभेदभोज्यकै—र्वट्यैस्सुसंस्कृतम्
 सुसर्पिष्मवमोदकम् निवेदयामि तुष्टिदम् ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रौं नैवेद्यं निर्वपामि ते स्वाहा.
 इति नैवेद्यपूजासमाप्ता.

अथ अष्टमफलपूजाप्रारम्भः

दूहा.

फल ढौके पातिकगले । नूतन मिष्ठ अनूप
यग पग पामें संपदा । निर्धनियां धनरूप ॥ १ ॥

दाल आठवीं.

श्री रामेण गोयते

गुरुपदपूजा सुरदरु कन्द । धन धन सद्गुरु
अतिशय धारी । तेज प्रताप अखंड ॥ गुण ॥ १ ॥
दोय पूरबधर पेंतिस पाटे । विद्या गुण निधि वन्ध ॥
गुरु ॥ २ ॥ दैव कङ्घि गणि इनकने पढिया । डेढ
पूरब श्रुति छन्द ॥ गुण ॥ ३ ॥ क्षमाश्रमण पद स-
द्गुरु दीना । विद्या वकसी गुप्त प्रवन्ध ॥ गुण ॥ ४ ॥
आप तखत जिस दिवस विराज्या । आप्या पाठक
पंच ॥ गुरु ॥ ५ ॥ बहूत उपद्रव रोग निवार्या । क-
हेतां न आवे खंच ॥ गुरु ॥ ६ ॥ भुवन शखेश्वर
ध्यान करंता । भाखे पद्मावती वंच ॥ गुरु ॥ ७ ॥ संघ
उद्योत कीया जब गुरुने । हटिया कुमति कुपन्ध ॥
गुरु ॥ ८ ॥ बहुत मिथ्यात्वी मिथ्या तजके । समकि-
त लीना नन्द ॥ गुरु ॥ ९ ॥ भेसा साहका कुष मि-
टाया । भाज्या दलिद्र अखंड ॥ गुरु ॥ १० ॥ विषा-
पहार लब्धिका धारी । पाटवान नभतेज अखंड ॥
गुरु ॥ ११ ॥ सुगुरु मेहरसें भेसा साने । कीना नाम

अखंड ॥ गु० ॥ १२ ॥ धन धन देवगुरु महाराजा ।
 पायो सुर पुर तीज अनन्द ॥ गु० ॥ १३ ॥ करण
 कहे सुभ आशा पुरो । यो गुरु समकितानन्द ॥
 गु० ॥ १४ ॥

काव्यम्

सदाम्रजम्बूमोचकैः । श्रिय. फलैर्विभूपितम्
 सुखर्जुरी—सुकर्कटी—फलोधर्मर्पयामि ते ॥ १ ॥
 उँ ह्री श्री फलं. निर्वपामि ते । स्वाहा
 इति अष्टमी फलपूजा समाप्ता

अथ नवमवस्त्रपूजाप्रारम्भ-

द्रहा

केसवगन्ध सयुक्त से । उज्ज्वल वस्त्र अनुप
 चाढे सद्गुरु चरणपे । भाजे व्यथा स्वरूप ॥ १ ॥

ढाल नवमी

रस्त्राली रागेण गीयते,

धन धन सद्गुरु हे महाराज । अनुभव ज्ञान
 जचाने वाले । नव लख सूरि मंत्रको जाप । जपकर
 सूरि भये हे आप । नामसें भाजे कुष्ठ सताप ।
 आगम पन्थ बताने वाले ॥ धन० ॥ १ ॥ गुर्जर देश

रोग अति भारी । ता पर कोप्या देव विकारी । दुःखि
भये सवहि नर नारी । भागके जान बचाने वाले
॥ धन० ॥ २ ॥ सुनके सिंहसूरिका नाम । चलके
आये संघ तसाम । विनति वंदन करे अति गाम ।
भवोदधि पार लगाने वाले ॥ धन० ॥ ३ ॥ सुगुरु कहे
संघ क्युं धवरावे । इति उपद्रव तुरत नसावे । चइत्ता
भार पाठ बतावे । तत्क्षण फंद हटाने वाले ॥ धन०
॥ ४ ॥ सहुरु वासक्षेप जिहां डाले । रोग उपद्रव तुरत
पुलावे । खुस हो के श्रीसंघ घर जावे । युरुसें नेह
बढाने वाले ॥ धन० ॥ ५ ॥ पुनस दिवसे संथारा
करके । उपजे सुरपुर चोथे विचरके । संघ करे भक्ति
बहु घरके । सुभकुं दरस दिखाने वाले ॥ धन० ॥ ६ ॥

॥ काव्यम् ॥

सकलभुवनलज्जावारणं सद्ग्राकं
सहुरुचिरसुगन्धं कुन्दचन्द्रप्रकाशम्
विसलशुचि सुधौतं प्रांशु दीर्घं सुवर्णं
वसनमिदसमौलं सुन्दरं ते ददामि ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं वस्त्रं निर्वपामि ते खाहा.

॥ इति नवमी वस्त्रपूजा समाप्ता ॥

अथ दृश्मध्वजपूजाप्रारम्भः

दूहा

कनक रजत ध्वज दडमय ।

पच वरण ध्वजपुर

मृदु समिर लबके गगन ।

देखत अरि वसु दूर ॥ १ ॥

ढाल दशभी

र्यालकी वालमें.

सरने आया की लजा राख ल्यो सहुरुजी
मारा । ए आंकडी । सिधुदेश मुलतान नगरमें ।
मुगल बडे उत्पाती । जाको देखे तिलक लगाया ।
जब वन आंन मिटातेजी ॥ स० ॥ १ ॥ बहुत उप-
द्रव संघकुं दीना । हु खी हुए नर नारी । मिलकर संध
युरुपे आया । विनति करे अति भारीजी ॥ स० ॥ २ ॥
लाहोर नगर साहका लडका । मृतक हुवा उस वारी
सुनकर नामे गुरुपे आया । लास धरी इणवारी जी
॥ स० ॥ ३ ॥ दृष्टि मात्रसे तुरत जिवाया । उठा पुत्र
तत्काल । सोगन लीना मदिरा मांसका । पुत सहित
पातसाहजी ॥ स० ॥ ४ ॥ रोग उपद्रव तुरत भ-
जाया । यवन दुख सब रोका । श्री सघ साथे आये
कानन । नदी तीर तप कीधा जी ॥ स० ॥ ५ ॥

अष्टम भक्तकी करी तपस्या । पद्मा साचल आइ ।
 सरिता तटपे मूर्ति वताइ । सर्व धात सुखदाइजी
 ॥ स० ॥ ६ ॥ श्री ऋषेसर स्तुति करके । काढी
 मूर्ति पयाल । तिनका स्नान करके सद्गुरु । छाँय
 नगरमें हालजी ॥ स० ॥ ७ ॥ भजा उपद्रव हाल
 मारिका । खुसी हुए नरनारी । मुलतान शहरमें
 महिमा केलि । जैन धर्मकी भारिजी ॥ स० ॥ ८ ॥
 चतु मुनि पाट सूरि युगराया । सिद्धसूरि महाराज
 लाहोर अंदर सब जन पूजै । सिद्धगुरु सुभ आजजी
 ॥ स० ॥ ९ ॥

काव्यम्.

नानावाद्यनिनादकैः सुखकरै गन्धर्वलीलायितम्
 सौधैलेपविशेषकैस्सुरभिर्भिर्विप्रवाहैमुदा
 सद्वस्त्रादिविचित्ररत्नरचितैः सौगन्धसन्दोहकै
 युक्तं श्रीगृहमीदृशं तदुपरिच्छत्रध्वजे स्थापये ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्री. ध्वजां निर्वपामि ते स्वाहा इति
 इति दशमी ध्वजपूजा समाप्ता ॥

कलश.

(रागधन्यासरी).

सुगुरु तेरो तेज दिवाकर छाजे । पार्श्व
 प्रभुके निज सन्तानी । रत्नप्रभु सूरिराज । तिनके गूण

माणि भूमें पसरे । नाम सुनत अघ भाजे ॥ सु० ॥
 १ ॥ उपकेश गच्छ विद्याधर शाखा । कमला विरु-
 द सुछाजै । तिनके पाट पाटानुक्रमसें । देवं गुप्तसू-
 रिराज सु०॥२॥ तिनके शिष्य पाठक पद सोहे । भा-
 मसुन्दर गूरुराज । ताके शिष्य कल्यानसुन्दरसुनि ।
 पाठक विरुद्द समाज ॥ सु० ॥ ३ ॥ लविद्यसुन्दर
 तिनके पदसेवक । नाम लेवत होय काज । तिनके शि-
 प्य पाठक पद उत्तम । खुश्यालसुन्दर महाराज ॥
 सु० ॥४॥ साता साचल जाय मनाइ । सकल गूणि
 शिरताज । देश देशके भूप नमाये । गावत गूण गौरी
 आज ॥ सु० ॥५॥ वखत सुन्दर लघुकनक किरति
 मुनि । गणिपद पेटी सुसाज । तिनके शिष्य विद्या-
 गुण पूरण । लक्ष्मीसुन्दर कविराज ॥ सु० ॥ ६ ॥
 भवानीसुन्दर तिनके लघु भ्राता । पडित शीलवि-
 राज । नेमसुन्दर अनुज न्यालसुन्दर गणि । किरति
 चहु दिस गाज ॥ सु० ॥ ७ ॥ तिनके चरण कज
 सेवक नायक । सुन्दरगणि अति छाजे । तिनके शिष्य
 गितारथ पडित । विवेकसुन्दर गणिराज ॥ सु० ॥८॥
 तास चरन रज सुमति सुन्दर वर । पूजा रचि सुख
 आज । संवत् शशि नव रस अह (१९६८) फागण ।
 चोय वदि सुसमाजे ॥ सु० ॥ ९ ॥ सध्या लङ्कर

माधव राज्ये । लाफ वजारमें गाजे । सद्गुरु पूजा प्रे-
ससें कीनी । शुभकरण कहे आज ॥ सुष ॥ ३० ॥

इति सुगुरुमहाराज दादाजी रत्नप्रभसूरि आदि
गुरुवरोंकी बृहत् पूजा शुभकर्णयतिकृता संपूर्णा ॥

आरति.

जय गुरु हितकारा । आरति मंगलचारा । सब जन मुखकारा ॥
प्रथम आरति रत्नप्रज्ञुकी । धर्मयुरंधर धीरा । शासन नायक जग
गुरु स्वामी । शिव रमणी वरवीरा ॥ जय० ॥ १ ॥ द्वितीय आरति
यक्षगुरुकी । ठाले संकट रोगा । निर्धनीयांकुं भूप करत है । आपे
अविचल भोगा ॥ जय० ॥ २ ॥ तृतीय आरति देवगुरुकी । बन्धा
पुत्रको पामे । कारज सारे जगके स्वामी । यनवांछित हो काम ॥
जय० ॥ ३ ॥ तूर्य आरति सिद्धगुरुकी । जावै कुमति मोहा । ध्यान
करता सुमति आवे । लोहा कंचन होवे ॥ जय० ॥ ४ ॥ पंचमी आरति
कक्षगुरुकी । कर्म हटावे सारा । आवागमनसे दूर करत है । ऐसे
सद्गुरु म्हारा ॥ जय० ॥ ५ ॥ करण कहे शुभ सद्गुरु पदको ।
नित नमुं कर जोडा । भव भव व्याधि मेटो हमारी । आपो अनुभव
तोरा ॥ जय० ॥ ६ ॥

॥ पंच पाटकी आरति संपूर्णा ॥

आरति.

जय जय आरति सुगुरु तुमारी । तोरा चरन कमल जाउं वलि-
हारी । महेन्द्र चूड-लक्ष्मीवती नन्दा । वदन कमल मुख पूनमचन्दा ॥
जय० ॥ १ ॥ सात हाथ तनु सोवन काया । ले दीक्षा गुरु धर्म दी-
पाया । जय० ॥ २ ॥ तुम गुण पुरन तुम गुण हंसा । विद्याधर कुल

तम वसा ॥ जय० ॥ ३ ॥ केशि गणधर पाट उजारा । रत्नप्रभ
 सुरि नाम तुम्हारा ॥ जय० ॥ ४ ॥ देवी चामुडा समकित फीनी ।
 मुगुरु चरण रज लुङ्क लुङ्क लीनी ॥ जय० ॥ ५ ॥ पद्मा-अम्बा
 यक्षादिका देवी । मुर मुनि भूषित करत है सेगा ॥ जय० ॥ ६ ॥
 इक अमतारी कारज सिद्धा । वारमा मुर मुर भोगे न चिना ॥
 जय० ॥ ७ ॥ जो कोइ आरति रहे रहते । मन इच्छा फल तुरते
 पाते ॥ जय० ॥ ८ ॥ करण कहत शुभ सद्गुरु नामी । तुम पद
 सेगा दीजै म्यामी ॥ जय० ॥ ९ ॥

॥ इति दादाजी रत्नप्रभसूरीणा आरानिका संपूर्णा ॥

सुगुरु महाराजकी लघुपूजा प्रारंभ.

जलपूजा

शुभस्वर्घुनीवारिपुण्य प्रवाद—प्रमृष्टे प्रमृष्टे मदा लोकजुषे ।
 सदा पापतापापहेऽभीष्टेऽहै गुरुणा पटाव्जे भजे मङ्गलाय ॥ १ ॥

ॐ श्री श्रीख्यप्रभसूरीभराय, जन्मजरामृत्युनिवारणाय, जर्ज
 यजामहे ॥ स्वाहा ॥ १ ॥

चन्दनपूजा ॥ २ ॥

मर्यचन्दन कुङ्कमगरिणा । निरिलजाड्यरजातपद्मारिणा
 वहुलगन्धपरम्पर्या युत । रचितमर्प्यत ईनपद्मव्युजे ॥ २ ॥

ॐ श्री श्री चन्दन यजामहे । स्वाहा ॥ २ ॥

पूष्पपूजा ॥ ३ ॥

मान्ती पाटी चैर केतरी यद्वृद्ध
 रिकामामोऽद्वृशुभसन्तर्ति निरपामि ते ॥ ३ ॥

ॐ श्री पूष्प यजामहे म्नाहा ॥ ३ ॥

धूपपूजा. ॥ ४ ॥

वितीर्णदिक्सुत्सौरभं प्रकीर्णमञ्जयूमकम् ।
दशाङ्गधूपमुज्ज्वलं निवेद्यामि रोचकम् ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं....धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

दीपकपूजा. ॥ ५ ॥

सुवर्णपात्रसंस्थितैः प्रभाहतान्यकारकैः
सुवर्तिसाज्यदीपकैः प्रदर्शयामि ते पदम् ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं...दीपं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

अक्षतपूजा. ॥ ६ ॥

नानारक्षसमाकीर्णा—निन्दुकुन्द्युनीनहम्
श्वेताक्षतान्मृदुन्तस्यग् अर्पयामि शुभावहान् ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं....अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

नैवेद्यपूजा. ॥ ७ ॥


प्रभूतभेदभोज्यकै—र्वैर्यवैसुसंस्कृतम्
सुसर्पिपक्वमोदकं निवेद्यामि तुष्टिदम् ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं...नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

फलपूजा. ॥ ८ ॥

सदाम्रजम्बूमोचकैः श्रियः फलैर्विभूषितम्
सुखर्जुरीं सुकर्कटीं फलौघमर्पयामि ते ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं....फलं यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥



॥ श्री वीराम नमः ॥

श्री सागरानंदसूरि हीक्षा भत अंडल

वाने

हीक्षा अने संघसत्ता संबंधी

शास्त्रीय खुलासा.

वर्णनार्थ—पठित श्रावक छीराकाल दंसराज
(नाभनगरवाला,)

प्रभिद्ध करनार,

अपतनाल य द्रक्षाणु केहारी रापनपुरवाला

सप्त १६८५

स० १५२८

सकल सघने भद्रपद्योग करवा विनति हे.

ભાગને લાગ્યું કે માત્ર પોતાની દુઃખને તુધિન ન ભાગી તેને અંગેજ કે પુસ્તકથી અહૃત પડાવવામાં આવી છે, ત્યારે પણ તુંઘભાગમાં જૈન શુદ્ધ સંદેશ દીક્ષા સંખ્યામાં એક નિયમાવધી વરી, અને તે પ્રચાર અર્થે અહૃત ગામેામાં જાહેર કરાવી, આપી શ્રી સાગરાનંદસૂરીને એમ લાગ્યું કે માર્દ પુસ્તક તો બીજાફુલ કામ કરી શક્યું નહિં, તેથી પુનર્થિ જન સમાજ ઉપર પોતાની છાપ ઐચ્છાઓ એક પેમ્ફ્લેટ ૧૮ કલમો વાળું અહૃત પાડ્યું, અને વિદ્ધ પણને વિરાધીઓ નાસ્તિકો વિગેરશી સંધોદી આનંદ માન્યો.

પરંતુ આ બધું સાગરનું મહારાજનું અર્દુધરદનજ છે. કારણું કે તેના વિચારો સાથે અત્યારે જન સમૂહનો મોણો ભાગ સંમત નથી. તેમજ શાસ્ત્રના કે પાડો તેઓ અહૃત કરે છે. તેમાં પણ પોતાને સંમત વિષયોજ હાખલ કરે છે, અને બાકીનો ભાગ શુદ્ધ રાખી દીઓ છે. એટલે ધરાધારૂર્ણક છુપાવી રાખે છે. સાગરાનંદસૂરીનું ઘણે પ્રસંગોએ પોતાની પુસ્તિકામાં તથા જૈન પ્રવચનના વંદારા રૂપે અહૃત પતેલા પેમ્ફ્લેટ વિગેરભાં મનગમતી વસ્તુઓ હાખલ કરી અન્ય છાડી દીધી છે. તેમજ અપવાહ માર્ગને સિદ્ધાંતસૂપ સમજવવા પ્રયત્ન સેવ્યો છે, એ બધું જૈન સમાજ સારી રીતે જાણી શકે એ હેતુથી આ લધુ પુસ્તક તેઓશીના જવાબ રૂપે લખાયું છે.

આ પુસ્તકમાં સુધ્ય એ સુદ્ધાઓને વર્ણવામાં આવ્યા છે.

૧ દીક્ષાની વય.

૨ સંઘ સત્તા.

૧ દીક્ષાવય સંખ્યામાં જણાવવાનું કે કે આડ યા ન ર વર્ધની દીક્ષા શાસ્ત્રોમાં કહી છે, તે અતિશયસપ્તન પુરુષોને માર્ગેજ છે, પરંતુ દરેકને માર્દ તે લાગ્યું પાડી શકાય નહિં. અને તેથી એમ સાણીત નથી થઈ જતું કે તેણી ઉમ્મદે દીક્ષા દ્વારા દેવી. તે ઉપરાંત દેશ કાળને અતુસરવાનું આપણા પૂર્વચાર્યાએ ટેર ટેર જણાયું છે, અને તેઓના દરેક દરેક અંશોમાં દેશકાળને મહત્તા આપી છે, તે વસ્તુને સાગરાનંદજ મહારાજ ભુલી ગયાં, અથવા તો જાણી જોઈની સ્વમત પુણિ અર્થે છુપાવી રાખે છે. પૂર્વે પણ દેશકાળને અતુસરી ફેરફારો થયા છે, અને થવાજ જોઈએ

એ વસ્તુનો વિચાર કરવા માર્દ આપણું થાડીક ઉંડી બાબ-

तोमा उत्तमु पडो दुनियामा व्रष्ट तत्त्वो उपर्युक्त होय छे, पाँच, सापन अने सारङ्ग

१ भाष्य एहेले के चीजने अथवा के अयगे आपसुने पडो यसु होय, अथवा तो ज्या आपसे जनानी अथवा के मेणामानी छिंगा होय, ते भाष्य

२ के वस्तु वउ भाष्य अयगे पहोची शकाय, अयवा के सापनोधी ठिक्कित वस्तु मेणवी शकाय तेने सापन कहेनाय ३

३ के भाषु भाषी आवक अने आविका, ऐपलुज नहीं पछ अनुभ्य भास के लेगो ठिक्कित अयगे पहोचवानी ठिक्कामाणा होय ते सारक कहेनाय

हुवे पहेली चन्तु भाष्य छ, ते वस्तुमा कापी कागे देवदार की शकाय नहीं, अने देवदार क्यो योग्य पापु नयी, परतु धील वस्तु सापनमा देवदार समयोतुसार करेना लेख्नें अने के ते कुम्कागे न द्वामा आरे तो साध्य वस्तुने पहोची शकाय नहीं

अहि नीक्षाना पित्यमा आ वर्ण वस्तुओ फैवी रीते घटावी गाय ते विचानें

१ भाँय गु ?

मोक्ष अथवा स्वर्ग

२ भासन गु ?

दीक्षा अयवा बर्दिया
अयवा शाश्र वाचन

३ भासन केहु ?

साथु भासी आवक अने आविका

हुने ते वस्तु भासन तर्हि के, तेमा देश कागने अनुभगी देवदारे दरसा ले, जे नीचना दाखलाओधी सिद्ध थए शक्ने

१ योवा आइने हेतु अने पाचमा आगानी नउआतमा आर महानतोभावी पाच महावतो करामा आव्या छे के गौतम देवीय सचादथी भिद्ध वर शक्ने हो (याचो उत्तराध्ययनसूत्र)

२ प्रवम इ आरन्यकमाज प्रतिष्ठभण्ड ठिया भमार्त थती हुती, तेमा हात कान उमे डेउलीक वस्तुओ नीकाणी गर्न अने अन्य वस्तुओ दाख्य कर्वामा आरी हो

३ सकलार्दितनी भुति प्रतिष्ठभण्डमा दाखन वर, गातिस्तर प्रतिष्ठभण्डमा दाखल थयु, अने ऐपलुज नहिं पापु वाव्यड के अघने उपदेश कर्ता हुता, तेने गात दरसा भारे अभयने लेउते देवमय इम्बुचिल्लो आतम्यानी भुति प्रतिष्ठभण्डमा दाखल कर्वी

૪ ત્યારે પછી 'સકળ તીર્થ વંદું કરેજોડ' નું ચૈત્યવંદન ગુજરાતી ભાષામાં હાખલ થયું તે પણ સમયને અનુસરીને દેરદાર થયો છે.

૫ માગધીમાંથી સંસ્કૃત, અને સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી ભાષામાં સ્તવનો સનાયો, એને ચૈત્યવંદનો થવા લાગ્યાં, અરે! એરલુંજ નહીં પણ નાચીય રાગ રાગણીઓમાં સ્તવનો દરી ગયાં, એ બધો સમયનોજ પ્રલાવ છે.

આ ઉપરાંત પણ અનેક હાખલાઓ રજુ કરી શકાય તેમ છે. તેવીજ રીતે દીક્ષા સંબંધમાં પણ ૧૧ પ્રતિભાના વહુનતા કુચા કરાવ્યા ખાદજ વર્તમાન કાળમાં દીક્ષા આપવી યોગ્ય છે, એવું પચાસક અંથમાં લખ્યું છે, તે અનુસારે તેમજ હુમણુના સંચોંગા તપાસતાં કાચી ઉમરના ખાળેને અત્યરે દીક્ષા આપવી તે ઘણુંજ અવયવહાર અને લયાનક છે.

૨ સંધસતા આ વિષયમાં જણાવવાતું કે દીક્ષા દેવાના ધૂનમાં તથા પોતાનો સમુદ્દર વધારવાની લાલસાના પરિણામે સારાસારનો જે વિચાર મુકાઈ ગયો, ચોઝાયોયનું ભાન ન રહ્યું, એરલુંજ નહીં પણ જે સંધને તીર્થકરો નમસ્કાર કરે છે તે સંધને પણ તે કોણ છે? તેની સત્તાને હું માનતો નથી, વિગેરે શષ્ઠેથી નવાળ તેની અવગણના કરે છે, તે ખરેખર ખેડજનક છે. શ્રી સાગરલુભુરાજ તેમજ તેના અતુયાચીઓ કહે છે કે "આણાજુતો સંઘો" એરલે કે આજાયુક્ત એજ સંધ ધીંજે નહીં, પણ તેઓને જણાવવાતું કે તે આજા કેની જિનેથર ભગવાનની કે સાગરાનંદજની પોતાની? અમારા વારવા પ્રમાણે જિનેથરની આજા હોઈ, શકે, તો પછી કયો નૈન જિને થિરની આજા નથી માનતો? કયો જૈન જિનાગમની અવગણના કરે છે.? અમારા નામંતંય પ્રમાણે કોઈ પણ એવો જૈન હોયજે નહીં. માત્ર દેશકાળને અનુસરી સાથેનોમાં કંઈક દેરદાર કરવા સંધ હુચ્છે છે અને તે પણ માત્ર સાથનમાંજ, નહીં કે સાધ્યમાં. અને તે વસ્તુમાં શાસ્ત્રીય બાધ કંઈ આવતો નથી. એ સ્પષ્ટ છે, તો પછી શા આપે દેશ કાળને અનુસરી દેરદાર ઈચ્છિતા સંધને આજા વિરોધી ઠરાવાય છે? તે સમજુ શકાતું નથી.

છેવટમાં આ પુસ્તક છપાવવામાં ઘણું ઉતાવળ કરવી પડી છે, તેથી ઘણા વિષયો હાખલ કરી શકાયા નથી. તેમજ છાપવામાં પણ દૃષ્ટિદેશી કંધાંક સંખલના થઈ હોય તો તે વાચક ગણ ક્ષાંતંબ્ય ગણશે. અસ્તુ.

सागरानंहसूरि दृक्षा भत अंडन याने

दृक्षा अने संघ सत्ता संभंधी शास्त्रीय

भुलासा.

लेखक—पटित हीरालाल ह सराज जमनगरवाला.

हालमा जमनगरमा यतुर्मास रहेला आगरानहसुरियो
पोताना व्याख्यानमा केलाक ओगवालबाईयो अने बाध्योनी स
भक्त यतुर्नि संघना नामे ‘जैन दीक्षा’ तथा, जैनसाधुनी मत्ता’
ना अभ्यर्मा केलुक निवेदन करी पोताने भनगमतो ठारप पसार
करी ते निवेदननी अपानीस प्रथनी एक चापडी छपानी घहार
पाडी छ, ते चापडीने भथागे तेओ पोताने “जैन आगमेना
अध्यु अक्ष्यासी” तरीके ओशाखावे छ परतु तेमहु ते निवेदन
जैनआगमेथो निरुद्ध छ? के जैनआगमेने अनुसरतु छ? ते भाटे
नीचेना भुलासो वाची निवेदी भाषुसो जउर नियार करेह, अने
ते भाटे प्रथम नीचे जखावेला एक कठिपत हषातपर धान आपरो.

हेष्टुक शहुरमा एक रनाथ्य शोड रहे छ, तेने दीक्षाकुमारी ना-
मनी एक कुमारी पुत्री छ, अने ते हुमेशा नप्रयुनतीज
छ ते शहनी मुख्य जेवा शहुरमा एक हुकान छ, अने तेनो वहुनर
ते गोड नामेलो। एक पगारदार मुनिम चलावे छ एक दिनसो ते शेड
पोताना ते मुनिमने लाग्यु के अमारी पुत्री दीक्षाकुमारीतु येवीशाल
(अगपत्) करवु छ, भाटे त्या मुख्यमा कोइ सारा धननान, विवेदी
कुटु भनो लखेलो गणेलो अने सउप्यान छाकरो तमोने जखाय तो
अमोने अभर आपगो हुवे ते मुनिमतु भन अहर आनेधी गोड
तरह नारज धयेलु हु, केम्फे एक ऐ वर्ष पहेला तेषु पोताना
एक दीक्षा भाटे गोडनी ते पूर्वीतु भागु कुर्सु हु, परतु ते अयो
व्य भागु जाणीने गोड तेनी ते भागणी तरह ध्यान आयु नहेहु
तेधी आ सभये अनभरने हाथ आय्यो जाखी ते मुनिमे पोताना
ते अपमाननो अद्देलो दोनानो निक्षय कर्यो तेधी तेवे पोतानो ते

ઈરાଦા પાર પાડવામાં શેહને ફીલ્ડી લાંબું કે, આપણી ને દીક્ષા-
કુરી ' સગપણ કેલા વાઈની ઉમરના છાકરા સાથે કરવું છે? તેનો
અભાસો તુરન લાખો જગ્યાએં. ત્યારે શેડે તો પોતા ચરણે મનથી
મનથી છીને કાગળ લણી ને સુનિમને જગ્યાંબું કે, ઓછામાં ઓછી
નવવર્ધની ઉમરવાએં છાકરા શાખવો, પરંતુ તો તે || વચ્ચારે ઉમરનો
મંગો તો વચ્ચારે ચાઢું, પરંતુ મંગારી ઉમરનો ન મંગો તો એક અપ-
વાદ તરીકે નવ વર્ધના છાકરા સાથે ન ચુકે તમારે સગપણ કરેવું.
આ છીને કાગળ લખતી વેળાંગે શેડે વિચારું કે, છાકરના ખીજ
સવણા ગુણોમાટે તો મં સુનિમને પ્રથમના કાગળમાં લાંબુંજ છે,
અને તેતેના ધ્યાનમાંજ છે, તેથી આજના કાગળમાં તો તેના લખવા
મુજબ શેડે રેંટ તેની ઉમર મારોજ ઘુસારેં લખ્યા હતો. હુદે
ઓરોતે ઉમરના ઘુસાસાવાએં તે છીને કાગળ સાચવી રાખીને શેડે
તે છાકરના ગુણો માટે લખેલો પહેલો કાગળ તે સુનિમે ઝડી નાખ્યો,
તથા ત્યાં સુંઅધિમાં કોઇ શેહના નવ વર્ષેની ઉમરવાળા એક આંગે
આંખળા છાકરા સાથે દીક્ષાકુમારીનું સગપણ કરી નાખ્યું, અને તે
સમાચાર તેણે શેહને પણ લખી નાખ્યા, કે આપના લખવા મુજબ
અત્રેના અમૃક શેહના નવ વર્ષેની ઉમરવાળા છાકરા સાથે આપણી
દીક્ષાકુમારીનું સગપણ કરી નાખ્યું છે, તથા તે છાકરને સાથે લેઈને
હું બેચાર દિવસોમાં આપની પાસે આવું. હું, ત્યારખાદ તે એક
આંગે અપંગ છાકરને લેઇ તે સુનિમસાંહેલ શેડપાસે આવ્યા, ત્યારે
તે છાકરને જોઈ શેડે સુનિમપર ગુસ્સે થિય કહુંનું કે, મારે આ સગપણ
મંજુર નથી, એમ કથી તે સુનિમને શેડે પોતાની નોકરીમાંથી બર-
તરદે કર્યો. તે સમાચાર પહેંચવાચી ને સુનિમના કેલાક લાગતા
વળગતાઓએ, હુરત દ્વારી આવી શેડે તોડી નાખેલા તે સગ-
પણ અયોધ્ય ઠરાવી પોતાના રાન્યસાં તેવું અયોધ્ય સગપણ કોઈથી
કરવું નહીં, એવો ઠરાવ ખાલુર પાડવો. એ રીતે શેડે તથા રાન્ય
તરદેથી અપમાન પામેલા સુનિમના ભગતીયાઓ નારાજ થિય
પોતપોતાને ડેકાણે ચાલ્યા ગયા. ત્યારખાદ તે સુનિમે શેહના કેલાક
સંઅધિઓને ઝડીને પોતાની વગમાં લેવાતું કામ શીર્દ કર્યું, અને
તેથી સુનિમતરદેથી તેના એક માનીતા બનવાન દલાલ મારેંતે અમૃક
જતની લાલચ ભગતાં તેં. અમૃક જુજ માણસો જગતનાં રીવાજ

(3)

મુજામ તે મુનિમભાલેખની તરફેથી કરના લાગ્યા કે ચાં મગાપદુમા મુનિમભાડેખતો હા હોય છે? તેણે તો ગેહના લાગ્યા સુજાજ મનમન કર્યુ હતુ, પણ તેઓ મનમા તો લાખુતા હતા કે, મુનિમે કરેલુ મનમન અયોગ્ય હતુ

ઉપરનું હાથાત વખતાની ભાતલમ એ કે શ્રીમાણગણ દ્વારાનિઃ એ નરવર્ણના બાળકને દીક્ષા આપવાના સંખ્યામા પ્રત્યચનમાગેદ્વારાની માનમેને તુંમી ગારાની દીકાનો ખુલ્લામો કરતા “બાલ” ગણને કાંઈ હું છે કે—તાત્ત્વ વર્ણની જોગે ઉમરનાળાને દીક્ષા ન આપાય, પણ નર અને તેરી પરાગે વર્ણની ઉમરનાળાને દીક્ષા આપાય, એઠાં ખુલ્લામો હની તેજ ગારાની દીકાનો બાઢીનો ભાગ પોતાની માન્યતાની પુણિ મારે રિશાપૂર્વક ગેરી દીંગાછ, કેમકે તેમા ગારું-ને ખુલ્લી હીતે આળકને દીખા આપવાની ભના હની છે,

તે છોડી નીરેઓ દીકાનો લાગ નીચે સુજામ છે—

ન્હાની ઉમરના બાળકને નીક્ષા આપવાની કેરા અતિર્યો તથા લેત શાસ્ત્રાની દીક્ષાના થાય છે, તે મારે પ્રત્યચનમાગેદ્વારાની દીકાના શ્રી ભિદ્ધમેનથનિઃ તે બ્રથની તેજ્વુંમી ગારાની દીખમા લખેઠેકે-
‘ ગાન્ધીધારે મધ્યમદ્રિરાધનાદયો દોષા , સ બ્યાંગોલ્સમાનો યતો
યતઃ સ્પર્શતે, તત્ત્વતો ‘જ્ઞાનિત્વત્તુ પદ્માયારધી ભરતિ, તથા નિર-
નુઝ્ઞાઃ ત્રયણા’, યદે ગાન્ધાર્યિ પગદુ દીક્ષા કારણારે પ્રક્ષિપ્ય
સ્વર્ણતામુર્ચિદતોતિ જનનિંદા

આય—માર્ગનો દીક્ષા આપવાની તેમા ચારિ ની રિગધનાલિદોષો ઉત્પન્ન થાય છે, કેમકે તે જાગ્ર અગ્રાની તેજાથી અરેખગ લાખડના જોગાની પેરે
જાં જાં અદુકાં હરે છે, તાત્ત્વ રૂપાય ઉત્તાની દિગા થાય તે, જાં
લાંદમા પણ તેરા માર્ગનો પણ નગાતમા દીખા આપવાથી જેરીનિર્દાયા
છે કે, એ કે ‘આ નૈનમાણુંના તેજા નિર્દ્ય છે । । । । કે નેઓ આરા આગમને
પણ અનુભૂતિ ‘ દીકાર્યા કેદખાનામા ’ હાજી નેના મોંઘાને જામુગ
માથી હી નાખે છે । ।

ગાન્ધાર્યને આ ખુલ્લામો જન્માનુ ધનદુ એ છે કે, કદાય ‘ નર
વર્ણની ઉમર દીક્ષા આપવી ’ એ નીના ગાન્ધાર્યના આપવાદિદ્વયાનુ
ને આગળ હની આગમના અખ ઇન્દ્રયાગીનેંદ્રાણી ધરતાર અજાની
ગાંધુનરચના ન્હાની રયનાનેકોઈ આગમને દીક્ષા આપી, અરના આ-

પવાની પ્રચાર હે, તો તેને ગુલદીરીને આય્કાયત કરવાનું છે. તંથી વાંચનારેને સ્પૃહ સમજારો કે, જેનશાસ્ત્ર સગીરન્દ્રયતા બાળકને દીક્ષા આપવાની હીલકુલ અનાધી કરે છે.

નવ વર્ષના બાળકને આપવાન્નાણી દીક્ષા કેવા સંચોગમાં આપવાની છે. ? તે મારેટો યાઓકારનો ગુલાસો આજ લેખમાં હુંવે પછીના લાખાણમાં આપેલો છે. તે ધ્યાનમાં લેવાથી માલુમ પડ્યો..

હુંવે દીક્ષાના સંખ્યામાં જૈન આગમો અને બીજા કૈન શાસ્ત્રોમાં નીચે ભૂજાય ગુલાસા કર્યા છે,

શ્રી મહાવીર પ્રભુના ગણુથર શ્રીમુખર્ભ સ્વામીજીએ પ્રભુની નજર આગળ તેમની આજા ભૂજાય બાંધે અંગાની રૂચના કરી છે. તેમાના ગીજા ધાર્થાંગસૂત્રના દ્વારા હાથામાં કણ્ઠું છ કે, દસ સુંડા પચ્ચા, તં જહા-સોંદિય સુંડે, જાવ ફારસદિય સુંડે. કોહ સુંડે જાવ લોહસુંડે, સિરસુંડે.

અર્થ:—દશ પ્રકારે સુંડિત કહેવા છે, એટલે નીચે જાણાયા સુજાય અતુક્ષે દશ આપ્તિનો ત્યાગ કરવો, અર્થાત્ પ્રથમની નવ પ્રકારની ભાવ દીક્ષાની પરીક્ષાઓમાં પાસ થયા બાદ દરામી ઇવ્ય દીક્ષાની પરીક્ષામાં પણ પાસ થવું. તે દ્વારા પરીક્ષાઓનો અતુક્ષે સુત્રકાર હેખાડે છે કે:—

૧ કણોર્દિયના વિપયનો ત્યાગ કરવાની ચેહેરી પરીક્ષામાં પાસ થયું, એટલે મનોહર વાક્યન, ગાયત્ર આદિ સાંભળવાની લાલચ ન કરવી, તથા અણગમતા શર્ઝદો સાંભળણીને નારાજ ન થયું.

૨ પછી લુંઢ ધંદિયના વિપયનો ત્યાગ કરવાની બીજી પરીક્ષામાં પાસ થયું, એટલે સંગ્રહી સ્વાહિષ પદાર્થની ખાવાપીવાની લાલચ ન કરવી, તથા સ્વાહરહિત પદાર્થી ખાતાં થકાં નારાજ ન થયું.

૩ પછી નાશિકા ધંદિયના વિપયનો ત્યાગ કરવાની ત્રીજી પરીક્ષામાં પાસ થયું, એટલે સુગંધી, મુખ્યો અતશેવિગેરે સુગંધિ પદાર્થી સુંઘવાની લાલચ ન કરવી, તથા હુર્ગંઘવાણા પદાર્થની વાસથી નારાજ ન થયું.

૪ પછી ચક્કુ ધંદિયના વિપયનો ત્યાગ કરવાની ચોથી પરીક્ષામાં પાસ થયું, એટલે સ્વી વિજેતાના મનોહર ઇપ, તથા નાયક આદિક જોવાની લાલચ ન કરવી, તેમજ લયંકર ઇપ જોઈ નારાજ ન થયું.

૫ પરી અનિધિયના વિષયનો ત્યાગ કરાતી પાચમી પરી-
મામા પાન થતું, એવેં મન જમતા કોમદપાંથિનો બ્યર્સ કરવાતી
જાણક ન હતી, તવા તીવ્ય દુદ્વીયાં વિગેના બ્યગધી નાનાર
ન હતું

૬ કોણનો ત્યાં રંગો એટલે કો અદ્ભુત રંગન કંઈ,
તો તેના પર કોઈ ન કરેના તવા મમા જાણન કહી, એ જીતની,
ખૂબી પરીમામા પાગ થતું

૭ આ નોંધ ત્યાં કરવાન્ય ગાતમી પરીમામા પાગ થતું
એવે ૦૦૨ પ્ર૦૧૦ અભિમાનના ત્યાં કરેંઓ

૮ નાયાના ત્યાં કરવાન્ય જાણી પરીમામા પાગ થતું,
એવે મોઈ પર પ્રદાન અધિકિયા હતી નથી.

૯ દેશભના ત્યાં કરવાન્ય નવમી પરીમામા પાગ થતું, એટલે
૧૧ નાયિકાની વાય નોંધ ત્યાં ત્યાં કરેંઓ

૧૦ એની પદ્ધતિ અગ્રેલી ઉત્સાહની નવે પરીમામા પાગ
જ્યાં જાડ નીકા જાયાની રામી પરીમામા પાગ થતું

૧૧ ચિંહું એવે અન્યાના કેવેના દોષ કરી રંગથી
ની ૧૩ ગુંડ અનિય પાંચી તે દાની પરીમામાં પાગ થતું
અને ૧૫ નાયા, ની દીપી જેગારી

૧૨ એની જાયાન ચુચમાં-જામીને જિન્હું ' (એટલે
૧ જીં રી ૧ જીં) એ જાગત નોંધના જાડ રમા નતે [ઉત્તેના
લા જા] મધ્યીન પ્રયત્ન ન હો પોતા પાગ થયા બાદ દીનાના
દુઃખાં ૧૩ જામી પરીમામા પાન થતું. એમ અન્ય પણ
જાણા નથી

૧૪ ૧૪ જાણુંદી અનિહુંદેલી બાંધી ન હો પરી-
મામા જીંદી જો ૧૫ અનુષ્ય પગાં હા હંડે તે આં વાર વા-
ની જુદીની રિયા ની હોંબા

૧૫ ૧૫ અ જન દીંબ જાંદે પોત દેખું તે ના-
નોંધ સંઘર્ષ " જામના પદ્ધતા બીજા જાના દીંબ અભિમાના
૧૬ જીં દુરીયાં ૧૬ જાય ૧૭ જાયાન હંગું ૧૮

आर्य देश समुत्पन्नः । शुद्ध जाति कुलान्वितः ॥
क्षीणप्रापाऽशुभकर्मा । तत एव विशुद्धधीः ॥ ७३ ॥

दुर्लभं मातुं पं जन्म । निमित्तं मरणस्य च ॥
संपदश्चपला दुःख—हेतवो विप्रयास्तथा ॥ ७४ ॥

संयोगे विप्रयोगश्च । मरणं च प्रतिक्षणं ॥
दारूणश्च विप्राकोऽस्य । सर्वं चेष्टा निवर्तनात् ॥ ७५ ॥

इति विज्ञात संसार—नैर्गुण्यः स्वत एव हि ॥
तद्विरक्तस्तत एव । तथा मंदं कपाय भारु ॥ ७६ ॥

अल्पहास्यादिविकृतिः । कृतज्ञो विनयान्वितः ॥

सम्मतश्च नृपादीना—मद्रोही सुंदरांगभारु ॥ ७७ ॥

श्राद्धः स्थिरश्च समुप—संपन्नश्चति सद्गुणः ॥

भवेत्त्रोण्यः प्रवज्याया । भव्यसत्त्वोऽत्रशासने ॥ ७८ ॥

अथ—आर्य देशमा ज्ञ-भेदो (१), शुद्ध जनिकुलवाणो (२), प्राप्ते
करीने ज्ञेना अंगुष्ठ कर्मो क्षीण थायां होय तेजो (३), अने तेथीज निर्भव
खुष्क्षिवाणो (४), “ मनुष्यसन दुर्लभ छे, ने भययुनुं कारण छे धनभंपति
चपक छे, विपणो हुःभना हेतुरूप छे, संग्रेगने अंते विग्रेग छे, क्षणे क्षणे मृत्यु
तैयारन उभुं छे, अने ते वज्जते सर्वं छिक्खयाक अंध थवाधी तेनुं लयं कर
परिण्युआ आवे छे ” ऐ रीने उपर वर्णन कर्या सुन्ननी संसारनी असा-
रता ज्ञेने पोतानी भेदेज ज्ञेनी छे. (५), अने तेथी संसारथी विरक्त
थगेदो (६), मंद इयायवाणो (७), दास्यआदिकना स्वत्व विकारवाणो (८),
करेन्ना उपकारने जाणुनारो (९), विनयवान् (१०), राजआदिकती [आदि-
शम्भ-थी संघ, तथा भातापिना ख्वी आदिकती] सभतिवाणो, ज्ञेत्रे राज
तथा संघविरेश्वरे ज्ञेने दीक्षा लेवाभाटे सभति आपेली छे अंगा (१२),
डाई प्रते द्रोह नडी करनारो (१३), सुन्दर शरीरनी आदृनिवाणो, आवक ओरले
श्रावकना वारे प्रते पाणनारो (१४), स्थिर विचारवाणो (१५), तथा पोतानी
छप्छाथीज दीक्षा लेवाभाटे आवेदो (१६), ऐ रीने सोण गुणवाणा अन्य-
मनुष्णने दीक्षा लेवा भाटे ज्ञेनशासनमां “ ग्रोग्य कहेक छे ”

वगी उपाध्यायलु श्रीयशोविज्ञयलु भहाराजे पण्ण पोताना
रचेला अर्द्यात्मसादमां कहुं छे के “ ज्ञेने संसारनुं असारपयुं ”

નાનુયુ છે, તેજ દીક્ષા લેવાને ચોંઘ છે, એમ જ્ઞાની ઉપરની હડી-
કણને પુણિ આપી છે

હું નેન દીક્ષા પાળની, એ કેવું મુજફેન કાર્ય છે? તે માટે
“પ્રત્યાવિગ્યાન” પ્રકાશનમા કથુ છે કે—

ગુરુલુલવાસો ય સયા । સુહાપિગાસાઈઆ ય સોઢબ્બા ॥

ગારીસ ચ પરીમહ । લહેર ડરમગા દિવ્બાઈ ॥ ૮ ॥

અર્થ- [દીક્ષાન થેણના માણને) દીક્ષા ગુરુ પાસે-એ રહેતુ, (૩ ને
થી સાધુનો આચાર રીળી શકાય છે) સુધ્યા તથા તૃપા આદિક જ્ઞાનીસ પ
રીપત્રાને સહન -ચા, તથા દેણા અને મનુષ્યો આઠિંગે કરના ઉપરનો
સહન કર્વાનાંએ ઉપર કરેના જ્ઞાનીસ પરીણાંદો નીચે પ્રમાણે છે
સુધ્યા સહન કરી ૧, તૃપા સહન કરી ૨, હૃદી સહન કરી ૩, તાપ
સહન કર્વો ૪ અને, [અને મચ્છરાટિંગનો ઉપર] સહન કર્વો
૫, ગર્ભ વલ્લોધી નિભાની લેતુ ૬, મનો થાન ગાખ્યુ ૭,
ઝીવિસાની ધર્મા પણ ન કરી ૮, ચાંદી ચાંદી પરિપદ સહન કર્વો
૯, નેરેધિયાપરીણાંદ સહન કર્વો ૧૦, ઉપાયપ સ મધી પરીણાંદ સહન કર્વો
૧૧, ક્રાઇના જાગાટિંગ કરના નચો સહન । કરના ૧૨, ગ-દનાચાર્યના રિ
ષો રી રેડુ આઈ મારી ૧૩ એ તો પણ દોષપિના તે સરન । કર્વુ ૧૪, બિક્ષા
માળી નિરીંદ કર્વો ૧૫ દરણ; માળી રેડુ આલાર ન મળે, તોપળુ સહન ।
કર્વુ ૧૬, રેણો મહન ૧૭, શરીર તથા મજાટિંગમા રણેના ધાલશુન
અથવા દાદા આનિની વેના સહન કરી ૧૮ રહીર તથા વન્નો મેન
મહન કર્વો ૧૯, મલાર આટિથી અલિમાન ધારણા ન કર્વુ ૨૦, પ્રશ્નથી
ગર્વ ગાગા ન કરના ૨૧, મનુષ્યન રૂદ્ધ રીતે પાણુ ૨૨, અને ન નનો
ગર્વ ન કર્વો ૨૩, એ રીતે ગાનીમ પરીઓડો દીક્ષા લેનાગને મહન કર્વના માટે
ઉત્તાપ્તયન આદિક નૈન આગમેમા પણ નર્થુન કરેતુ’ છે

આ જ્ઞાનીસ પનિનાં કેદીલી ઉમરનો માનુસ સહુન કરી શકે?
તેનો નાચેણો બુદ્ધિપૂર્વક વિચારે રહ્યો વગી તે- પ્રત્યાવિગ્યાન
મા જેણ દીક્ષા પાળની. એ કેદીલી ચુંકેન છે, તે માટે અનેક પ્રકાર
શુ લખાયું અનેક ગાયાળોમા આપેલ છે તે સંવળુ લખતા છેણો
અન્ય વર જાય, તે રીતે તેમાની રહ્યત એ જ ગાથા નમુના રૂપે
વાચેણ સમક્ષા રખુ ૨૩ મુ

चंकमिथव्यं निसिवाग—खगाधाराइ अपमनेंग ॥

पायव्या य सहेलं । हुअवहजालावली सयं ॥ १ ॥

अर्थ—दीक्षा पाणी एट्टे सनेही तश्वारती धारपर स्वावर्गीयी चालवानुछे तथा निरंतर अग्नितीशीभाग्नोना श्रेणिओमां गम्भननीयें हे पडवा जेवुँ छे आत्मप्रणेयमां उपर्नीज छुक्कीकृतनी बुधिमां कुहुं छे के— अमदंदैराग्यनिमग्नबुद्ध्य—स्तनूकृताशेपकपायवैरिणः ॥

कङ्गुस्वभावाः सुविनीतमानसा, भजन्ति भव्या मुनिधर्ममुत्तमं ॥

अर्थ—अत्यंत वैशाख्यवाणी खुद्धिवाणी, क्षपायद्दीपी हुम्भनेने जेषु निर्वाकै रेला छे एवा, सरब श्वभाववाणी अने विनययुक्त भनवाणी भव्य भनुओ उत्तम मुनिधर्म एट्टे हीक्षा लेवाने लायक छे

आ रीते धर्षा लैन आणेमो, तथा धर्मरत्न प्रकरण आदित्र प्रतिष्ठित लैन अथेामां हीक्षाना उभेहवाणे भाए धर्षुं धर्षुं स्पृष्ट लाखाणु ज्ञानीओए वर्षुवेलुं छे, ते सधणुं लाखतां पार आवे नहि. छुवे शास्त्रकारोंगे हीक्षा लेनार भाए ओणामां ओणी नव वर्षीनी उभरे कुम अपेक्षाथी हर्षावेली छे ? तेजा खुलासो नीचे मुजाय छे.

लैनशास्त्रो प्रभाणे तेज अवमां भेष्ये जनार अतिभुक्त मुनिनी घेडे कोऽधिकज लाख्यशालीने कहाय नव वर्षीनी उभरे केवल ज्ञान प्राप्त थाय छे, तो तेवा केवलीने अवश्य हीक्षा लेवीज पडे, एवो शास्त्रोक्त नियम छे. ते छुक्कीकृतने आधा न आवे, तेला भाए ओणामां ओणी नव वर्षीनी उभरे शास्त्रकारोंगे हीक्षाभाए अपवाह स्पैक्केली छे. तेथी ओम न जाणुवुं के, नव वर्षीनी उभरना गमे ते आणक्के हीक्षा आपी हेवी.

वागी पायमा आराने छेडे भनुयोनुं आयु झक्त वीस वर्षीनुं शास्त्रमां क्षेलु छे, अने तेला आयुषवाणा श्रीहुप्सहसुरि ते समये लगासग नव वर्षीनी उभरे हीक्षा लेवाना छे, ते छुक्कीकृतने ज्ञानीओए ध्यानमां लेहने, तेली उभरे तेमनी हीक्षा अयोग्य न क्षेलाय, ते हेतुथी ओणामां ओणी हीक्षा भाएनो नव वर्षीनी भर्वाहा शास्त्रकारोंगे कही होय, ओम संलवे छे.

वागी तपगच्छ आदिकनी पट्टावलीओमां केऽपि केऽपि आवार्यने

તર અને તેવી પણ નહુની ઉમરનાળાને નીકા આપ્યાનું ને લગેલું છે, તેના ખુલાસા નીચે સુધ્ય છે—

૧—શ્રીદેવચિત્વરિષું કેવા આમારણ વિદ્યાનક્તિમાણા, અને મામુદ્દિકશાસ્ત્રના પ્રભુજ્ઞાન આદિવી નહુની ઉમરના કોર બાળને તેરા ગુણ લક્ષ્યપૂર્ણાણો જેઠી, અનિષ્ટકાળમા હેમાચાયાય જીની પેડે નામનાં ઉત્તિ રનાંગે ગણુને આળનાં પણ તેના ભાગ્યનાંતને અપવારતાઈ હેઠા આપનાવી અને-નાતાં ને તેમણે યાનમા ગણી નીકા આપી છેય જેવો મભવ છે, પરતુ હુલના સમયમા તેના લક્ષ્યનાંને યથાર્થપણે જાળ નાંતો દાવો રનાં કોર જેન આચાર્ય કે સાઉં જોવામા આપતા નથી, મારે આ મભયમા ભગીર બાળને દીતા આપની એ શાસ્ત્રાર્થે અધેરાય છે

૨—પ્રેરે વયેદા જેન આચાર્યેમાના રોર્ડ કોર હુંનાળાણા પ્રભુજ્ઞા જરૂર ત્યાધી આધ્રુણાદિક ઉચ્ચ જાતિના નહુની ઉમરના બાળને બેદ તનકે લાભતા, અને તે ભાળના માધ્યમે પોતાના તે પુરને પાછો લેણાની લાલચ ન હે, તે મારે તેરા ભાળને પણ ધતિનો વેપ પહેરાસી રેતા, અને પત્રી ઉમરનાયં રહતા વરી દીના આપી ઘણે દીનિત કંતા દંડ માધુને રોર્ડ ઇન્દ્રીલા આપી, તેની પગીના ર્યાં બાદજ કોરસેં ર્યે ર્યી દીના બેદને ઘણેખણી નીકા આપનાની ગેતિ પ્રાણી । નાગદી જાજ નુદ્ધી નેન માધુનો મારે પર્યોગાગત ચાલી આને દુર્દીના લીરેલ ભાળને ને તેના આદ્યા આદિ માધ્યમે પાછો કેર જય તો તેને યોતાની જાતિ ખદુર વતુ પડે, તેરા માધ્યમની પોતાના ભાળને પાછો લેણાની લાલચને જાગ્રત્તરાખાતને પાઠ તેરા ભાળને ધતિનો રેર પડેગની નાતો હાય જેવો પણ મભવ છે

૩—નોર ભાળનું રોરાણોને બેદ તનકે હુંનાળાણા દેગામાવી દીના દેના મારે લાભતા હતા, તો પુંગનો અચ્યવગન્ની મેદાદી પણ રણીમા લાભમા નિયરતા શાનમુર્તિ ડિયાદા— મુનિ મદાના વ્રીણીનમભમાગનું મદાગન્ના પૃતાનમા પાના ઉકુલી નાચી જોગાની ખાળની રણે

નાંના પચાર— જુનના નમા જર્યનમા પણ કરું ન કે—

जुत्तो पुण एस कमो । ओहेण संपयं विमेसेण ॥

जम्हा अमुहो कालो । दुरणुचरो संजमो जत्य ॥ ४९ ॥

व्याख्या—यद्यपि प्रक्रमान्तरे णापि प्रब्रज्या स्मात्तथापि युक्तः संग-
गतः, पुनरिति विशेषणार्थः, एपोऽनन्तरोक्तः प्रतिभानुष्ठानादि. क्रमः
प्रब्रज्या प्रतिपत्तौ परिपाटिः, कथमित्याह—ओवेन सामान्येन. न तु
सर्वं थैव, तं विनापि वहनां प्रब्रज्या ग्रवणात्. कालापेक्षया विशेषमाह
सांप्रतं वर्तमानकाले विशेषण विशेषतो युक्त एव क्रमः, कुत एत-
देवमित्याह—उस्मात् कारणात्. अगुभोऽशुभानुभावः कालो दु-
पमालक्षणो वर्तने, ततथु दुरलुचरो दुःखासेवयः संयमः संयनत्वम्
अत्राशुभकाले, अतः प्रब्रजितुकामेन प्रतिभाभवासो विशेष इति भावः,
इति गाथार्थः, ॥ ४९ ॥

अर्थ—जेके भीज प्रक्रमयी पथु हीक्षा थाय, तो पथु आ उपर कहेक्षा
“ प्रतिभाव्योनी हियाआदिकृप ” कमने हीक्षान स्वीकारभा परिपाटिकृप
सामान्यपथे कहेक्ष छे, परंतु सर्वथा प्रकारे नही, केमेक्ष ते विना पथु धथा
ओआ दीक्षा लधेकी शास्त्रोभां संबगाच छे. हेतु समयती अपेक्षाये विशेष
हीक्षत कहे छे—हावना वर्तमान समयमा विशेषपथे आ कम युक्तज छे.
ओम शामाटे क्यु? तो के आ हुःपभा काण अशुभ अशुभ परिखान्वये
छे, अने तेथी आ अशुभ काणभा वारित्रनुं पात्रन मुस्तकी लर्युं छे, भाए
दीक्षा लेवानी धूम्बा करनारे “ प्रतिभाव्योनो अभ्यास ” कर्ने लेईअे,
अनो भावार्थ छे, ॥ ५० ॥

हुवे तेज भूतनी ५० भी गाथाभां भीज दर्शनीअोनी साक्षीअे
पथु प्रतिभा पूर्वक हीक्षा अपवी लेईअे अ भाषत सिँड करनां
कहे छे के:—

तंतंतरेनु इमो । आसमभेओ पसिध्वओ चेव ॥

ता इव इह जड्यवं भवविरहं इच्छमाणेहिं ॥ ५० ॥

व्याख्या—तंत्रान्तरेष्वपि, आस्तां जिन प्रवचने, अयमनन्तरोक्तः.
आश्रमभेदो भूमिकाविशेषो “ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यति-
स्तथा ” इत्यादिनोक्तस्वरूपः, “ इओ ” इति पाठांतरं, तत्र इतोऽ-

शुभमाल्दुरनुचरममलक्षणा वेतुद्यात् । अथवा उतो जैनप्रवचनात्
तत्रान्तरेष्यति । प्रमिडुर्कृश्व सिद्ध एव, न तु साय, यस्मादेव
तत्समात्, इत्युक्तन्यायेन उठ गतिमापूर्वकप्रज्ञाया यतितत्त्वं यत्नो
यिंग्या, भवतिरह ससारपियोगम्, इच्छिर्वाङ्गिर्विग्निगिल्यासन-
प्रवरपारगतागमावद्विभि.. इति गायार्थं ॥ ५० ॥

भावार्द्ध — ज्ञेन ग्राम । तो गे- सातु रु, ५० तु अन्यतर्विज्ञेना शान्तेभा-
पम् ८५० तामारो आ आथमन् ज्ञेने “अतीचारी (१), गृहस्थ (२),
गानधर्थी (३) अो गत्याचारी रे चर प्राप्तेनो उडेनो ३, अते ते प्रमित्यन्
८६८ भागे तथी करे आ प. १ कलाभा अथम पाण्डु मुस्कन देवाधी ७५२
ज्ञेने १ न्यापुर्वक अदी गत्याधी भवित भेगवत्तारी छन्दन राख ॥ ५७ भाष्मे
३ ही भावान भ पेता आगमेतु आन तन दे ने प्रविभा धनपूर्वक दीक्षा
लेसा भए प्रपत्न करवा, ॥ ५७ ॥

वर्णी ५१। पवारा भा उंटु ७ के

दिग्गवाण चेत रागो लोगमिरद्वाण चेत चाउति ।

मुन्दर गुरु जोगो रियजम्मतओ एत्थ उचितोति ॥ ४ ॥

पपतीए सोउण्य दद्वाण र केट दिग्गिण रीते ।

मग्ग मगादरन्ते धम्मिजग रहुमए निच्च ॥ ५ ॥

पाँए चेत मद्दा जाह पारेन कहमह एय ।

भवज्जन्महि महाणार णिखेरा साणु रन्मार ॥ ६ ॥

गिर्घाण चाभारो भावे रिय चित्तयेज ।

मवन्य एय दिग्गवारागा निच्चिड समयेउद्दिं ॥ ७ ॥

भावार्द्ध — तो निलीया ७५२ नग दाय लाभिम्ब गर्व द्वांगेमो
तन २ रेता, नथा भ रेता । अो भावानगपत्त गद्यु भो भ गम्भ थो
१ १ रेता रिमिं ० छू भावितीयो य । १ रेता १ निलीयो
भावेदा, नित्य धार्मिं ७ ॥ तो समन गेसा नना रेतादि ५ भावी जाभना
४७ रिमिन छुरो लरो ५ भावेदो आ रिशना “तत्त्वाग्र तत्त्वाना
८ १ रेता १ रेता ६ तेन पासु” ॥ अथवा प्रवा री (अन्य नभानि॒ रेताना
४५४) अर्दिमा वद्ध प्रतिरी ७५१ थाय उ भावी प्रवन्निर्दित

ઉત્પન્ન થાગેલી ઉત્તમ પ્રકારની અદા જ્યાં હોય છે, ત્યાં વિદ્ધિનો અભાવજ હોય છે. કર્મપ્રાણલ્યવશાનું કનાચ હોઈ વિદ્ધિનો અહૃતબું કરે નો મનતી રિદ્ધિતા એટલે પ્રકૃતિથીજ ઉત્પન્ન થાગેલી અદા, વિદ્ધિનો અસાચ અને વિતસની દટ્તા એ નણનો નિર્દેશ દીક્ષારાગથી સમયનો કરે છે.

વાગી સાગરાનંદસ્ફુરિ કહે છે કે, ભાતાપિતા સ્વીઅધિક કુદુંઘને રડતાં રાખીને પણ દીક્ષા લેવી, એ તેમનું કહેલું કૈતશાસ્ત્રી વિરુદ્ધ અને પોતાની ભતિકલ્પનાથી ઉપજલી કાઢેલું જણાય છે તે માટે હરિલિદસ્ફુરિજ પોતાના આપુક નામના અંથમાં લાગે છે કે—

સર્વપાપનિવૃત્તિર્થત । સર્વધોપા સતાં મતા ॥

ગુરુદ્વેગકૃતોऽત્યંત । નેયં ન્યાયોપપત્રતે ॥ ? ॥

અર્થ:—મર્વ પાગોથી દૂર થવાસ્પ દીક્ષા લેવી એ સતો ભાટે સર્વથા સંભત છે, પરંતુ ભાતાપિતા આદિક વરીદોને દુઃખી કરીને (તેમનું મન દુલારીને) લીધેવી દીક્ષા ન્યાયયુક્ત કહેવાય નથી ॥ ૧ ॥

પ્રારંભમંગલ હ્રસ્વા । સુરુશુદ્ધૂપણ પરં ॥

એતૌ ધર્મપ્રવૃત્તાનાં । નૃણાં પુજાસ્પદં મહત् ॥ ૨ ॥

અર્થ:—દીક્ષાની સાધનાનું પેંડુલુ મગળ તો ભાતાપિતાની સેવાજ છે. કેમકે દીક્ષા લેવી ધાર્મિક કિયા કરનારગોળે તો પોતાના માગાપને વિશેષ પ્રકારે ખુશી કરવા જોઈએ

ઉપર જણાયેલા શ્રીહરિલિદસ્ફુરિજના અને શ્લોકેભાં ભાતાપિતા તથા કુદુંઘ આધિકને નામુશ કરી રડાવીને પણ દીક્ષા લેવી, એવી ભતિકલ્પનાથી ગંધ સર્ણી પણ આવતી નથી.

હું સાગરાનંદસ્ફુરિજ કહે છે કે, ભણીવીરસ્વામીએ પણ જ્યારે દીક્ષા લીધી, ત્યારે તેમના કુદુંઘમાં પણ આદેંદ અને વિલાપ થયાં, છતાં તેની દ્વદ્ધાર નહીં કરતાં તેમણે દીક્ષા લીધી, માટે કુદુંઘને રડતું રાખીને પણ દીક્ષા લેવી. તેમનું આ કહેલું તદ્વન અસત્ય અને જૈત શાસ્ત્રી વિરુદ્ધ પોતાની ભતિકલ્પનાથી ઉપજલી કાઢેલું જણાય છે. તે માટે કલ્પસુત્રભાં એવો પાઠ છે કે, સગવાન જ્યારે દીક્ષા લીધે છે, ત્યારે કુલમહુતરા એટલે સગવનના કુદુંઘની અગ્રેસર સ્વી તેમને આનંદ પૂર્વક અનેક પ્રકારની શુદ્ધ આશિષે આપે છે. તે માટે કલ્પસુત્રાધિકારીનો પાંચમા વ્યાખ્યાનના છૂટાનો

“ ઇસ્વર્વાગકુલ સમુપ્તનેસિં ”

ઈत्यादि पाठ तपाएरो ? ते पाठमा कुहु अ हु अ पाभी अउ छे, ऐसी हडीकतनी गाँव अग्नी पणु आपती नथी, परंतु लग्नानना आर्य निर्विन पठा भ्रमुनी हीमाभा उत्माहु पर्वक साग लीवो छे

ऐसे के गाथु गृहुभ्यना कोर भगीर छाकरने तेना वालीना कुभग्नभासी ले, नभाईने खारी शुभीदी दीक्षा आपे, तेने पोताना नीत महानतनो भन इरनाग “चोरभाषु” नैन शास्त्र-रे क्षेत्रा हे अने ओ नीतना साधुने नारना तया राघना पथ गुल्फेगार लहिं कर्या हे ते भवधी भवद्वपती चुर्णिभा नीचे भुज्य पाः २५-५८६ कुहेपो। हे—

“ इग्निं सेहनिष्टेदिया करेमाणे तद्य गप अद्रयद, तेणो लघुद भद्रयतो ”

अद्य—दीना “ गामते गे भेष भाषु छाइनो भगाउ ले, अथवा गताह ते, ते पोताना नीत अदाताननि गाँव नामना भद्रानतनो भन इते छे, “ जो मायापियरि गार अब्दत अग्निल अवहरइ सो तेणो ”

अथ—भानापिताशे पोतानी गाँव भुवाथी नदी आणेना भगीर भाग्नु व भाषु अभग्नु कर, तो नीर भाषु अभ्यु ॥

“ तम्म मयापियरो दाउण शिउ भरमार रायकुले पग ना अणेगे या गिरहेज्ञा गेण्डेगा ”

अथ—नेवा छाइना ॥ भागाय याहु भन अ तिने पाण नेवा ऐक अथ ॥ अनेवा व भग्नुको नारव गारभा (डेवभा) पर्वती तद अने पोती कुमा ५१-५२

“ मुयपम्मो परिचनो आणाओर रस्तिणे चमित्तधम्मो परिचनो नेणिय एरिणे ”

अद्य—जीवित भवी नाम्नी नेवी ० गाँवी ने भाषु अनपर्मनी ० १ १ नीके अर्द्धरात्री अट दो ० ५ लिलैभ्रनुरि अजाओ ० १ २ १ १ १

भैरवी तद ती ० दीन ना रवाई भा ० नान द्युनिक्षेपे देली दीपामर्गेनी गवायी द्योगा नेव भा गोना भागेथी रितेद ०, अथ अप्यु निन राजाय ० ० गाँव ० भाव ते पोताना लभावभा जल्लावे ० १, लिलैभ्रनुरी आपा भालान भाषु ० गाँवी, भासर नेव्य

શ્રાવિકા ભળાને અતુર્વિધ સંઘ કહેવાય છે, તે લખાણ સર્વને માનનીય છે, પરતુ ઉપર જણાવેલી ભાલદીકા સંખ્યાથી હકીકતનો ઝુલાસો ધ્યાનમાં લેતાં લગવાનની અજાણું ઉદ્દંધન કોણું કરે છે ? તે મારે સુઝોએ વિચારશું.

“ સત્તા ॥ ”

સત્તાના સંખ્યામાં સાગરાનંદસૂર્યિ જણાવે છે કે, સાધુએ, સાંદ્રીએ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાએને પૂજય હોવાથી (પદવીધર) સાધુએ અતુર્વિધ સંઘપર પોતાની સત્તા યત્તાવી શકે, એટલે સાધુ પોતાની દંધા-સુજાય સ્વશ્રદ્ધપણે અતુર્વિધ સંઘપર પોતાનો અવિકાર રાજનીપેઠે યત્તાવી શકે. આ કથન જૈનશાસ્ત્રી વિરુદ્ધ અને પોતાની કપોલકલિપત કદ્વપતાથી ઉભું કરેલું જણાય છે. કેમકે તે મારે કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રચાર્ય પોતાના રચેલા પરિશિષ્ટાખર્વમાં ચૌદ્ધપૂર્વધારી શ્રીભદ્રભાડુસ્વામીના અવિકારમાં જણાવે છે કે, તેમના સમયણાં ભયંકર હુકાળ પડવાથી જૈન આગમોના પાણો જૈનસાધુએ વિસરી ગયા. અને તેથી તે હુકાળને અંતે તે આગમોના પાણો એકઢા કરી તેનો સંબ્રહ કરવામાટે પાછલીપુત્રનગરમાં સંઘ એકઢો થયો. અને તેમાં એકઢા થયેલા સાધુએના લિનનલિન સુખપાણો મેળવીને અગ્રયાએ અગ્રા તો મેળવ્યાં, પરતુ બારમા દાખિયાદ અંગનો પાઠ કોઈને યાદ ન રહેવાથી તે ગોઠવી શકાયો નહીં. હુંવે તે સમયે ચૌહે પૂર્વેના જ્ઞાનવાળા શ્રી ભદ્રભાડુસ્વામી નેપાલહેશમાં વિચચતા હતા, અને ત્યાં “ મહાપ્રાણુયાસ ” નામનું ધ્યાન સાંચતા હતા, તે ધ્યાનમાં તેમણે એવી ગોઠવણું કરવામાંડી હતી, કે જેથી એક અંતરસુહૂર્તમાં (એ ઘડીવારમાં] ચૌદ્ધપૂર્વેનો પાઠ થધ જય હુંવે તે બારમા દાખિયાદ અંગનો પાઠ ગોઠવવામાટે પાછલીપુત્રમાં એકઢા થયેલા તે સંઘે તેમને એટલે તે શ્રીભદ્રભાડુસ્વામીને ઓલાવવામાટે એ સાધુએને તેમનીપાસે મોકલ્યા; તે સાધુએએ ત્યાં જઈ તેમને સંઘનો સંદેશો કહી સંભળાયો ત્યારે શ્રીભદ્રભાડુસ્વામીએ સાધુએને કણું કે, હું હાલમાં ધ્યાનમાં છું, તેથી મારાથી ત્યાં આવી શકાયે નહીં. તે સાંભળી તે અને સાધુએએ પાછલીપુત્રનગરમાં પાછા આવી સંઘને તે હકીકત જણાવી. ત્યારે સંઘ વિચાર કરી એની એ સાધુએને કણું કે, તમો ભદ્રભાડુસ્વામીપાસે જાઓ? અને તેમને કહો કે, જે

માધુ સધની આજા ન માને તેને સધ કેરો દડ આપે ? તેના ઉત્તરમાં તે શ્રીભગ્યાદુભ્રામી કહેણે કે, તેવા માધુને સવધારું ભૂલ્યો ત્યાં તમારે તેમને રહેવું કે, જે એમ છે, તો તમો પોતે સધની આજા ભાનતા નથી, માટે આજાથી તમો સવધારુર છો સવનો એ ગીતતો સહેળો હૈ, તે અને સાહુઓ ભગ્યાદુભ્રામીપાંચ જાયા, અને તેઝોએ તેમને પ્રશ્ન કે, હે અગ્રનું ! તે માધુ સધની આજા ન માને, તેને ગો દડ આપવો ? ત્યારે ભગ્યાદુભ્રામીજીએ કહું કે, તેના માધુને સવધારું ભૂલો તે માબણી તે અને માધુઓએ તમને કહું કે, ત્યારું સધનું અમાન તે ને, તમો પોતા આજાથી સવધારું તો તે માબણી એ કેરળી ભગ્યાનસગણા (કૃતકેરળી) ચાંપુર્ણ માર્ગી શ્રીભગ્યાદુભ્રામીજીએ બધાવી કપિત વધુને તે માધુઓને કહું કે, ભગ્યાનસગણા નથે માગપણ તેની અદૃપા કર્ણી નથી, પણ તુ કૃપાદિપિત ગણવી હું સધની આજા અમનું ચડાવું છું, હું આહી તે ધ્યાનમા નું વાયેલો હું તે પણ સધનું જ નાર્ય છ અને તે ધ્યાનનો હુંવે યોડો લાગજ આઈ રહ્યો છે માટે સંદે મારાપણ કૃપા કર્ણીને આહી કેલાં મહાલુદ્દુદ્દિગાનું અને તીવ્ય ચાંપિતચાંપા માધુઓને મોદ્યના, નેથી હું તેમને કંદિનાની ગોક તિનસમા માતુરણત નાચના આપીશ જેવી મારું ધ્યાન પણ મધૂલા થના, અને સધનું જાય પણ અન્ય વઠે પરી તે અને માધુઓએ પાઠ આની સવને તે હુકીન જાગુની, ત્યારું સંદે પણ મારાભગ્યાદુભ્રામી-પાયએ માધુઓને શ્રીભગ્યાદુભ્રામીયાને કંદિનાના આજ્ઞાનમારો માટુદ્યા જન્યારિ એ ગીતના પ્રેરણાનેથી પૂઢાતામા ચાંપુર્ણ માર્ગી શ્રી ભગ્યાદુભ્રામીજીએ
 ‘ એ ક દોડુ ક ? એ ધ નુ હિમાયમા હુ ? સધ તો હુદ્દાનો માંગો છુ ? , એના ગણનો દુચ્ચાંદાજાપાતા નથી તેને એ સે નસ્ત્રા અને નિન્યતા અંદ્રાજા ગણદો દુચ્ચાંદાજાય છે નાંની ગાધુની મના ? ’ એના ‘ સધપણ ? , એ હુકીનાની તેમા ન રમ-ખરીપણ આજતી નથી, પરંતુ તેવી ઉલ્લંઘ મરો કેરળીનાના ચાંપુર્ણ માર્ગી શ્રીભગ્યાદુભ્રામીયાપણ
 ‘ તુંના નુધીની ચોતાની ‘મતા’ વદાયેદી પ્રાચુર્યો જાય છે

આરીતે જેનાસ્ત્રી સિદ્ધ વર્તેનાં અને સધપણ ગતા મેળાનાનો મર્ગ ગણનાન ગાધુને કેના જાના ? નેના સિદ્ધ આ ભાગનર્મના મર્ગ રેનગર્સ રેનરો ?

(१६)

ઉપર જ્ઞાવેનું શ્રીભદ્રભાણુસ્ત્રમીળનું વૃત્તાંત કલિકાલ સર્વાં
શ્રીહેમચ્યાનાયાર્થજીએ પોતાના પરિશાષ્પર્વત્માં નીચેખુલ્લાખ દાખ્યું છે.
સંઘોઽથ પટીએ પુત્રે । દુષ્કાલાંતે સ્વિલોઽમિલત् ॥
યદંગાધ્યયનો દ્વારા—ચાસીઓસ્ય તદાદદે ॥ ५७ ॥
તત્શૈકાદશાંગાનિ । શ્રીસંઘોઽમેલપત્તદા ॥
દૃષ્ટિવાદનિમિત્તં ચ । તસ્યૌ કિંચિદ્વિચિત્રયન् ॥ ५૮ ॥
નેપાલદેશમાર્ગસ્થં । ભદ્રવાહું ચ પૂર્વિણં ॥
જાત્વા સંઘ. સમાદ્વાતું । તતઃ પ્રૈપીનુનિદ્વયં ॥ ५૯ ॥
ગત્વા નત્વા મુની તૌ ત—મિત્યુચાતે કૃતાંજલી ॥
સમાદિશતિ વઃ સંઘ—સ્તત્રાગમનહેતવે ॥ ૬૦ ॥
સોઽષ્યુવાચ મહાપ્રાણં । ધ્યાનમારબ્ધમસ્તિ યત् ॥
સાધ્યં દ્વારાભિર્વૈ—નર્ગમિષ્યામ્યહં તતઃ ॥ ૬૧ ॥
મહાપ્રાણે હિ નિષ્પન્ને । કાર્યે કસ્મિંશ્રિદાગતે ॥
સર્વપૂર્વાણિ ગુણ્યંતે । સૂત્રાર્થભ્યાં મુહૂર્તતઃ ॥ ૬૨ ॥
તદ્રચસ્તૌ મુની ગત્વા । સંઘસ ગાશસતામથ ॥
સંઘોઽષ્યપરમાહૃયા—દિદેશેતિ મુનિદ્વયં ॥ ૬૩ ॥
ગત્વા વાચ્યઃ સ આચાર્યો । યઃ શ્રીસંઘસ્ય શાસનं ॥
ન કરોતિ ભવેત્તસ્ય । દંડઃ ક ઇતે શંસ નઃ ॥ ૬૪ ॥
સંઘવાદ્યઃ સ કર્તવ્ય । ઇતિ વક્તિ યદા સ તુ ॥
તહીં તદ્દંડયોઽસી—ત્વાચાર્યો વાચ્ય ઉચ્ચન્નઃ ॥ ૬૫ ॥
તાભ્યાં ગત્વા તથૈવોક્ત । આચાર્યોષ્યેવમૂચિવાન् ॥
મैવં કરોતું ભગવાન् । સંઘઃ કિંતુ કરોત્વદઃ ॥ ૬૬ ॥
મયિ પ્રસાદં કુર્વાણઃ । શ્રીસંઘઃ પ્રહિણોત્ત્વિહ ॥
શિષ્યાન् મેશાવિનસ્તેભ્રદઃ । સત્ત દાસ્યામિ વાચનાઃ ॥ ૬૭ ॥
પરિશિષ્ટપર્વ સર્ગ આઠમો. ઇત્યાદિ—
૧૮૩ તેજ હુકીકતની પુણિમાં શ્રીમેસ્તુંગમુરિ અચ્યલગંથની

મહોદી પગનલીમા લખે છે —

“દુષ્પાલના પ્રકાચથી કૈત મુનિઓને શાસનનો આપાર જીત
 ‘ દૃષ્ટિસાદ’ (બારેમું અગ) પ્રાપે કરીને વિસમૃત થયો તેના પાઠોનો
 મન્મહ કરના માટે પાઠલીપુત્ર નગરમા “ ચતુર્વિધ જૈન સધ ”
 ક્રેદિત થયો તે વખતે સધને માલમ પડ્યું કે આ વખતે નેપાલ
 દેશમા વિચારતા રૂતા શ્રીમાન લડ ભાડુસનામીજ દૃષ્ટિસાદના જાણકાર
 છે, અને તેમને પાઠલીપુત્રમા યોગાવના માટે કાગળ લખી આપી
 સંઘ તે નેપાલદેશમા સાધુઓને મોકલ્યા, તે સાધુઓએ પણ ત્યા
 જઈ શ્રી ભદ્રભાડુસનામીજને સંઘ લખેલો કાગળ આપ્યો કાગળ નાચી
 લદ્ધભાડુસનામીજને તે સાધુઓને કલ્યું કે, આ સમયે હુમલાજ મે
 પ્રાણ્યામનામના ધ્યાનમા પ્રવેગ કર્યો છે, તેથી હુલ મારાથી ત્યા
 આવી શકણે નહીં તે સાલળી તે સાધુઓએ પાઠલીપુત્રમા જઈ
 ત્યાના સધને નિવેદન કર્યું, ત્યાને દુસાયેલા તે સંઘ કરીને ત્યા એ
 સાધુઓને શ્રીભદ્રભાડુસનામીજની પાસે મોકલ્યા, અને તેમના મુખથી
 સંઘ તેમને જણાયું કે, કે માણુસ સધની આજાનો સ્રીકાર કરે
 નહીં, તે કૃપા દર્શને પાય થાય ? ત્યાંએ શ્રીભદ્રભાડુસનામીજનો કલ્યું
 કે, તે માણુસને સમ બધાર કર્યો, ત્યારે અને માધુઓએ તેમને
 જણાયું કે, હુદે આરાથી તમોજ સધભદ્રાન થયા છો ત્યાને તેમણે
 કલ્યું કે, સથે મારાપર કૃપા કરીને અહીં લુદ્ધિવાન સાધુઓને મોક
 લના, કે જેથી હું તેઓને દૃષ્ટિસાદની વાચના આપીશ, કે જેથી મારા
 ‘ધારનો અને સધનના કાર્યનો મુખે સુધે નિર્બદ્ધ થધ જનો ૦ ત્યાદિ
 જુઓ અચલગંગની મોગી પદ્મનલો બાપાતર પાના ઊં

નાની આવાજ કરેલમારો “ ચતુર્વિધ ” નૈતમધ કેવો
 થયાનું વૃત્તાત શ્રીહિમબતાચાચાયાય લુએ પિઠમ વયત ૨૦૦ ની
 આસપાસમા વેલી ગ્રથવિરાપનીમા પણ નીચે મુજબ આપનામા
 આવ્યું છે

‘ તે વખતે દુષ્પાયના પ્રભારે પૂર્વે શ્રીતીર્થ કરપ્રભુના ગણરાજે

પ્રદેશાં ચિદ્ગતો પણ ઘણા ખરા પ્રાયે નષ્ટ થયાં હતાં. તે જાળીને
તે લિખખુરાય નામના રાજાએ જૈનચિદ્ગતોનો સંબહુ કરવામાટે,
તથા જૈનરા સનનો વિસ્તાર કરવા માટે સંપ્રતિરાજની પેંડ અમણુનિ-
અર્થ તથા નિર્થિથી ગોળી એક સલા ત્યાં (કલેંગહિશમાં આવેલા)
કુમારીપર્વતનામના તીર્થમાં એકઠી કરી. ત્યારે ત્યાં આર્થિભણુણિરિ-
છ મહારાજની પરંપરામાં રહેતી અસ્તિસસુહ, ઓધિલિંગ, દેવાચાર્ય,
ધર્મસેનાચાર્ય, તથા નક્ષત્રાચાર્ય આદિક કે જેવા જિતકલિફની ઉ-
લના કરતા હતા, એવા અસો જિતકલિફી નિર્ધિયો આવ્યા. તથા
સ્થવિરકલિફી એવા આર્થિચુસ્થિત, આર્થિચુપ્રતિશબ્દ, ઉમાસ્વાતિ તથા
શ્યામાચાર્યાદિક પ્રણસો નિર્ધિથો ત્યાં તે સલામાં આવ્યા. આર્થિ-
પોછણુણીઆદિક વણુસો નિર્થિથી સાધ્યીએ પણ ત્યા એકઠી થઇ હતી.
સ્વીજુણુરાય, સીવિદ, ચુણુંક તથા સેલકઆદિક સાતસો અમણુણાપાસંકો
(આવકો) ત્યાં આવ્યા. લિખખુરાજની સ્વી પ્રણુભિવા આદિક સાતસો
આવિકાએ પણ ત્યાં આવી. પોતાની રાણીએ, પુત્રો તથા પૌત્રો આ-
દિકના પરિવારથી શોભિતો થયેલો લિખખુરાય સર્વ નિર્ધિયો અને
નિર્થિયોને નમસ્કારકરીને એમ કહેવા લાગ્યો કે, હે મહાતુલાયો!
હુવે તમો શ્રીવિર્ભાનતીર્થાં મહારાજ પ્રદેશા શ્રીજૈનંધર્મની
પ્રભાવના કરવા માટે, તથા તેનો વિસ્તાર કરવા માટે સર્વ પ્રકારના
પરાડસોથી ઉદ્યમ કરો? તે લિખખુરાયરાજાએ એમ કહેતાથી તેઓ
સંવાદ નિર્ધિયો અને નિર્થિયોએ (તેમ કરવામાટે) સંમત થયા.
ઈત્યાદિ. હિમવંતાચાર્યજીની સ્થવિરાવદી ભાપાંતર પાના ૧૧.

વળી ઉપરાજ વણવિદા શ્રી લદ્દાહૂ સ્વામીજીએ શ્રીરથુલ-
ભદ્રજીને દ્વારા ઉપરાંતના બાકીના ચાર પૂર્વેનો અદ્યાત્મ કરવામાંથાં
પણ શ્રીસંઘની આજ્ઞા માન્ય રાખી છે, તેમજ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાક-
રજીના સંબન્ધમાં પણ તેમના ચુરુ મહારાજ શ્રીવૃદ્ધવાદીમુરીધિરલજીએ
પણ સંઘની આજ્ઞા માન્ય રાખી છે, તે સંવાદી હકીકતો જૈનશાસ્ત્રોમાં
પ્રસિદ્ધજ છે, તેથી અહીં તેનો વિશેપ વિસ્તાર કર્યો નથી.

જૈન શાસનમાં ચતુર્વિન્દુ સુંધરે તીર્થ કરે પણ નમસ્કાર કરે છે,

અને તેવી તે ચતુર્ભિંગ મધ્ય અતિગોધને પાત્ર છે. તે માટે શ્રીરામ-
પ્રભાચાર્ય પ્રતે રહેલા મિઠુનપ્રકટપુનામના અવભા લખે છે—

ય: સંસારનિરાસલાલસપતિષ્ઠુસ્તયર્થમુત્તિષ્ઠુતે ।

ય તીર્થ કયથતિ પાવનતયા યેનાસ્તિ નાન્યઃ સમ' ॥

યસ્મૈ તીર્થપતિ નિમસ્તતિ સતા યસ્માન્દ્રુમ જાયતે ।

સ્ફુર્તિર્થસ્ર પરાપ્રસતિ ચ ગુણા યસ્મિનુ સ સરોડર્થતા ॥ ૧ ॥

અર્થ — એને સંસાર માટે ટોઢ પણ પ્રદાનની લાલયની ભનિ નથી, એ મોક્ષ મેળાવા માટે તૈયાર થઈ એડેજ ર, એને તેની પવિત્રા માટે "તીર્થિદ્ર્ય" રહેલામા આવે છે, એની હુનારો માઝ પણ આરી થણુ નરી, એને "તીર્થિ કરો" પણ નમ્રાન્ગ કરે છે, એથી સંજારોનુ ર સાથુ થાય છે એની કૃતિ ઇનાયેની હે, તથા એમાં રે- પ્રાણના મદશુરો રહેતા હે, તેથા સરણ
(રે ક હે !) તમો પુરુણ કરો ? ॥ ૧ ॥

જિનનમ્યો ગુણરાગિ-વેદતીયો મહાત્મના ।

સર. સો-ઘર્હરો જીયા-દ્વિષ્ટુતિપથાતિગઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ — "જિલોધ" પ્રભુને" પણ નમા યોજા, શુશોના ભમૃદ
ાગો ઓ ભદ્રત્માઆને પણ વળ કરા યોજા, મર્દ પણોને હરનારો,
ઓ એના શુશોની રહુનિર્ણના પણ પારનારો એરો ચતુર્ભિંગ ર ૧ જ્યાતો
રનો ॥ ૨ ॥

એ રીતે જૈન નાન્યોમા "ચતુર્ભિંગ મની" રાગો જ્યોએ
રહુતિએ અને શુશુગાન કરેલા છે પરતુ તે શાન્ધોમા સંવ કોણ છે?
મારી પાત્રે મધ્ય શુ દ્વિભાષમાં છે ? મધ્ય ઉપર તો "શતા" [પ્રેરણ

શાહી] ચલાવવાનો અમારે હુકુમ છે, એવું કોઈ સાધુએ કહેલું જેવામાં આવતું નથી. ભારે “સત્તા” ને નામે આ વીસમી સદીમાં પણ પોતાની પોપશાહી ચલાવનારાયોના સંખ્યમાં સંવે જરૂર વિચાર કરવાની જરૂર છે.

ઇત્યો શાંતિઃ, શાંતિઃ, શાંતિઃ ॥ આ લેખ

લખનારઃ—પાદિત આત્મક હીરાલાલ હંસરાજ (જમનગરવાળા)

॥ સમાપોડય લેખો ગુરુશ્રી મચ્ચારિત્રવિજયમુપ્રસાદાત ॥

શ્રાવકનાં ખાર વ્રતો ઉપર તદ્દન
નવાં ખાર ચરિત્રો.

મૂલ અન્વય સાથે ગુજરાતી ભાષાંતર ઉચ્ચા કાઈ
જેવા જાણ કાગળ ઉપર પોથી આકારે છાપેલા
[સાથે લેનાર પાસેથી કીભત ૩. ૬]

દુટક નીચેપ્રમાણે.

નાગીન ચરિત્ર રા. ૦॥	વિદ્યાપતિ ચરિત્ર રા. ૦॥
લક્ષ્મીપૂજ ચરિત્ર રા. ૦॥	સુરચંડ ચરિત્ર રા. ૦॥
હસરાજ ચરિત્ર રા. ૦॥	કેશરાણલી ચરિત્ર રા. ૦॥
સુમિત્રમંત્રી ચરિત્ર રા. ૦॥	સુમિત્રા આવિકા ચરિત્રન. ૦॥
ધર્મ રૂપ ચરિત્ર રા. ૦॥	સિહાઓણ ચરિત્ર રા. ૦॥
મિત્રાનંદમંત્રી ચરિત્ર રા. ૦॥	સુરમેનમહાસેન ચરિત્ર રા. ૦॥
આ ઉપરાંત સમ્યક્તલ પ્રત ઉપરવિકમલુપ ચરિત્ર રા. ૧॥	
લખો—પાદિત હીરાલાલ હંસરાજ જમનગર.	

મુંખધ—ધનજ સ્ટીટ, સીકિવર મેનશનમાં આવેલા શ્રી લૈન
ભાસ્કરોન્ય પ્રીન્ટિંગ પ્રેસમાં મનમુખલાલ હીરાલાલે
જીવતલાલ ચંદ્રભાણ કોટાઈ મારે છાપ્યું.

॥ श्री ॥

॥ श्रीवृक्षिरत्न-माला ॥

कर्ता—

श्रीवृहत् खरतर जट्टारक श्रीजिनचन्द्र
सूरि आङ्गानुगामी पण्डितप्रधान
श्रीवृक्षिरत्नमुनि अधिष्ठाता
जेशब्दमेर निवासी ।

जिसे—

रत्नाम (मालवा) निवासी
श्रीमान् दानवीर रायसाहब श्रेष्ठिवर्य
श्रीकेशरीसिंहजी साहब की आङ्गा से
श्री जंगमयुगप्रधान श्रीजिनदत्त सूरि आनन्द चन्द्र
पात्रशाला के सेकेटरी हमराजजी सोहा (लालन)
ने श्री जैन प्रेनाकर प्रेस, रत्नाम
में डपा के प्रासिक की ।
वीर सवत् १४४०


प्रथमवार
१०००

विक्रम सवत् १६७१

अमूल्य

॥ अथ स्तवन लिख्यते ॥

अथ निनाणु यात्रा को चोढ़ालियो लिख्यते



॥ दोहा ॥

वामा नदनवदिये अश्वसेन कुलचट ॥ सप्तफणे
 धरी सोहृता सेवेसुरनरबृद ॥ १ ॥ जिनवर अगे ज्ञापि-
 या तपजपविधिप्रकार ॥ यात्रा निनाणुसारिखो श्रव-
 रन कोई उदार ॥ २ ॥ जेज्जवियण सेवन करे जात्रानि-
 नाणु जेह ॥ विधिसहित वदन करे शिवसुखपामेतेह
 ॥ ३ ॥ प्रथम पवित्रतन कीजिये धरिये निरमल ध्यान ॥
 नवप्रदिक्षणा टीजिये चैत्य वदन नवजाण ॥ ४ ॥
 प्रतिक्रमण राई देवसी देव वदन त्रणवार ॥ पाकोपा-
 णी पीजिये लक्ष जपोनवकार ॥ ५ ॥ षष्ठम अष्टम
 तप करो चढते चित्तउदार ॥ बृह्मचर्यवतपालवो ज्ञाशा-
 या सुविचार ॥ ६ ॥ पूजा अष्ट प्रकार की करिये
 निधि विस्तार ॥ वरघोरो जलयात्रा शक्तिके अनुसार
 ॥ ७ ॥ गुरु मुख झान सुणी करी श्राविका सुझान ॥
 सणगार साध्वी सधक्षिया धरथो प्रचुको ध्यान
 ॥ ८ ॥ सधवी सेर वहुक्षणा सौजाग्य ज्ञार्थी सुजा-

एं ॥ रूपकुवर रगेकरि यात्रा निनाएं जाए ॥ ४ ॥

॥ ढाळ पहिली ॥

बोलेरे पर्द्ध्वा हांजीरे पियुलोरे गाढा मारू
कोयदर्मी तो बागारी रुखवाल ॥ एदेशी ॥

थलवट देशमें हांजीरे दीपतोरे मोहन मोरा
जेसाए में श्रीजिनराज ॥ गढ सढ मंदिर हांजीरे
मालियारे मोहन मोरा देख्यां तोरेनयण लो-
भाय ॥ १ ॥ प्रथम जेटो हांजी महावीरजीरे
मोहन मोरा शासण रातो प्रनु सिणगार ॥ पंद-
रेसेने हांजी इव्यासीयेरे मोहन मोरा चरडीयां
तो करायो प्राशाद ॥ २ ॥ समरे सासुत हांजी
मूलराजजीरे मोहन मोरा जणेतो नराया जिन-
विव ॥ दोय सो पचानु हांजीरे जाणियेरे मोहन
मोरा गौतमनेरे गणधर संग ॥ ३ ॥ कोटीक गच्छमें
हांजी गुरु सोवतारे मोहन मोरा दीपेश्रीजिन कुश-
लसुरिंदं ॥ भविदण भेटो हांजी जुन्न जावसुरे मोहन
मोरा ज्युं सुखपावे यांरो शरीर ॥ ४ ॥ जव ४ दीजे
हांजीरे मोन्नणीरे मोहन मोरा चरण कमलरी सेव ॥
बृद्धिचंद प्रनु हांजी जब ज्ञेटियारे मोहन मोरा
प्रसखादे सुत जिनराज ॥ ५ ॥

॥ ढाक्क दूसरी ॥

गोरीनंहारलोगारो सुहावे जेरी परमलमहलामें आवे
 ॥ हालरीयेरी देशी ॥

अब आटिजिनेश्वरपूजो इण समोनही डेव
 दूजो ॥ पठरेसे न रेतीसे गणवरचोपमा सुजगीसे
 ॥ १ ॥ सच्चोधर चैत्य करायो एतो एण्ये अचल
 रहायो ॥ दीजे प्रढङ्गणा सारो दंवाधिदेव जुहारो
 ॥ २ ॥ जिनविव छ सो सातो हस्ती पर मरुंदवी
 मातो ॥ सिद्धाचल मरुण स्वामी जगजीवन अतर-
 जामी ॥ ३ ॥ दृतोरे चरणे आयो मनडामे हर्षसवायो ॥
 तुम गुण को पारनआवे जो सहस्रजीव्हकरि गावे
 ॥ ४ ॥ श्रीचद्गा प्रज्ञ चित वसिया भेरा न्हदय कमल
 उखसिया ॥ जिनतिन चुवन जुहारिया भेटता का-
 रज सारिया ॥ ५ ॥ पठरेसे नेवली पठरे ज्ञणशालीलाज्ज
 लीयो धनरे ॥ सोले से ने पेतालो जिनविव चङ्गुसे
 जालो ॥ ६ ॥ अष्टापदतिर्थ राजे तिहाँ कुशु जिने-
 श्वरराजे ॥ पठरे से ने ब्रतीसे एतो चोपमा गोत्रभेंटी
 से ॥ ७ ॥ चारू खुटे गौतम स्वामी में ज्ञेया अतर
 जामी ॥ सतचारके उपर जाणो चालीस ने चार वखा-
 णो ॥ ८ ॥ अचिरा सुत उपर सोहे मूल नायक तन मन

मोहे ॥ प्रन्नु शांति जिणंद सुखदाई निरखंतां पाति
क जाई ॥ ए ॥ संखवालगोत्रमेंरा जे खेतो बीदो
संघवीछाजे ॥ आप्या जिनविंब रसाल आठ सोने चार
विशाल ॥ १० ॥ गणि सत्य विनय गुरुराया मुनि-
अगरचंद मन ज्ञाया ॥ एतो वृद्धिचंद गुण गावे कर
जोकी शीशनुमावे ॥ ११ ॥

॥ ढाक तीसरी ॥

॥ देशी गणगोरकी ॥

संज्ञव जिनवरसेवीये जिनविंब छसो चारहेलो ॥
चवदेसे सतियासीये एतो करी प्रतिष्ठा सारहेलो
(संज्ञ०) ॥३॥ श्रीजिन चडसूरि श्वरु जिनथाप्यो-
ज्ञान चंडारहेलो ॥ पांचेसाने परचोदीयो जिणली
धोलहमीनो लावो हेलो (संज्ञ०) ॥४॥ शीतल जिन
बंदोसदा मूळ नायक शांति विराजे हेलो ॥ संकट
हरण संकटहरेनवखंसापा श्वर्भाजेहेलो ॥ शीतलमा० ॥
पंदरेने आरे समे विंवथाप्या चारसोनीसहेलो ॥ कागा
गोत्रमें दीपता सा लुण मुण्णने धन्न हेलो ॥ शीतलमा० ॥५॥
बीसविहरमानवंदिये तीनपाट नंदी श्वरराजे
हेलो ॥ सिङ्गगिरि पाटसुहामणो तेने बंदू वे कर
जोकी हेलो ॥ विसमा० ॥ पाश्व प्रन्नु प्रणमुंसदा एतो

बावन जिनालो चैत्य हेखो ॥ बारे सो बारो तरे प्रज्ञ
 आप्या जयोउद्योत हेखो ॥ पार्श्वणांष ॥ सघवीसेरीये
 चोलेसा जस लीनो जगत मे जोय हेखो ॥ बारे सो
 बावन जखा विव तोरणसुधा जोय हेखो ॥ पार्श्वणांष ॥
 गुरु गौतम ने नितनमु मारे सद गुरु सदा सहाय
 हेखो ॥ शासणरीसानिधी करे सदा चैरव चक्रेश्वरी
 माय हेखो ॥ पार्श्वण ॥ ८ ॥

॥ ढाल चौथी ॥

॥ आज गई थी समोवसरण में ॥ एदेशी ॥

यात्रानिनाणु किनी जुगतसु उखट जाव मन
 आणीरे ॥ रहजार उपर इक्यासी जिनविव सगळा
 जोईरे ॥ जात्रा० ॥ १ ॥ रग मरुपरलियामणो रचियो
 उणमें नाटक वणियोरे ॥ काचकाम सोनेहरी सांचो
 जाए मिनोजक्षियोरे ॥ जात्रा० ॥ २ ॥ अर्गाई महोत्सव
 किनो उमगमु धवल मगल वरतायारे ॥ सत्तरज्जेद
 पूजा जणीसुंदर शाली ज्ञाण नृप आयारे ॥ जात्रा० ॥ ३ ॥
 फागुण वडि दशमी सिद्धियोगे श्रस्तिक मरुख की
 नोरे ॥ अष्ट ऊव्य से पुजन करके नरज्जवलावोलिनोरे ॥
 जात्रा० ॥ ४ ॥ सातश्राविका रूपकुवरसग यात्रा

करिह खाईरे । चांद सब उदार चित्तसुं जक्किकर
दिवलाईरे ॥ जात्रामा५॥ आणंद हर्ष वधाई अनो-
पम फूल फेझ अव जोईरे ॥ ज्ञान गुरु की जक्कि
करनां मन इच्छा फल होईरे ॥ जात्रामा६॥ खतगगच्छ
जहारक मुखका श्रीजिन मुक्तिसृरिंदारे ॥ तत्पट्टे
जिनचंड सृश्वर राजित जाणे दीणंदारे ॥ जात्रा०
॥७ ॥ जद्यसृरिशाखा अनि उत्तम सत्य नियसुख-
कारीरे ॥ अगरचंड गुरु के चरणांकी जक्कि व्हदय
में धारीरे जात्रा० ॥८ ॥ वृक्षिचंड प्रन् गुण गाया
यात्रा करी हरखायारे ॥ परमपुरुष परमेश्वर पुजो
श्रीजिनराजवतायारे ॥ जात्रा० ॥९ ॥ सयउगर्णसे
वासठ वरसे चैत्र कृष्ण पक्ष मांहिरे ॥ दशमी दिन
जिनराजकृपासु अनुगम ढोखत पाईरे ॥ जात्रा
निनाणु करी जुगतसुं उखट जाव मन आणीरे ॥
इति चौढाखियो संपूर्णम् ॥

॥ श्री लोद्रवपुर श्रीचिंतामणी
पार्श्व जिन स्तवन लिख्यते ॥
॥ देशी काछवेरेगीतरी ॥
चालोसहियां लुद्रवपुररी जात पार्श्व पुज

सांजीरे ॥ चालो सहिया लूङ्वपुरीजात श्रीरेचिता
 मणि पार्श्वपुजमा पुजसा रेमहाराराज ॥२॥ पुजो देवा
 प्रथम जिणद पार्श्वपुजसांजीरे । पुजो ०। अजित सज्जव
 जिनज्जेटिया ज्ञावसुरे महाराराज ॥ ३ ॥ परचाधारी
 अधिष्ठायक अहि देव । पार्श्व०॥ आनतणी तीहाँ
 थापना थिरथायनारे महाराराज ॥४॥ त्रिगडे सोहे
 अष्टापद महागज । पार्श्व०॥ चत्तारी अठदश ढोय वद्या
 चोवीसजीरे महाराराज ॥ ५ ॥ कद्यप वृक्ष फुले फुले
 सहित ॥ पार्श्व० जाली हे रत्र शिर सोहनो मन
 मोह तोरे महाराराज ॥ ६ ॥ सहस्रफणा श्री चित्ता
 मणि महाराज ॥ पार्श्व०॥ श्यामवरणे प्रजूजी सोहाम-
 णा रखियामणरे । महाराराज ॥ ७ ॥ तोरण तणीदे-
 खो तजवीज ॥ पार्श्व०॥ उपर प्रजूजी विराजिया दो-
 नुवाजुरे महाराराज ॥ ८ ॥ पगध्यां चम्तां पातिक-
 जाय ॥ पार्श्व० ॥ चितामणि चिताहरे वांछित फुलेरे
 महाराराज ॥ ९ ॥ जन साली भलथाहरू कुलजांण
 ॥ पार्श्व०॥ जिणओ चेत्यकरावियो सुखपावियोरे महा-
 राराज ॥ १० ॥ शिखरवं वरथ अतिसोजाय । पार्श्व०॥
 शेत्रुजे सघमेकरावियो पधरावियोरे महा ॥ ११ ॥ जैर-
 ववीर हाजरखमा हजूर ॥ पार्श्व० ॥ समरे ज्यांरी

सानिधीकरे संकट टलेरे ॥ महाराराज ॥ ११ ॥
 दादासाहब श्रीजिनदत्तसूरिंद ॥ पार्श्वणा कुशलकरण
 कुशलेसरु । गूरु सुरतीरे ॥ महाराराज ॥ १२ ॥ प्रन्
 जीरी महिमा वरणीनजाय ॥ पार्श्व० ॥ ऊबहलते
 जे ऊबहले जिनराजजीरे । महाराराज ॥ १३ ॥ नृप
 जेसाए रावल श्री गजसिंह ॥ पार्श्वणा हीरोहमुकी
 चमावियो फल पावियोरे महाराराज ॥ १४ ॥ वाम-
 सुत श्री चिंतामणि महाराराज ॥ पार्श्व० ॥ बृङ्गिचंद
 करी विनती सुणवी जियेरे ॥ महाराराज ॥ १५ ॥
 उगणीसे पंचावन शुन्नमास ॥ पार्श्व० ॥ जाद्रवसुदि
 दशमी दिने देवीकोटमेरे ॥ महाराराज ॥ १६ ॥
 इति पदं सम्पूर्णम् ॥

॥ श्रीवरमसर पार्श्वनाथजीरी लावणी द्विख्यते ॥

पाश्व प्रन् पुजो सुखदाई ॥ अशुन्न कर्म हटजाय
 पलकमें प्रन्नजी वरदाई ॥ पार्श्व० ॥ १ ॥ वाणारसी
 नगरी में जनम लियो ॥ तव दवंगना आई । जनम
 महोत्सव कुवरी करके अति आणंद पाई ॥ पार्श्व० ॥
 ॥ २ ॥ ईद्यादिक सहु देव मिलीने मेरू गिरजाई ॥

कीर समुद्र से कलशा जरके स्नान वणवाई ॥
 पार्श्व० ॥ ३ ॥ अष्टाई महोत्सव प्रज्ञुको करके निज
 आनक जाई ॥ अश्वसेन वामाके छारे बटरही
 वधाई ॥ पार्श्व० ॥ ४ ॥ परमजोति मुख चक्र वि-
 द्वोक्ति देखत ऊख जाई ॥ केवल ग्यान उपाय
 जिनेश्वर मुक्ति रमणी पाई ॥ पार्श्व० ॥ ५ ॥ पुण्य
 वंत पुनमके सूरज पुजन वणवाई ॥ श्रावक और
 श्राविका मिलके जक्कि दिखलाई ॥ पार्श्व० ॥ ६ ॥
 चक्र सूरि शाखा खरतरगच्छ जट्टारक आई ॥ वृद्धि
 चक्र पारस प्रज्ञु जेठ्या ब्रह्मसरमाई ॥ पार्श्व० ॥ ७ ॥
 इति पदं सम्पूर्णम् ॥

॥ उधोमोहनजीकेणा एदेशी ॥

चितामणि पार्श्व मेरामें दासहृ प्रज्ञुतेरा । दरशणकु
 नीया मेरातरसे जेरा जाग्य उठयजोफरसे ॥ चिता०
 ॥ १ ॥ प्रज्ञु माझदेझ में राजे जिन लुङ्कव पुरमें विराजे ॥
 अश्वसेनजीके चढा वामा टेबीके नढा ॥ चिता०
 ॥ २ ॥ श्याम वरण प्रज्ञु तन सोहे । अजी निरखत
 सव जन मोहे ॥ श्री संघ वात्री आवे अष्ट ऊव्य
 से पूज रचावे ॥ चिता० ॥ ३ ॥ चितामणि पार्श्व

ध्यावो सुख संपत्ति आणंद पावो ॥ वृद्धिचंद्र प्रसु
गुणगाया में रतन चिंतामणि पाया ॥ चिंताप ॥४॥
इति पदं सम्पूर्णम् ॥

॥ अथ लावणी लिख्यते ॥

श्रीआदि नाथ महाराज ज्ञवो ज्ञव हमकुं दर
शण दीजे ॥ श्री आदिष ॥ प्रसुमोरा देवी माता
जाया तोरे पिता नान्निजो राया ॥ तुम जन्म अयो-
ध्या पाया जिहां इङ्ग इङ्गाणी आया ॥ तिहां जन्म
महोत्सव करके । परम आणंद सुख तिहां पाया ॥
श्रीआदिष ॥ ३ ॥ देव जल जर कंचन लाया ।
प्रसुजीको नवण कराया । फेर केशर चंदन घसाया
नव अंगे अंगीय रचाया । तिहां धूप दीप तैवेद्य
आरतो नाटक खूब बणाया ॥ श्री आदिष ॥ ४ ॥
इण विध महोत्सव करके । देव गये आपणे घरपे ।
सब जीवन को मन हरखे प्रसु लीनो संयम धरके ॥
कर्मोकुं काट ऊख जाल मोह मारगकुं हीया में
धरके ॥ श्री आदिष ॥ ५ ॥ इण विधीसे जेनर ध्यावे
सुख संपत्ति आनंद पावे दूवध्या सहु ऊरे जावे जेरा
जन्म सरण मिटजावे । देवी कोट चौमासी पूनम

दिवसे वृक्षिचद गुण गावे ॥ श्री आदि० ॥ ४ ॥
इति लावणी सम्पूर्णम् ॥

॥ राग सोरठ मलहार ॥

क्या हर कीनोरी सहीया नेमी कीनो गुमान ॥
क्या ह० ॥ १ ॥ विन अवगुण क्यु तजीरे सांवरा
जैसे पाको पान । अष्ट भवन की प्रिती हमारी नव
मेरोसन आण ॥ क्या ह० ॥ २ ॥ पशु छोमाय चखे
रथ फेरी दीनो सवत्सरी दान ॥ सहसा धन में
संयम लिनो धर्थो तुम निश्चल ध्यान ॥ क्या ह०
॥ ३ ॥ मेरे मन पञ्चु ध्यान तुम्हारो अव करु देवो
दान । वृक्षिचद कहे धन २ राजुल प्रञ्जुजी दीनो
सन्मान ॥ क्या हर कीनोरी सहीयां नेमी कीनो
गुमान ॥ क्या० ॥ ४ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ देवी वधावेरी ॥

आज दीवस रखीयांमणो धन्यघर्नी धन्यज्ञाग
सजनी मेरीए ॥ आजमा० ॥ प्रथम जिनेश्वर पुजसा
आदि नाथ अरिहत ॥ सज० ॥ नान्निराय घर
चादलो मोरादेवी मात सुजाण ॥ सजमा० आज ॥ २ ॥

सोखम जिनवर सेवीये शांति नाथ सुखकार ॥ सजण ॥
 सेवंता संकट टखे जपतां जय श कार ॥ सजण ॥
 आजण ॥ ३ ॥ यादव कुखमें जाणीये समुद्र विजयजी
 कानंद ॥ सजण ॥ नेम जिणंद दया करी पशुवांको
 काढ्यो फंद ॥ सजण ॥ आजण ॥ ४ ॥ कमठविडा
 रथोपाशजी उपगारी अरिहंत ॥ सजण ॥ नयरा
 वणारसी सोहता अश्व सेनराजाण ॥ सजण ॥ आजण
 ॥ ५ ॥ चोवीसम महावीरजी शासणरासिणगार
 ॥ सजण ॥ गौतमगणधर प्रणमतां लविधितणा चंडार
 ॥ सजण ॥ आजण ॥ ६ ॥ गावोवधावो नावसुं
 मोतीये चोक पूराय ॥ सजण ॥ वृद्धि चंडकहे नित-
 नमो घर श मंगलमाल ॥ सजण ॥ आजण ॥ ७ ॥
 इतिपदं संपूर्णम् ॥

अथ श्रीचिंतामणी पार्श्व जिन स्तवन ॥

॥ देशी वाखेसरे गीतरी ॥

पश्चिम दिशतीर्थ लुद्धवयुर चावोहोहो मंदिर
 पांचा में आप विराजो श्रीजिनेश्वर मुखरा दरश
 दिखावो महाराज ॥ १ ॥ नान्निराय मरुदेवीका

नंदन जेटोहोहो ॥ सोवन कायारा जगतारक श्री
 जिनेश्वर मुखरा० ॥ १ ॥ अजितनाथ युगमतिर्थकर
 ध्यावोहोहो ॥ विजीया नदन अघकाटन ॥ श्री जिने-
 श्वर मुख० ॥ ३ ॥ पुजो प्राणी सेना सुत गुण गावो-
 होहो ॥ सज्जन स्वामी अतरजामी ॥ श्री जिनेश्वर
 मुखरा० ॥ ४ ॥ सद्गुरुफणा जिन वामा सुत सुखका-
 रीहोहो ॥ अहि उत्रधारी ठवी प्यारी ॥ श्री जिन०
 मुख० ॥ ५ ॥ अष्टापदतीर्थ चौमुख चौवीसेहोहो ॥
 ब्रिगडे सुरतरु मनमोहे ॥ श्री जिनेऽमुख० ॥ ६ ॥
 चिंतामणी मूलनायक चिता चुरोहोहो ॥ अश्वसेन
 जीरा छावाहो ॥ श्री जिन० मुख० ॥ ७ ॥ मस्तक
 पर प्रज्ञु केनीका मुकट सुहावेहोहो ॥ कुम्हल कानां
 में ऊखकावे ॥ श्री जिन० मुख० ॥ ८ ॥ प्रज्ञुजी तो
 दिन में तीन स्वरूप वणावेहोहो साचे चित ध्यावे
 फल पावे ॥ श्री जिनेऽमुख० ॥ ९ ॥ दादाजी जिनदत्त-
 कुशल गुरुदेवाहोहो ॥ मूरच्चिसमरथांकदाता ॥ श्री
 जिनेऽमुख० ॥ १० ॥ अष्टायक भैरवकाला और गोरा
 होहो ॥ परतिकमणिधारी सांवला ॥ श्री जिनेऽमुख०
 ॥ ११ ॥ सन्मुख तोरण के फरस्यां पातिक जावे
 होहो ॥ तिळकेपर पद्म ग्रासण ॥ श्री जिन० मुख०

॥१७॥ जात्री बहु आवे नविजन नित ध्यावे होहो ॥
 पुजरचावे तन मनसुं ॥ श्रीजिनेष्ठ मुखरा० ॥ २३ ॥
 प्रतिदिन उत्सव की महिमावरणी न जावे होहो ॥
 मुक्तिद्वारे का मालक ॥ श्री जिनेष्ठ मुख० ॥ २४ ॥
 वृद्धिचंद्र जिनबरकुं निश दिन ध्यावे होहो ॥ तेजक-
 विजिनराजस गावे ॥ श्रीजिनेष्ठ मुख० ॥ २५॥ उगणी
 से समस्तर पौष्टुदशशी दूजो होहो ॥ एपद गाया
 सुं भव जबतारे ॥ श्रीजिनेश्वर मुखरा दरश दिखावो
 महाराराज ॥ २६ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ राग आशावरी ॥

॥ अब मोहेकरहेरे उसदिनका । तजदे जरम
 सबमनका ॥ काची माटी काचा जांडा । संचित
 लागे ठणका ॥ अब० ॥ १॥ यतीयोगी तपसी सन्यासी
 सब पाणीके पनका । काल आहेकी फिरत सर
 साधे दावपदे मृगञ्जनका ॥ अब० ॥ २॥ मेरीः२ करत
 सबकुंठी जेसे स्वपन रयणीका । आखर लेखा पूरा
 होयगा ज्युमालाके मणिका ॥ अब० ॥ ३॥ तप
 जपदान शीयल संमय. वृत. पालो सफल होय
 जीयका ॥ वृद्धिचंद्र ज्ञजो जगवतकुं । सुखपावो

शिवपुरका ॥ अब मोहेमर हेरे उसदिनका तजदे
नरम सब मनका ॥ ४ ॥ इति सम्पूर्णम् ॥

॥ देशी गोपीचंद्रे ख्यालरी ॥

॥ आजतो सहरमे सहीयाहर्ष बधावो ॥
नेम कुंवर अन आसीहेखो ॥ आज तो० ॥ समुद्र
विजय शिवा देवीको नदन यादव कुञ्ज अजु बालो
हेखो ॥ आजतो० ॥ १ ॥ नेमकुवर अब तोरण आया
पशुवाकी सुणीहे पुकार हेखो ॥ आजतो० ॥ २ ॥
जीवनकी जब ढया जोआणी । ओसंसार असारहे
खो ॥ आजतो० ॥ ३ ॥ तुर्ततज्या सब तनका आजुपण
चमगया गढगिर नारीहेखो ॥ आजतो० ॥ ४ ॥ राजुल
कहे जननीयोग धरीने प्रितम पासे मेंजासुहेखो ॥
आजतो० ॥ ५ ॥ मात पिता जब आग्याआपी चमगई
गढ गिर नारीहेखो ॥ आजतो० ॥ ६ ॥ नेम राजुल
दोनोमुक्ति सिधाये पहलीराजुल नारीहेतो ॥ आज
तो० ॥ ७ ॥ नर नारी प्रज्ञ नित प्रतिध्यावे वृडिचद गुण
गावेहेखो ॥ आजतो० ॥ ८ ॥ उगणी से पेतालीस
वरसे । ज्ञानपचमी गुरु बारहेखो ॥ आज तो सहर

में सहीयां हरख वधावो नेमकुंवर श्रवआसीहेखो ॥
इति पदं सम्पूर्णम् ॥

॥ देवी गोपीचंद्र रे ख्यातरी ॥

अजितजिणदा मोरी अरजसुणि जो पुरोमन-
कारी आसहेखो ॥ अजिष्ठ ॥ १ ॥ आपवसो प्रन्नुमोक्ष
नगरमें। मैं इष्टन्नरत मजारहेखो ॥ अजिष्ठ ॥ २ ॥ काल
अनंत रोएकंझी तरु साधारण पामीहेखो ॥ अजितष्ठ
॥ ३ ॥ सुरनर तिरिविदी नरकतणीगत । पाभीहुंपण
हारथोहेखो ॥ अजितष्ठ ॥ ४ ॥ तुंसमरथेप्रन्नुसुरतरुस-
रिखो । जिणसुतुजनेजाच्योहेखो ॥ अजितष्ठ ॥ ५ ॥
बृद्धिचंद्र करेप्रन्नुविनती दीजो सुखनोवासहेखो ॥
अजित जिणदामोरी अरजसुणीजो । पुरोमनकारी
आसहेखो ॥ ६ ॥ इति पंदम् संपूर्णम् ॥

॥ देवी फुलजमी रे गीतरी ॥

श्रीजिनभेटिये जीहोके जविजनभेटो चित लगा-
यके ज्युं सरसी सघदा काज ॥ श्रीजिनष्ठ ॥ जविष्ठ मा-
रुदेशके मध्यमें एतो जेशब्दमेरु सुथान ॥ श्रीजिनष्ठ ॥
॥ १ ॥ जविष्ठ संघवीसेर बहुफणा शुन्न पटवादेशे प्र-
सिद्ध ॥ श्रीजिनष्ठ ॥ जविष्ठ रतनपुरी रखीयामणीषतो

चंकने नाव ॥ श्रीजिन० ॥ १६ ॥ नवि० पटश्चरुवारा
 कोमकी प्रदक्षणा दीनी टोय ॥ श्रीजिन० ॥ भवि०
 यात्रा कीनी सहुजुगतिमु मनकारी पुरी आस ॥ श्री
 जिन० ॥ १७ ॥ जवि० विनय वत देखो विदणीजी
 उमगव कुवर है नाम ॥ श्रीजिन० ॥ जवि० न्यउ-
 गणी से सतरे पोप कूण पचमी गुरुवार ॥ श्री
 जिन० ॥ १८ ॥ जवि० वृद्धिचढ यात्रा करी मन
 आणंट दर्प अपार ॥ श्रीजिन जेटीयेजीहो के
 जविजन जेटो चित लगाय ॥ १९ ॥ इनि पठ
 सपूर्णम् ॥

॥ सहियाए नेमिश्वर वनडे नेगिर
 नारीजातां राखलीजो इणचालमे ॥

सहियाए अमिय ऊरजिनराज चटाप्रनु
 चित वस्यादेखो रतनपुरीमे जेटिसाहेखो सहियाए
 अमिय ऊरजिनराज चटाप्रनु चित वस्यादेखो
 ॥ १ ॥ दहिणामे पाशजीदेखो महि० मनमोहन
 मद्दागज देख्या दुरमेदियोदेखो देख्या० महि० ॥ २ ॥
 चोरीमे जिनगजनीदेखो महि० भेजामार दमेझ
 पूजो पठ मायती देखो पूजो० सहि० अभी० ॥ ३ ॥

गौतम गणधर नित नमोहेलो सहि० लट्ठिधतणा
 चंडार पूरेमन कामनाहेलो पूरे० सहि० अमी०
 ॥ ४ ॥ आवू ने गिरनारजीहेलो सहि० सिङ्गिरि
 महाराज ज्ञावनित्य चेटियेहेलो भावण सहि०
 अमी० ॥ ५ ॥ अष्टापद आदेनमुहेलो सहि०
 समेत शिखर सुखकार वीसेजिनवंदियेहेलो
 वीस० सहि० अमी० ॥ ६ ॥ ससोवत्सरणर चनारची
 हेलो सहि० त्रिगरु श्रीजिनराज देवे प्रचुदेशना
 हेलो देवे० सहि० अमी० ॥ ७ ॥ विजय यक्षनु
 कुटिदेवी हेलो सहि० गौमुख यक्षसुहाय गजे-
 न्द्र चब्बातिहां हेलो गजे० सहि० अमी० ॥ ८ ॥
 साशणदेव सदानमुं हेलो सहि० शेत्रुञ्जै गिरिसि-
 णगार चक्रश्वरी मातजीहेलो चक्रे० सहि० अमी०
 ॥ ९ ॥ केत्रपाल कालागोराहेलो सहि० चैरव
 वीरज्ञपाल संकट सवचूरवे हेलो संक० सहि०
 अमी० ॥ १० ॥ श्रीसदगुरुने सदानमुं हेलो
 सहि० दत्तसूरि श्रर देव मूरती महाराज की
 हेलो मुरण सहि० अमी० ॥ ११ ॥ कुशलकरण
 कुशलेश्वर हेलो सहि० निरधारयां आधार
 वंचित फलपूरवे हेलो सहि० अमी० ॥ १२ ॥

मालवदेशे जाण ॥ श्रीजिन० ॥ २ ॥ ज्ञवि० पूनमचढ
 दीपचटजी सौन्नागमल ने चांद ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञवि०
 चादमल राय केशरी सुतपुरणकलाप्रबीण ॥ श्रीजिन०
 ॥ ३ ॥ ज्ञवि० चांदमलज्ञार्यज्ञणु आणदकुवरने फूल ॥
 श्रीजिन० ॥ भवि० आणद ज्ञावललटियो अव जेटू
 श्री गिरि राय ॥ श्रीजिन० ॥ ४ ॥ ज्ञवि० केशरीमल
 मासोतने तव भेष्यो अहमढावाढ ॥ श्रीजिन० ॥
 ज्ञवि० क्रपामुनिमहाराजने विनती करवाने काज ॥
 श्रीजिन० ॥ ५ ॥ ज्ञवि० आणद लिनी आखकी
 भेरे दूध धीरतमा त्याग श्रीजिन० ॥ ज्ञवि० गुरु
 उपयोगी गुणेभरथा जव देख्यो लाज अपार ॥
 श्रीजिन० ॥ ६ ॥ ज्ञवि० सिद्ध केत्र जेटण जणी
 तव विहार कियो ततकाल ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञवि०
 ग्राम नगरपुर विचरता साथे समुदाय सवयोग ॥
 श्रीजिन० ॥ ७ ॥ ज्ञवि० सवेगी सुनिवर जखा
 गुरु करे धर्म व्योपार ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञवि० जीव-
 दया पाके सदा फिरसयम सत्तर प्रकार ॥ श्रीजिन०
 ॥ ८ ॥ ज्ञवि० घोरे जेदे तप तपे देखो एसे अणगार ॥
 श्रीजिन० ॥ ज्ञवि० पाकीताणे पधारिया जव जेष्या
 श्री गिरिराय ॥ श्रीजिन० ॥ ९ ॥ ज्ञवि०

आणंद् अति हर्षे करी आव्या दरशणके काज ॥
 श्रीजिन० ॥ ज्ञविष सुदि आशाहेत्रयोदशी शुन्नखम
 लियो तिहां साज ॥ श्रीजिन० ॥ १० ॥ ज्ञविष गुरु मुख
 ज्ञान सुणी करी चौमासो दीनो राय ॥ श्रीजिन० ॥
 ज्ञविष जगती सूत्र शुरु करयो गुरु शेत्रुंजे महात्म
 साथ ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञविष सतके सतके पूजा करी
 रूपैया गिन्नी मोहर ॥ श्रीजिन० ॥ ११ ॥ ज्ञविष आणंद्
 तपस्या इणीपरे इग्यारे ने वली आठ ॥ श्रीजिन० ॥
 ज्ञविष छठ अठ छादग सहु करया शुन्नदीनो सुपात्रे
 दान ॥ श्रीजिन० ॥ १२ ॥ ज्ञविष आश्विन सुदि
 दशमी दिने शुरु कीनो तप उपधान ॥ श्रीजिन० ॥
 ज्ञविष नव श्रावकने श्राविका मिल गुणतीमें गुणसङ्ख
 ॥ श्रीजिन० ॥ १३ ॥ ज्ञविष पूजाते प्रज्ञावना नित्य
 जोजन जक्कि विशेष ॥ श्रीजिन० ॥ भविष वरघोका
 रथ यात्रा अट्टाई महोत्सव कीध ॥ श्रीजिन० ॥ १४ ॥
 ज्ञविष नवकारसी नेतो फिरयो सवि जीम्या
 अतिहरषेह ॥ श्रीजिन० ॥ भविष माला पहरी मोदसुं
 प्रज्ञावना गिन्नी अर्ध ॥ श्रीजिन० ॥ १५ ॥ ज्ञविष
 पोथी पूजी ज्ञानरी शुद्ध शास्त्र तणे परमाण ॥ श्री
 जिन० ॥ ज्ञविष गुरु सेवा साचेमने करे दिन श

मालवदेशे जाण ॥ श्रीजिन० ॥६॥ ज्ञवि० पूनमचंद्
 दीपचढजी सौन्नागमल ने चांद ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञवि०
 चांदमल राय केशरी सुतपुरणकलाप्रवीण ॥ श्रीजिन०
 ॥७॥ ज्ञवि० चांदमलज्ञार्यज्ञणु आण्डकुवरने फूल ॥
 श्रीजिन० ॥ भवि० आण्ड ज्ञावउलाटियो अब जेटू
 श्री गिरि राय ॥ श्रीजिन० ॥ ४ ॥ ज्ञवि० केशरीमल
 मांकोतने तव भेद्यो अहमदावाढ ॥ श्रीजिन० ॥
 ज्ञवि० क्रपामुनिमहाराजने विनती करवाने काज ॥
 श्रीजिन० ॥ ५ ॥ ज्ञवि० आण्ड खिनी आखनी
 मेरे दूध धीरतका त्याग श्रीजिन० ॥ ज्ञवि० गुरु
 उपयोगी गुणेभरथा जव देख्यो लाज्ज अपार ॥
 श्रीजिन० ॥ ६ ॥ ज्ञवि० सिद्ध केत्र जेटण जणी
 तव विहार कियो नतकाल ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञवि०
 ग्राम नगरपुर विचरता साथे समुदाय सवयोग ॥
 श्रीजिन० ॥ ७ ॥ ज्ञवि० सवेगी मुनिवर जला
 गुरु करे धर्म व्योपार ॥ श्रीजिन० ॥ ज्ञवि० जीव-
 दया पाले सदा फिरसयम सत्तर प्रकार ॥ श्रीजिन०
 ॥८॥ ज्ञवि० वारे जेदे तप तपे देखो एसे अणगार ॥
 श्रीजिन० ॥ ज्ञवि० पालीताणे पधारिया जव जेट्या
 श्री गिरिराय ॥ श्रीजिन० ॥ ९ ॥ ज्ञवि०

आणंद अति हर्षे करी आव्या दरशणके काज ॥
 श्रीजिन० ॥ नवि० सुदि आशाहेत्रयोदशी गुजरातम
 लियो निहां साज ॥ श्रीजिन० ॥ १० ॥ नवि० गुरु मुख्य
 ज्ञान सुणी करी चौमासो ढीनो ठाय ॥ श्रीजिन० ॥
 नवि० जगवती सूत्र शुरु करधो गुरु शेत्रुंजे महात्म
 साथ ॥ श्रीजिन० ॥ नवि० सतके सतके पूजा करी
 स्पैया गिन्नी मोहर ॥ श्रीजिन० ॥ ११ ॥ नवि० आणंद
 नपस्या इणीपरे इग्यारे ने वली आठ ॥ श्रीजिन० ॥
 नवि० छठ अठ छादग सहु करथा गुजरातीनो सुपात्रे
 दान ॥ श्रीजिन० ॥ १२ ॥ नवि० आश्विन सुदि
 दशमी दिने शुरु कीनो तप उपधान ॥ श्रीजिन० ॥
 नवि० नव श्रावकने श्राविका मिल गुणतीमें गुणसट्ट
 ॥ श्रीजिन० ॥ १३ ॥ नवि० पूजाने प्रजावना नित्य
 जोजन नक्कि विशेष ॥ श्रीजिन० ॥ भवि० वरघोमा
 रथ यात्रा अद्वाई महोत्सव कीध ॥ श्रीजिन० ॥ १४ ॥
 नवि० नवकारसी नेतो फिरयो सवि जीम्या
 अतिहरषेह ॥ श्रीजिन० ॥ भवि० माला पहरी मोदसुं
 प्रजावना गिन्नी अर्ध ॥ श्रीजिन० ॥ १५ ॥ नवि०
 पोथी पूजी ज्ञानरी शुरु शास्त्र तणे परमाण ॥ श्री
 जिन० ॥ नवि० गुरु सेवा साचेमने करे दिन १

चंकते ज्ञाव ॥ श्रीजिनण ॥ १६ ॥ ज्ञवि० पटश्चरुवारा
 कोसकी प्रदक्षणा ढीनी ढोय ॥ श्रीजिनण ॥ भवि०
 यात्रा कीनी सहुजुगतिसु मनकारी पुरी आस ॥ श्री
 जिनण ॥ १७ ॥ ज्ञवि० विनय वत देखो विदणीजी
 उमराव कुवर है नाम ॥ श्रीजिन ॥ ज्ञवि० सयउ-
 गणी से सतरे पोप कृष्ण पञ्चमी गुरुवार ॥ श्री
 जिनण ॥ १८ ॥ ज्ञवि० वृद्धिचढ यात्रा करी मन
 आण्ड हर्ष अपार ॥ श्रीजिन जटीयेजीहो के
 ज्ञविजन जेटो चित लगाय ॥ १९ ॥ इनि पठ
 सपूर्णम् ॥

॥ सहियाए नेमिश्वर वनडे नेगिर
 नारीजातां राखद्वीजो इणचालमे ॥

सहियाए अमिय ऊरजिनराज चढाप्रज्ञु
 चित वस्याहेलो रतनपुरीमे जेटियाहेलो सहियाए
 अमिय ऊरजिनराज चढाप्रज्ञु चित्त वस्याहेलो
 ॥ १ ॥ दक्षिणवामे पाशजीहेलो सहिं० मनमोहन
 महाराज देरया हरखेहियोहेलो देरया० सहिं० ॥ २ ॥
 चोवीसे जिनराजनीहेलो सहिं० सेवासारे हमेश
 पूजो पठ मावती हेलो पूजो० सहिं० अमी० ॥ ३ ॥

गौतम गणधर नित नमोहेलो सहि० खटिधतणा
 जंडार पूरेमन कामनाहेलो पूरेण सहि० अमी०
 ॥ ४ ॥ आवू ने गिरनारजीहेलो सहि० सिद्धगिरि
 महाराज ज्ञावनित्य ज्ञेटियेहेलो भाव० सहि०
 अमी० ॥ ५ ॥ अष्टापद आदेनमुहेलो सहि०
 समेत शिखर सुखकार वीसेजिनवंदियेहेलो
 वीस० सहि० अमी० ॥ ६ ॥ समोवस्तरण चनारची
 हेलो सहि० त्रिगरु श्रीजिनराज देवे प्रज्ञुदेशना
 हेलो देवे० सहि० अमी० ॥ ७ ॥ विजय यक्षनृ
 कुटिदेवी हेलो सहि० गौमुख यक्षसुहाय गजे-
 न्द्र चण्डा तिहाँ हेलो गजे० सहि० अमी० ॥ ८ ॥
 साशणदेव सदानमुं हेलो सहि० शत्रुंजै गिरिसि-
 णगार चक्रश्वरी मातजीहेलो चक्रेण सहि० अमी०
 ॥ ९ ॥ क्षेत्रपाल कालागोराहेलो सहि० जैरव
 वीरज्ञपाल संकट सवचूरवे हेलो संक० सहि०
 अमी० ॥ १० ॥ श्रीसदगुरुने सदानमुं हेलो
 सहि० दत्तसूरि श्वर देव मूरती महाराज की
 हेलो मुर० सहि० अमी० ॥ ११ ॥ कुशलकरण
 कुशलेश्वरु हेलो सहि० निरधारचाँ आधार
 वंरित फलपूरवे हेलो सहि० अमी० ॥ १२ ॥

मदिरथतिमजवृत्त थे हेलो सहि० देख्यां हर्षअपार
 वगीचे के मध्यमे हेलो वगी० सहि० अमी० ॥ १३ ॥
 शुद्धिचद की बीनती हेलो सहि० माघमास
 सुदी दूज पाटमहोत्सव दिने हेलो सहि०
 अमी० ॥ १४ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ दावनी राजुलकी ॥

क्यो गये छांकगिरनार मेरे जरतारवहीं हमजावै ।
 होगया मुट्ठकमे सोर नेमराजुलको व्याने आवै ॥
 क्या सजी रगीलीजान देख सुरझन्दर खुशहोजावै ।
 सज २ सोखा शिणगार सबी नरनारदेखने पहुचे ।
 तोरणके पास पशु छु खपावे सोरमचावै ॥ ऊल ॥ प-
 शुद्धांकीदयाविचारी तबछांमीराजुलनारी । वे जाय
 चढेगिरनारी कहेजननीं । तुजको पति सुरमा सती
 अव्रपरणावै ॥ क्योंगा० ॥ आग्यादे मुजको मात मेरी-
 खो नेमनाथसे लागी । जननीपरणु नहीं ओर मेराप-
 ति नेमनाथहे सागी । जोगन बनजावुं आजमिले
 महाराज नेमवैरागी । आग्या ढीनी मुजमात सखी
 सदसातदई बनजागी ॥ ऊल ॥ अब किस्मत खुली
 हमारी जगवतने विपतविडारी । मे हुङ्गजगतसे न्या-
 री अवमिलेपति जगवान । सरे सबकाम येही हम-

चावै । क्यों०॥४॥ जोगनका रूपलिया धार शिरकी स-
 वीखटी लोचकर काली । कपड़े पहनेसंदली वहाँसे-
 चलीसती मतवाली । मुख्यपर्ती जोलीहाथ बगबमे
 ओघा उमरवाली । रस्तेमे वारीम हुई चींजती गि-
 रनारीको चाली ॥ जुल ॥ सबसखि विछुरुगर्द्धवांहीमे
 गिरनारीपरआई । फिरगर्द्धगुफाके मांही तनसे उता-
 रकर चीर । निंचोके नीर, खस्ती सुकलावे ॥ क्यों०॥५॥
 वो उसीगुफाके बीच खस्तोरहनेमी ध्यान लगाये ।
 राजुखपेनहीथा चीरदेखकर रहनेमी ललचाये ॥ उन-
 दीया काभसग्ग छोड़काम रिपु उनको आनसताये ।
 वोपहुतापास फेरराजुखयह वचनसुनाये ॥ जुल ॥ ह-
 स्ति कीतजश्वारीक्यो खरकीआपविचारी । तुं ठो-
 डमुक्तिसीनारी खबके खावे अग्यान पाय पकवान
 नहीं सरमावे ॥ क्यों०॥६॥ फिर रहनेमी युं कहे सुनो-
 सतवंती वचनहमरा । ये निगता शीलपहारु ग्यान
 खंबेका दीया सहारा । मैं ज्वसागर के बीचदूवता
 राजुख मुजेनिकला । तेरीमहिमा कहियनजाय स-
 ती तें जादवकुखको तारा ॥ जुल ॥ फिरयेही मता उपा-
 या दोनोवहाँसे उठध्याया । फिरनेमनाथ पा आया
 हाँसिल मुरादहोगर्द्ध दिक्षादोउलई प्रज्ञुगुण गावे ॥

वयोऽ ॥५॥ सबसे पहले मद्वाराज गये रहनेमी शिव-
केसांही । चौपन दिन पहली नेमनाथके गजुलमु-
क्ति पाई । पीछे पहुंचे जगवान जोतमे सबकी जो-
नीसमाई । करमाकी बेकी काटहुवे थिर अचलनग्रके
माहि, ॥ ऊल ॥ करमाकी धूलउमाई बेगया मुक्तिके-
मांहि, यों जिनआगममे गाईबेगये कालसे जीत
करमगये वीत परमसुखपावे ॥ क्योणाद ॥ उन्हीसे इक-
नाखीस कायेसाल खुबदरसाया । जाडुवाठिवृस्पत्ति-
वार अष्टमी पाली मायवणाया । जी नारनोलहे वत्न
हमारा जन्मस्थान वताया । जी जातीअगरवाल म-
हाजन उत्तमठढ कथगाया ॥ ऊल ॥ योंशिवचन्द्र
यति बखाणे इस्कीरगत पहचाणे कोईचात्रकुद्धिवाने
पशुवाकी रक्षाकरीमुक्तिजो वरीउसीकोध्यावे ॥ क्यों ॥
॥ ७ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ राग जैरवी ॥

क्यों समजावे महतारी में नेमनाथकी
प्यारी रे ॥ क्यों ॥ दुजो वर हमको नहीं चहीये में
सतवती नारी ॥ क्यों ॥ १ ॥ अधव्याहीकर ठांड गये
हे कुछ नहीं वात विचारी ॥ क्यों ॥ २ ॥ दिननहींचेन
रेननहींनिझा लागत तुरी अटारी ॥ क्यों ॥ ३ ॥ जेसे

जलविन मरत माछली सो गत होई हमारी ॥ क्यों ॥
 ॥ ४ ॥ जर जेवर पोशाक त्याग दिये मन वैराग्य
 धारी ॥ क्यों ॥ ५ ॥ पहिन चंदली चीर चली है वन
 जोगन मतवारी ॥ क्यों ॥ ६ ॥ शिवचंद कहे उन
 एक न मानी जाय चढ़ी गिरनारी ॥ क्यों ॥ ७ ॥
 इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ रागमारु ताल ढादरा ॥

नाथमेरी तुम से ले लगी वामासुत महाराज
 आज मेरी तुमसे ले लगी ॥ पहिलेतो अङ्गान रह्यो
 मेरी कुमता बुद्धि रगी । फिर सतगुरु ने ज्ञान व-
 तायो किसमत आन जगी ॥ नाथ ॥ १ ॥ पन्ना वरण
 सहस्रफण शिरपर देखत विपदाच्चगी । शिवचंदकहे
 मारुदो पद । चृमतामोरीतगी ॥ नाथ ॥ २ ॥
 ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ राग-कट्टयाण ताल ३ ॥

झुःख हरण सुखदेन ए सुरतरु आदिजिण-
 दको जिया जजरे ॥ झुःख ॥ तिब्र करमसे निपट
 कपट तेरे अबतुं अंतर कपट तजरे ॥ झुःख ॥ १ ॥
 पुन्य जोगसें तुं प्रज्ञुपायो दरश तरस तुं कर अजरे ॥
 झुःख ॥ २ ॥ तुं देवा में करुं तोरी सेवा तुम हाथे

अब मोरी लजरे ॥ छुख० ॥ ३ ॥ रामने तारो
अरजी धारो में प्रज्ञुजी तुम पय रजरे ॥ छुख०
॥ ४ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ देवी-हरिने कुटीया व० रामायण तालि केरवा ॥

विरथा जनम हंसा काएकोरे खोई ॥ वि० ॥
विरथा जनम हंसा काएकु खोई ॥ सग चले ना कोई
आविर विरीया चलेगोरे पाप पुण्य हंसा साथेरे
दोई ॥ वि० ॥ १ ॥ मात तात अरु चात तुम्हारे सगे
सम्बन्धी सोई ॥ उन विरिया कोई आकोन आवे
जिनजीरो धर्मरे हंसा सगहोई ॥ वि० ॥ २ ॥ सगे
सम्बन्धी न्याती गोती अपने स्वारथ रोई ॥ तेरे स्वारथ
कोईना रोगेरे स्मारथकी आप्रीतसगाई ॥ वि० ॥ ३ ॥
हंसा अझानी तोउना चेते वार२ कष्टो जोई ॥ कागी
कवर उजरी न होगेरे वार२ पवरपे धोई ॥ वि० ॥ ४ ॥
कर्मसे चिहुगतीमें भटके शुद्ध श्रद्धा न होई ॥
यनिगम-श्वर सणी हर्गी देवनिरजन मेंजरे जोई ॥
वि० ॥ ५ ॥ इनि पठ सपूर्णम् ॥

॥ कब्बाली तालधमाल ॥

अगरहम वेतमा होतेतो चेतनको खक्का करते । क-
दम सुच तीर काविलकेजपटगहे वीचदिलधरते ॥ १ ॥
तिला खुर वान करडारुं कदमके नुरपरसुखसे ॥ न-
खाकी रोशनी अयसीतुलीखुरसेदहेरुखसे ॥ २ ॥
अजवहेपास जाखुदके करत जो बन्दगी हररोज ।
तिनोकेजानपरवारुं सकल जरजान अपनाखोय ॥ ३ ॥
अरजमेरी कबुलएदिल परम विश्वासजगमिलजे ।
उरुकहो ज्वोदाधिविचसे, रहेजोदाशउरमध्वकी,
॥ ४ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ मालकोष दोहा, ताल त्रिताल ॥

मयाकर मेरेपर अयवर्द्धमान तेरानामलेतीहे
सारी जहान ॥ म० ॥ १ ॥ जसतेरादुनियामे मशहुरहे
अछारा दोषनसे तुहीदुरहे ॥ म० ॥ २ ॥ अवलम्हेहे
आदम आखिरमे तुहीं निरंजननिराकारसव-
तुंहीतुंही, ॥ म० ॥ ३ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ जंगलो ताल केरवो ॥

बावाप्रनुपार्श्वनके तनपर सोहे आँठीअङ्गी-
या । अंगियाहीराकी करवाइ सुखमल कपझापे जरु-

वाई । बुटीनात जांतनिकसाई रुपियासवालक्षणग-
वाई । रतनजरु वाइ अगीया ॥ चा० ॥ १ ॥ मस्तकवि-
चमुगटमनमोहे । कुम्हलकानामे हृदसोवे । हीकुकी-
हीरचाजुवधवाँहे । प्रज्ञुगुणपारनपावेकोये । रतनजरु-
वाई अगीया ॥ चा० ॥ २ ॥ खरु अधिकु पुनम
चंद आवे । जात्रु तणा वहुबृन्दपुजतपावे । मन आ-
णद काटो सेवकनाकर्म फद । रतनजरुवाई अगि-
या ॥ चा० ॥ ३ ॥ इति पद सपूर्णम् ॥

॥ देशी पीयापर घरमति०

ताल केरवा ॥

चंदप्रज्ञु तारोतो सहीरी ॥ च० ॥ तुमशरणागत्त
आयो चंदप्रज्ञु ॥ ता० ॥ रतलामनग्रमेंसोहतारी ।
खदमणानद जिनराज । निरखीमनहरखित जयोरी ।
चन्दवदन उखकाज ॥ च० ॥ १ ॥ तख्तनशीनजिन
चंदप्रज्ञुरी शोज्ञावरणीनजाय । घससुकनप्रज्ञुअग-
कोरी चरचु चित्तलगाय ॥ च० ॥ २ ॥ दधिसुता अरुक-
मलरिपुरी तासुनामप्रज्ञुदाश । युगकरजोरी विनवे
तुम टारोज्जवङ्गुः खफास ॥ च० ॥ ३ ॥ इति पद
सपूर्णम् ॥

॥ दादा साहेब के स्तवन ॥

॥ सदगुरुरायमोरी अरज सुणीजे. मोपर म-
हिरकरीजे हेलो ॥ टेर ॥ रतनपुरीमें मंदिरतिहारो
फुलरही गुल क्यारीहेलो ॥ सद० ॥ १ ॥ श्रीजिनद-
त्तसूरिश्वरसोहे मुरती मोहन गारीहेलो ॥ सद०४ ॥
आसपास गुरु चरण विराजे दत्तकुशब्द गुरुदेवा
हेलो ॥ सद० ॥ ३ ॥ अद्भुत वेदी जातीकी छवि
उपर कलश सोनेरी हेलो ॥ सद० ॥ ४ ॥ झानज्ञ-
मारगुरुदेव कोथाप्पो रूपकुंचरने फूल हेलो ॥ सद०
॥ ५ ॥ रायेकशरीसिंहसुतसोहे तसुन्नार्थ्याउमराव
हेलो ॥ सद० ॥ ६ ॥ जेनरनारी इकचितध्यावे-
मनवंछितफलपावे हेलो ॥ सद० ॥ ७ ॥ बृद्धिरतनको
चरणचितवसियो जिममुक्ताफलहंस हेलो ॥ सद० ॥
॥ ८ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ कल्याण त्रिताव ॥

गुरु देवदयाला गुरु प्रतिपाला गुरु देवन
कुंवन्दनारे ॥ दे० ॥ अग्यान रजनीं गुरु ने मिटाई
उदयोग्यान मयि चंदनारे ॥ दे० ॥ १ ॥ मिथ्या वंधन
वांधेकुगुरुने सतगुरु तौरु सब फंदनारे ॥ दे० ॥ २ ॥

समक्रित सुरमो मारे नयन मे, सारथो देवजिनंदनारे ॥ दे० ॥ ३ ॥ एसे सदगुरु सहायकरो मेरे, वाहक-देविके नदनारे ॥ दे० ॥ ४ ॥ श्री सदगुरुके चरण कमल में, रामकी होजो नित्यवदनारे ॥ दे० ॥ ५ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ राग जंगला ताल केरवा ॥

गुरु चरणपे चारो माला फूलकीजी । गुरुके गुहली करोनी तदूखकीजी । आवे नर नारी के साथ । पुजे जोकी ढोनु हाथ ॥ गुरुदेवारो जगपति नाथ । गुरुपादुकावनीरु अमोखकीजी ॥ गुरु० ॥ १ ॥ गरु राजेशेर जेसाए । थाने सारी छुनिया जाए ॥ युम्ज्ञ राजत हे अमराए । एतो इमेकी ओच्चा मेरु चूलसी जी ॥ गुरु० ॥ २ ॥ गुरु में देख्यो दर्श तिहारो ॥ तब से प्रगट्यो पुन्य हजारो ॥ अब तो खुलियो जाग्य हमारो । में घलीहारी जावु गुरुपम धूलकीजी ॥ गुरु० ॥ ३ ॥ मेरी बढना आप स्वीकारो । मोंको जेसे बणे तेसे तारो । त्रिरुद्र हे तारण तर्ण तिहारो । रासमागे रे माफी जूलकीजी ॥ गुरु० ॥ ४ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ राग मारु तालदादरा ॥

दादा जिनदत्तएङ्गेरि महिमापुरि महियख-
मेगुरुराज ॥ कर दुर्मति दृरि मिथ्यस्वचूरि सूरिश्वरां
शिरताज ॥ दादा० ॥ वाहरुदेसाना वांठिगताता
कुलमें प्रगटे गुरुज्ञान ॥ वद्धभसूरिके वद्धन्न तुमगुरु
जिनमतकेहो जान। प्रगटे पुन्य अंकूरी । म० म० ॥१॥
शोजाफेलानी जय श वानी बोले सकल जहान ॥
गुणठत्रीसे सोहे अतिशय जगो श शुभथान ॥
समरचाँहाजर हजूरी ॥ म० म० ॥२॥ वारीश जोधा
सवकारोध्या चार चोर वसकीद्व ॥ दशविध धर्मकुं
धारण करके आचारज पद्धतीद्व ॥ वजेजसकीतूरी ॥
म० म० ॥३॥ मेरे सहायक गच्छके नायक जीके
जंजणहार ॥ रामकहतहेसेवाचहतेहे चरणनपर
जाउंवार। सारमोरी लहोरी ॥ म० म० ॥४॥ इति
पदं संपूर्णम् ॥

॥ कब्बाली तालधमाल ॥

गुरु सम को नहींजग में यही हम दिलमें
ठायाहे। गुरुमहाराज-एकहीरा हर्माने खोज पायाहै।
गुरुकी कर्ते हैं वंदगी उसीसे हमको नफाहै उठाते

शिरपे सब दुक्मा गुरुने जो फरमाया है । इसीमें
इसको हे इजत भला सब जगमें बोलेंगे । सेन
खवरांपे खुशीकी दुसमणां सब सरमाया है । गुरुकी
हे महरवानी जिनठवानीको सच जानी । तजेगे
गुरु अग्यानी वे इष्टमांकु चरमाया है । गुरुके चरणां
मे पदकर सधी हम पाप खोवेगे । रामजपता कुश-
ल गुरुको उसीकी छत्र छाया है ॥ इति पद सपूर्णम् ॥

॥ राग झिंझोटी ताल केरवा ॥

गुरु देव है ज्ञानकी ज्योतिः सो तिसमहेउजास
॥गुरुम्॥ वारिग नढा-ए-वदा-सुरदा तुमको २ राम
रांणा तुमदाश ॥गुण॥१॥ गुरु ध्यानीकी वानी सुहानी
हमको सुएयो हुवे हर्ष उद्घास ॥ गुण॥२॥ दाश उवा-
रोनिहारे कर धारे तुम्ने पूरी सहुनी आश ॥ गुण॥३॥
गुरु वर्द्धयां की धुईया २ हमर्द्या निश दिन
२ दुर हुवे दुख त्रास ॥गुण॥४॥ सोहे सुरतमुरत
पुरत २ मनके चित्ते रामकी पूरो आश ॥गुण॥५॥
इति पद सपूर्णम् ।

॥ राग धनाश्री तीनताल ॥

गुरु चरणें लखचाना मेरातो मन । स्याद्

वाद मतके गुरु ग्यानी । वानी अमृत समाना,
 ॥ मं ॥ १ ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मसंकेघरमे । अनं-
 ताई कालवसाना ॥ मे० ॥ २ ॥ दोषअठारा रहित-
 जो देवा । परतिहाहमकोवताना ॥ मे० ॥ ३ ॥ जिन-
 इवानी जव श्रवने नीसुनी । साचजूँह दमजाना ॥
 मे० ॥ ५ ॥ अवमे चेत गयो कुगुरुसे । सतगुरु वेन
 लेगेवाना ॥ मे० ॥ ५ ॥ एसे गुरुकीमें वारी २ जाउ-
 रामदाशयशगाना ॥ मे० ॥ ६ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ राग धनाश्री त्रिताल ॥

सत्त गुरु मेरे मन जाया । देखोरीमाई स० । चरण
 पाडुका आदज्जुत सोवे । सेवतसुरनरराया ॥ दे० ॥ १ ॥
 चंद्र सूरि पट धरसेवत । सूर जविजन के मन जाया
 ॥ दे० ॥ २ ॥ परचा पूरणएसे सदगुरु । पुन्यउदयसे
 पाया ॥ दे० ॥ ३ ॥ दासरामकरे विनतीनित । यश
 सदगुरुकामेगाया । दे० ॥ ४ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ दावणी लंबी रंगतकी ताल केरवा ॥

दादा साहेव जिनचंद्रसूरिंदका दरशण
 नित्य करणा चहिये ॥ खूब ध्यान लगाके अर्ज
 निज़ कारजकी करणा चहिये ॥ १ ॥ मृग मद केशर

कपूर मिलाके अम्बर फिर घसणा चहिये ॥ निज
 शुद्ध चावसे गुरुका चरण कमल पूजना चहिये
 ॥२॥ जाई तुरी मचकुडमालती चरकली मोतीया
 चहिये ॥ वो टमनाकेतकी चबेलो इस्क पेच जोगीया
 चहिये ॥३॥ मोल गुलाब सेवती जुई कढंवअबमा-
 जर चहिरे ॥ फूल हस हजारा मनोहर चरणोपर
 धरणा चहिये ॥४॥ शाहन्शाह सुखतान दिल्लीपका
 प्रति वोधक येहि कहिये ॥ जिनसिद्धसूरिके परम
 गुरु मणिधारोरटणा चहिये ॥५॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ देवी दियापर घरमतजा ॥

॥ ताल केरवा ॥

निपट मन वरसतगुरुको ध्यान ॥ निं० ॥ वृथा
 जनममतहार ॥ निं० ॥ हा सतगुरुके चरणशरण
 थी पावे पूरण ग्यान ॥ उत्तमजन अरु साधु सगतथी
 वधे चोगुणोमान ॥ निं० ॥ २॥ सुरपती खग पति ओर
 एनरपति धरेगुरु जिरआण ॥ सुह अजान जो याको
 जूँदे यावे वहु हेराण ॥ निं० ॥ २॥ ढीन दयाल दया
 निधि स्वामी आपे वद्वितदान ॥ कुण्डल कुण्डलए
 समण हरदम हृदयकमल विच आण ॥ निं० ॥ ३॥

गुरु २ सब जगत पूकारे राखेकुछ नही ज्ञान ॥
उत्तमगुरु जिनसिद्धसूरिंदके कुशल कुशल पहे
चान ॥ निष ॥ ४ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ राग कब्बाली ताल केरवा ॥

करुं गुरु अर्ज तुमसेती जरासुण्डे तो क्या
होगा । तुम्हारुं वीर्द सुंणीने आयोनुमतीर गुरु
राजन । मुजे ना तुम बिन आधार ओरे जटकुंतो
क्या होगा । मेरे अवगुण निहारोना जो हो अवगुण
कमा कीजे । हवे इक सर्ण तुमहेरा चर्ण रखलें तो
क्या होगा । कहे करजोड करो परशन यहि गुरु
अर्ज तुमसेती । रहु तुम ध्यान निशादीहमां अजर
बहा लेतो क्या होगा ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ चाल अशवारीकी ताल दीपचंदी ॥

कुशलगुरु निरखणदो अशवारी । तेरी अद्भुत
कांति अपारी ॥ कुण ॥ तोरी चरणकमलबलिहारी ॥
कुशलगुरु निरखणदोछिब जारी ॥ कु० ॥ चोवा २
चंदन ओर अरगजा । मृगमद्महेक अपारी ॥ औ-
रगुलाबकेतकी । चंपक फूलरही गुलक्यारी ॥ कुण ॥ १ ॥
देव चुबनको इन्द्रजुवनहे । जिलमिलज्योति अपारी ॥

वंछित फलदायक वर लायक । सुरनामकसुखकारी ॥
 कु० ॥ २ ॥ जला २ ज्ञूपति थाहमचतहे । हय गय
 जीडहजारी । राणारावसेरसेनापति । आवतहे अश-
 वारी । कु० ॥ ३ ॥ जेरी सखमधुरधुनिवाजे । सुरनाईसुर-
 सारी । गावतहेकेई मधुर २ धुनि । सानुगगनमजारी ॥
 कु० ॥ ४ ॥ गच्छनायक जिनचक्षपटोधर । खरतरगच्छ-
 अवतारी । पद्मसूरिआ अरजी करतहे । कुशल २
 सुखकारी ॥ कुशल० ॥ ५ ॥ इति पद सपूर्णम् ॥

॥ देशी ढाल कोयलडी ॥

जेटनरे हो चालो सिद्धाचल गिरिनार, जाव
 त जिनवर-द्वार, तेरा ठुट्ट पाप अपार रे ॥ जेटनरेण
 ॥ १ ॥ तन मन से जिनवर पद परसे, नाम जपे
 नवकार । पूजन कर पर जव को लाहो लीजिये
 वार वारे ॥ जेटनरेण ॥ २ ॥ प्रत्यक्ष परचा श्री आ-
 दिजिनेश्वर, नेम प्रज्ञु भरधार । पावत मोक्ष अमरपद
 प्राणी, आवागमन निवार ॥ जेटनरेण ॥ ३ ॥ दिन
 दिन अधिको कर उत्सव, उत्तम धर्म विचार । साज
 समे नित जावना जावो, कर प्रज्ञु चरनो सु प्यार
 ॥ जेटनरेण ॥ ४ ॥ सेवक तेजकवि की सुणजो, श्री

पारस गोडी पुकार। अराष्ट्रमहोत्सव ज्ञानकी जक्कि,
हो रही जय जयकारे ॥ चेटनरेण ॥ ५ ॥ इति पदं
संपूर्णम् ॥

॥ देवी डंकेमें ॥

हाँ सदा नवपद उर ध्यावो, मिलकर प्रेम जावना
जावो । अष्टमहोत्सव जक्कि ज्ञानकी, कर फल
पावोरे ॥ सदा० ॥ १ ॥ अतर सुगंध असोल लगाई,
अंग पक्षाल अबल अविकाई । केशर मृगमद
चरच वरख से अंगी रचावोरे ॥ सदा० ॥ २ ॥
धूप धोर सुं मगन करीजे, धर्म काम में चित्त नित
दीजे । लीजे तनमन लगा, प्रनु दरशन को लावोरे
॥ सदा० ॥ ३ ॥ समोसरण में प्रनु विराजे, शिरपर
छत्र छटां हृद छाजे । जविजन सकल समाज जुक्कि
कर, धरम वधावोरे ॥ सदा० ॥ ४ ॥ आज दुतिय
पूजन दिन नीको, श्री गोदी पारस प्रनुजीको । तेज
कवि कहे हृदय अटल आंनद सजावोरे ॥ सदा०
॥ ५ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ देवी सिद्धाचल गिरि परम सुहायो ॥
सिद्धाचल गिरि परम सुहायो, ॥ सिद्धाण ॥ सकल

काम चित्त चायो ॥ आदि श्वर अरिहंत विराजे, कर द-
र्शन तन मन हरपायो ॥ सिद्धा० ॥ १ ॥ चोबीसी जि-
नगज मठिर मे, खागत ठार सवायो ॥ इद्धादिक सुर
आते फरसवा, तीरथ मोटो महात्म्य वधायो ॥ सिद्धा०
॥ २ ॥ नवाणु प्रकारकी पूजा उत्सव, आज सुहायो ॥
जविज्ञन ज्ञावत प्रेम ज्ञावना, मेघ मखार कर वरसन
आयो ॥ सिद्धा० ॥ ३ ॥ श्रीगोमी पारस प्रज्ञुजीको
परनक्ष परचो पाया ॥ जयो अधिक आनन्द मुखक
में सेवक तेजक त्रि यश गायो ॥ सिद्धा० ॥ ४ ॥ इनि
पद सपूर्णम् ॥

॥ देवी वण्णाराकी ॥

मिलज्ञविज्ञन ज्ञाव वधावे, आवृगि अचल
सुहावे । गिरि आवृकी छ्वी जारी, माने ओरन
खागत प्यारीजो फरस्यासु पातिक जावे ॥ आवृ० ॥ १ ॥
आवृकी अजव कहानी, सब जानत केवल ज्ञानी
जी । जिनकीजो नजर में आवे ॥ आवृ० ॥ २ ॥
कोई गावत प्रत्यक्ष ठाने, प्रज्ञु गत घट घट की
जानेजी । महिमा नहि वरणी जावे ॥ आवृ० ॥ ३ ॥
शुज्ञपूजन उत्सव कीनो, कर जक्कि अमृत रसपी
नोजी । परज्ञवफ़ज निश्चय पावे ॥ आवृ० ॥ ४ ॥

श्रीगोक्ती पारस सुर स्वामी, विश्व पालक जग
घट जामीजी । नित तेजकवि यशगावे ॥ आदृ०
॥ ५ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ देवी दूरमें ॥

सहस्रकूटजी का दरशन करवा, सिद्धाचल गिरि
जावा एको । ज्ञाव धरीने प्रज्ञुपद फरसां, मनचिंत्या
फल पावांएखो ॥ सहस्र० ॥ १ ॥ पांचन्नरत और पांच
ऐरवत, दशकेत्र विरदावां एखो ॥ अतित अनाग-
त वर्तमानसों, तीसोगुणगुणावाएखो ॥ सहस्र० ॥ २ ॥
महाविदेयके अष्टोतरविजयमे, एकसोसाठ पुरावाए-
खो । चोवीसेजिनवरका कब्याणक, वीसोतरवरतावा-
एखो ॥ सहस्र० ॥ ३ ॥ पांचमहा विदेहेसे वीसा, विहर-
मान वतावाएखो । चारशाश्वता सवकोय जाने, वि-
धिसुं पूजन करावाएखो ॥ सहस्र० ॥ ४ ॥ एक सहस्र
चोवीस बिंब छाजे, चरनफरस चितचावाएखो । को
दर ने श्रीमुखकी शोन्ना, इणसम गुणमें जतावांए
खो ॥ सहस्र० ॥ ५ ॥ केशरने कस्त्री चरचां, रतना-
की अंगियां रचावांहेखो । कनकथालआरती उतारी,
परदक्षणाफलब्यावांएखो ॥ सहस्र० ॥ ६ ॥ आठह-
र अरु घन्नो पलपलमें, हिरदे श्रीजिनवर ध्यावां-

एखो । शाम समे नित जाय मंदिरमें, जक्कि ज्ञा-
वना ज्ञावांएखो ॥ सहस्र ॥ ५ ॥ दीनबचन आधी
न पण्सो, श्रीजिनराजमनावाएटो । अष्टमहोत्स-
व आनन्द अधिको, तालमृदग वजावांएखो ॥ सहस्र ॥
॥ ६ ॥ श्रीगोर्खपारस प्रज्ञु थोर, चरन्ग शीश नमा-
वाएखो । सेवक तेज कवि करजोरे, बार बार यश
गावांएखो ॥ सहस्र ॥ ७ ॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

। देवी गोटी पणीहारी अवद्यूरी रंगतमें ।

प्रज्ञुजी सोनारो सूरज उगीयो, सहिया समेत
शिखर पर आज जिनेश्वर, परतक्ष वीसाँड भेटिया
॥ १ ॥ प्रज्ञुजी अजितनाथ मन्नवस्त्रामी, सहिया
अज्जिनदन महाराज । जिनेश्वर परतक्ष वीसाँड ॥
॥ २ ॥ प्रज्ञुजीमुमनिनाथ पद्म प्रज्ञु, सहिया
सुपार्खजिनराज ॥ जिनेश्वर परतक्ष ॥ ३ ॥ प्रज्ञुजी
चटा प्रज्ञुजी श्री सुवुधिजी, सहिया शीतल नाथ
सारे काज ॥ जिनेश्वर परतक्ष वीसाँड ॥ ४ ॥ प्रज्ञु
जी श्री श्रेयांसजी श्रीविमलजी, सहियां अनन्त
नाथ धर्मनाथ ॥ जिनेश्वर ॥ ५ ॥ प्रज्ञुजी शांति
नाथ कुवुनाथजी, सहिया ध्याउ ढे जोनीहाथ ॥

जिनेश्वरण ॥ ६ ॥ प्रनुजी अरस्वामी मव्विनाथजी;
 सहियां मुनिसुवृतजीमनाय ॥ जिनेश्वरण ॥ ७ ॥
 प्रनुजी नमीनाथ श्री पाश्वनाथजी, सहियां सबका
 दर्शन पाय ॥ जिनेश्वरण ॥ ८ ॥ प्रनुजी वीसाही
 जिन २ जिनदरा, सहियां मोक्ष सिधाये आप ॥
 ॥ जिनेश्वरण ॥ ९ ॥ प्रनुजी समेतशिखर श्रेणि
 मोक्षकी, सहियां फरस्यां ही काटे पाप ॥ जिनेश्वरण
 ॥ १० ॥ प्रनुजी आज पूजन दिन पांमियो, सहियां
 अर्गाईमहोत्सव होत ॥ जिनेश्वरण ॥ ११ ॥ प्रनु
 गोक्षी पारस ढाजे तखतपे, सहियां अटलजागरही
 जोत ॥ जिनेश्वरण ॥ १२ ॥ प्रनुजी वार २ नित विनवे
 सहियां तेज कवि करजोड ॥ जिनेश्वरण ॥ १३ ॥
 इति पद संपूर्णम् ॥

॥ देवी उपर पराण एचाल ॥

शतरञ्जद पूजा रचीजी मिलगावत भविजन
 साथ ॥ अब मुझ दरशन दीजो सांवराजी ॥ १ ॥ ए
 आंकणि । निरमल नीर पक्कालकेजी, अंगदोवत
 मधुरे हाथ ॥ अबण ॥ २ ॥ केशर चंदन चरचियाजी-
 फिर वरग कटोरी कोर ॥ अबण ॥ ३ ॥ अंगी रचाई
 प्रेमसुंजी, कर धूपनकी घमघोर ॥ अबण ॥ ४ ॥

जोती झिगमिग जागतीजी । अब आरतीयांरी
 रिव देख ॥ अव० ॥ ५ ॥ गगन नगारा घुर रयाजी
 हुवरया पुष्प विशेष ॥ अव० ॥ ६ ॥ सुरसव चरे
 विमान में जी, अरु इन्द्रादिकमिल आय ॥ अव०
 ॥ ७ ॥ जक्ति सहित जगदानकाजी, निज श्रीमुख
 दर्शन पाय ॥ अव० ॥ ८ ॥ इताता अगसु द्रोपठी
 जी, चित मनसु पूज्या जिनराज ॥ अव० ॥ ९ ॥
 विधविधसो वरदान देकर, सारथामनरा काज ॥
 अव० ॥ १० ॥ रावण और मटोदरीजी, मिल
 अष्टापद पर नाच ॥ अव० ॥ ११ ॥ जाघ नारु की तार
 करीनेरेश्रीजिन जक्ति साच ॥ अव० ॥ १२ ॥ अष्ट-
 महोत्सव आदसुजी, काँड दिन प्रति अधिक होय ।
 अच० ॥ १३ ॥ श्रीगोरुपारस प्रज्ञुजी, यारा दर्शन
 करे सवकोय ॥ अव० ॥ १४ ॥ तेजकवि करजोरु
 केजी, ततमन से विनति तोय ॥ अव० ॥ १५ ॥
 ॥ इति पठ सप्तर्णम् ॥

॥ देवी फूलजरुकीकी ॥

आज जखे चित जावसु, मिलपूजो श्रीगुरुदे-
 व । जिन आचार्य हो ॥ १ ॥ जीयोके गुरुवरपरतक्षपरचा
 देरहे, कलि काल समय महाराज ॥ जिनआचार्य ॥ २ ॥

गुरुवर श्री जिनदत्त दयालके, गुणमहिमा समुद्ध
जहाज ॥ जिन ॥ ३ ॥ जीयोके गुरुवर जिनचंडसूरि
प्रताप सो लिटवट परमणीप्रकाश ॥ जिनआ ० ॥ ३ ॥
जीयो ० गुरुवर दिव्यीमाणकचोकमे, नितसबकीपूरत-
आस ॥ जिनआचा ० ॥ ४ ॥ जीयो गुरुवर स्थान करायो
बादशाह, जहाँ पूजे छर्तीसो पान ॥ जिनआचा ० ॥ ५ ॥
जीयो गुरुवर जितोइ चक्रपो चढरयो, सबलेरहेमुस-
खमान ॥ जिनआचा ० ॥ ६ ॥ जीयो गुरुवर श्रीजिनकु-
शल कृपालको समरो सब बारं बार ॥ जिन ०
॥ ७ ॥ जीयो गुरुवरचोथा श्रीजिन चंडसूरि सम
फिर न भये अवतार ॥ जिन ० ॥ ८ ॥ जीयो गुरुवर
प्रवल पूजावतपादका नक्कन- की सुणत पुकार ॥
जिनआचा ० ॥ ९ ० ॥ जीयो गुरुवर ज्ञान जंकारकरा-
वियो वृद्धिचंदजी यती मुनिराज ॥ जिनआचा ०
॥ ११ ॥ जीयो गुरुवर अर्द्धार्द्धमहेत्सब आद रथो शुभ-
ज्ञान भक्ति के काज ॥ जिनआचा ० ॥ १२ ॥ जीयो
गुरुवर गुरांमा उपदेश देकरप्रथम उचारी बात ॥
जिनआचा ० ॥ १३ ॥ जीयो गुरुवर गुरु चित्त
बोध्याचोधरी, जबकलम शिरेमखहाथ ॥ जिन ०
॥ १४ ॥ जीयो गुरुवर श्रीसंघ सामिल प्रेरणाकर
टीपणीआंक चराय । जिनआचा ० ॥ १५ ॥ जीयो

गुरुवरयुग अपाहवद् अष्टमी रवीपूजा शुरुकराय ॥
जिनआचा० ॥१६॥ जियो गुरुवर धुर पूजा पच
ज्ञानकी चक्षी हितकररिख वेस । जिनआचा०
॥१७॥ जियो गुरुवर छुजी नवपद नाथकी, सिङ्गा-
चल तृतीय विशेष ॥ जिनआचा० ॥१८॥ जियो
गुरुवर चोथी आवू राजकी, फिर सहस्र कूट आनठ ॥
जिनआचा० ॥१९॥ गुरुवर रघु जिखरजी उपरे
बीसांगएमाहजिण्ठ ॥ जिनआचा० ॥२० ॥
गुरुवर सतरज्जेदकी सातमें अरुपच प्रमेष्टी आष्ट ॥
जिनआचा० ॥२१ ॥ गुरुवर दाढाजीको देखियो
नवमे दिन छुगणोद्वाष्ट ॥ जिनआचा० ॥२२॥ गुरुवर
दिनपूजानिशि ज्ञावना, चविक मन अधिक उमग ॥
जिनआचा० ॥२३ ॥ गुरुवररवगतरगच्छरउपास्ते,
गोक्षीपार्श्वरटनश्रीसघ ॥ जिनआचा० ॥२४॥ गुरु-
वरतेजकवि कथतान नितको गाय लगावतरग ॥
जिनआचा० ॥२५॥ इति पठ सपूर्णम् ॥

॥ देशीनारनोलके ख्यालकी ॥

बूझव पुरकब्यवृक्ष आछोचब्यो, सबके मन
जायोज्जी ॥ बूझव पुरकब्यवृक्षआछोचब्यो ॥ टेक ॥
इदोर सेतीबणकरआयो ॥ बूझपुरके मांय ।
मारा प्रचुजी बूझवपुर के मांय । पाच सहस्र

स्फैया लागा, शोन्नाक हियनजाय ॥ माराप्रनुजी
 शोन्नाण । शुन्नदिनदेखवृक्षओरछुजो, दीनोकलश-
 चढाय । माराप्रनुजीर्दीनोण । शुन्नदिनदेखकलशच-
 ढयो तो वहु । पूजाउत्सवकीन, करिष्ठतिष्ठासरूपचं-
 दजी । पंकितचतुर प्रवीण । सखिसवमंगलगा-
 योजी ॥ लूङ्गवण ॥ ३ ॥ लूङ्गवपुरमें कट्टपवृक्षको ।
 देख्यो अजवहेकोल ॥ माराण देख्योण ॥ पत्तेंकी
 हरियाली गेहरी ॥ फलओरपुष्पअमोल ॥ माराण ॥
 फलण ॥ ओर वृक्षपर तोता कोयल । पंठीकरतकि-
 खोल ॥ माराण पंठीकरतकिलोल वृक्षपर । दाख-
 नरंजी खाय । कियोजापतो खूबचतुर्दिंशदीजाली
 खीचवाय, शीशपरउत्तरचढायोजी । लूङ्गवणश। लूङ्गव-
 पूरमें कट्टपवृक्षकीदेखीअजववहार ॥ माराप्रनुजी ॥
 देखी ॥ प्रनुपारशकादर्शनकरकेपायो हर्ष अपार ॥
 मारा० पायोण ॥ संवत्तज्ज्ञीसे चुंबालीस । तिथि-
 छादशीरविवार ॥ मारा० तिथिण ॥ द्वितीयचैत्रके
 मध्यादिवसहुई । पूजासत्तरप्रकार । जाजताल मृदंग
 बजे । ओर गावे सवनरनार । रंदशिवचंद्रवणायोजी ॥
 लूङ्गवण ॥ ३ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥
 ॥ इति श्रीवृद्धि रत्नमाला संपूर्णम् ॥

अथ शिखरजीकी यात्राकोस्तवन

देझी विम्फेकेगीतकी । चाल साजनगुमीजमाव
तारेविंजा देतालवीकोर ॥ लंबीकोर ॥

श्रीरेजिनेश्वर भेटताजी, मारेमनकेर।पूरे आश ॥
मनकै ॥ प्रतक्षपरचापार्श्वकाजी, ध्यावोपूर्णज्योति-
प्रकाश ॥ पूर्ण ॥ १ ॥ अस्पतजेशलमेरकाजी,
मोटापटवाहे सेर प्रमाण ॥ पटवा ॥ सुजसवढायो-
चादनेजी, दाना प्रगद्याकुल पुन्यवान ॥ प्रगद्या ॥
॥ २ ॥ लक्ष्मीरे प्रगटीपावमेजी, करीमुलकां मुलक-
दूकान ॥ मुलकाण ॥ मालविदशरतखाममेजी, चा-
वासेरतणानिजस्थान ॥ सेर ॥ ३ ॥ धर्मधुरधर
जामणीजी, खुटश्राण्डकुवरउत्साह ॥ आण्ड ॥
जुन्दिनकरणीयात्राजी, जलउपव्यामनमेनाव ॥
उपव्या ॥ उगणीसे अम्सर आसोजांजी,
मुर्दीपकाढगसजसग ॥ एकाण ॥ कोटेहो क-
खफन्नेगयाजी, चित्तउजमणातणोउमग ॥ उजम-
ण ॥ ५ ॥ पावापुरीफिरस्तिष्ठकरत्याजी, किनीया
प्रामुदनिर्णण ॥ यात्रा ॥ माटिरपिहारजुहारियाजी,
कान्तीकुम्कीयात्रामुजाण ॥ कुम ॥ ६ ॥ कुमउपुर-

कीयात्राजी, फेरराजगिरिकीजात ॥ राज० ॥
 फिरकाती पूनमदिनेजी, कर कलकत्ते जाग्यणरात ॥
 कलकत्ते० ॥ ७ ॥ सत्तरज्जेदीपुजारचीजी, करथो
 स्वामीवत्सल सुखकाज ॥ स्वामी० ॥ मकशुदावाद-
 पधारियाजी, वंद्वाजसमुनिमहाराज ॥ जस० ॥ ८ ॥
 अजीमगंजवालुचरमंदिरकाजी, दर्शनकरचित्तचाह ॥
 दर्शन० ॥ कटकोलाजसमुनि राजकीजी, सुणीदे-
 शनाआण्दआय ॥ देशना० ॥ ९ ॥ पुजायों स-
 त्तरज्जेदकीजी, करथोस्वामीवत्सलसमेल ॥ स्वामी० ॥
 येमाकीप्रचावनाजी, लामुरुपैया कटोरीनारेल ॥ रुप-
 या० ॥ १० ॥ भागलपुरसुंचंपापुरीजी, ज्ञेष्वावासु-
 पुज्यजी जाय ॥ वासु० ॥ नाथनगर सुं चालियाजी,
 चित्तसमेतशिखर हरषाय ॥ समेत० ॥ ११ जिहां
 गजराज चढावियोजी, फिर धर्मशाला धर्मविशेक
 ॥ धर्म० ॥ विसांहीजिनवरज्जेटियाजी, और अंगियां
 रचना अनेक ॥ अंगी० ॥ १२ ॥ कुशल कमाई
 करणकुंजी, फिर काशी सुधारथा काज, ॥ काशी० ॥
 चंदपुरी और संखपुरीजी, बाजेरतनपुरी जिनराज
 रतन० ॥ १३ ॥ दर्शन कीना ज्ञावसुंजी, सारथा
 मनरा मनोरथ सोय ॥ मन० ॥ फिर २ देवजुहा-

रियाजी, जवरी वाग सागगजहोय॥वागण ॥ १४ ॥
 दखनतु जाय अयोध्यामेजी, चाल्योमेरु अमरकर
 नाम ॥ मेरुण ॥ फिर ज्ञोपाल उज्जेनसुजी, आया
 अपेणपुर रतलाम ॥ अपणे ॥ १५ ॥ वाग सोहाणे
 वीचमेजी, वृजे मठिर श्री जिन देव ॥ मठिरण ॥
 अमियक्तराचक्षप्रज्ञुराजकीजी, थावे नित २
 अधिकेसेव ॥ निनण ॥ १६ ॥ मठिरश्री दत्तसू-
 रिकोजी, जीतरङ्गाननकारसोहाय ॥ डानण ॥
 जावेजवि जनजावनाजी, मिलनरनारी मगलगाय
 ॥ नगण ॥ १७ ॥ पारशालादत्तसूरिकीजी,
 सायेलायब्रेरीकुञ्जलसूरिद ॥ लायण ॥ रूपकुवर
 एकरावियाजी, मिलफूलकुवरआणट ॥ फूलण ॥
 १८ ॥ रायसाहबकेआरिसिहजी, मानेआडाहुमन्मने-
 क ॥ आडाण ॥ विनयजोपालत विदणीजी,
 फूलकुवरहृष्टिपिघलेख ॥ कुवरण ॥ १९ ॥ उग-
 णीसे मित्तरे जेरमेजी, बढवारमठिनगुरुवार ॥ वा-
 रण ॥ जेथाणे घमेरेउपामेरजीशुजस्तवनकरथोते-
 व्यार ॥ मनवनण ॥ हृष्टिचढगुरुजैनकाजी, देवे-
 भर्म नाणाउपटेझ ॥ धर्मण ॥ तेजकविकथविनवे-
 जी, गुणगारे छदयहमेझ ॥ गावेण ॥ २१ ॥ इति
 पठ सम्पूर्णम् ॥

॥ देवी पनजीकी ॥

कामण गारोजी पारस प्रचु मन हर लीयो
हमारोजी ॥ कामण० ॥ मनमो वशकर लियो प्रचुते
एसोजाफुमारोजी ॥ तुज सिवाय नहीं देव दूसरा
लागत प्यारोजी ॥ कामण० ॥ १ ॥ द्वूद्रव पुरके माँय
प्रचुजी देख्यो तोय छंदगारोजी ॥ दिनमें रूप के ही
प्रगटे तुं मुलकसे न्यारोजी ॥ कामण० ॥ २ ॥
केशर चंदन मृगमद् घसकर पुजुं अंग तुमारोजी ॥
शिवचंद कहे इस ज्वसागर से पार उत्तारोजी ॥
कामण० ॥ ३ ॥ इति पदं संपूर्णम् ॥

॥ देवी नारनोलके ख्यालकी ॥

जेशाणे मांहि किलापर सांचो पारस नाथजी ॥
जेशाणे० ॥ किलाउपर भला विराज्या वामासुनजिन-
राय ॥ हीरावरण अंग प्रचुजोको, रविसेतेज सिवा-
य ॥ देख झिलक प्रचुके लिलाटको शशी गयो
सरमायजी ॥ जेशाणे० ॥ १ ॥ सित्तर सहस्र रूपैयों
की अंगी सोहत हे नगकारी ॥ शिरपर सहस्र
फणामनमोहे, सुरत लागे प्यारी ॥ जिन २ को प्रचु
परचा देवे पुजे डुनियां सारीजी ॥ जेशाणे० ॥ २ ॥

दूर देश सु नरनारी नृप, दर्शन करणे आवे केशर
 चटन अतर लगावे मृगमद् धूप खेवावे ॥ साणक
 मोती कनकरजतका जर २ याल चटावेजी ॥
 जेशाणे० ॥ ३ ॥ निर्धनकुं अतीदेत लद्भी पदमें
 करे निहार, वांज नारकु दे सुत चचल रोगी कियो
 विकार, शिवचढ कहे कुमति ओर विपदा देवामा
 सुत टारजी ॥ जेशाणे० ॥ ४ इति पद संपूर्णम् ॥

॥ शुचं भूयात् ॥





एक ही प्याला

?

दक्षिण हृद्वायाद्

जीवरक्षा ज्ञान प्रचारक मंडली

[स. १९७१ विक्रमी] स्थापना [सन् १९१५ इस्ती]

उद्देश

अहिंसा प्रत्येक सामाजिक नीति का संचार और प्रजा मुरुद्य अंग है। इस नच्च का निश्चय कर सर्वसाधारण में सर्वतः प्रचार करना इस मंडली का मुख्य उद्देश है। यह मंडली निम्न लिखित सुवार्गों का आग्रह पूर्वक समर्थन व प्रयत्न पूर्वक प्रचार करेगी।

- (अ) “इट्रियनान वाले” सर्व प्राणियों को हरेक प्रकार की निर्देशता से बचाने का प्रयत्न करना।
- (आ) वैज्ञानिक, आत्मिक, मित्र वैयायिक और आयुर्वेदिक दृष्टि शुद्ध शाकाहार से व मद्यपानादि मादक द्रव्यों के त्याग से डोनेवाले लाभ, प्रजा को समझाना।
- (इ) धर्म अथवा खटि के नाम से प्रचलित पशुवलि आदि निर्देशता पूरित प्रयाओं को संपूर्णतया बंद करने के लिये अधिकारी वर्ग से विनंति करना और प्रजामत तदनुकूल करना।
- (ई) परदेश से भंगवाया हुआ अथवा मडली द्वारा खास रचना कर विविध भाषाओं में प्रकाशित किया हुआ अहिंसा संबंधी साहित्य जनता में बोटना।
- (उ) जन कल्याण के अराजकीय प्रश्नों को अपनाना।

जीवरक्षा ज्ञानप्रचारक ग्रथमाला, पुण्य ३४ चॉ.




एक ही प्याला

?

प्रयोजक

माधवराव केशवराव येरे

आमुख



मध्य या दारु पीने से केसी ३ हानिया होती हैं प्रायः मब समझदार लोक जानने हैं। धर्मग्राहों में दृम का कडा निषेध किया गया है, व्यवहार में लोक दाह के व्यसनी जनों का विश्वास कम किया करने हैं, वे गुन्हाचार एवं सजाचार भी पाये जाते हैं। वैद्य हकीमों की गय है कि दारु के पीने से उन्माद आदि शीर्मारायां व अकाल मृत्यु हो जाती है, गराबी व उस के कुटुब परिवार को सदा दर्दी सताया करती है ऐसी एक नहीं अनेक दुर्गाइयों के दिघने पर भी केसे आश्रय व दुख की बात है कि मध्यपान डेगभर में दिन व दिन घटते ही जा रहा है। डेग की भलाई चाहने वालों का कर्तव्य है कि वे इस अनर्थ से बचने के लिये प्रजा का व्यान शीघ्र आकर्षित करें व ऐसी पुस्तके पत्रिकायें वॉलपॉष्टरे आदि साहित्य का विविध भापाखों में प्रचार एवं जाहेर भाषण आदि लोकजागृति के सावनादि शक्य प्रकारों से इस बढ़ती हुई आपत्ति को गेकरे का प्रयत्न करं।

यह छोटी पुस्तक श्री ववई लक्ष्मी आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस के मालिक सेठ पुरुषोत्तम विश्राम मावजी द्वारा सुवर्णमाला मासिक में प्रकाशित “मध्यपान की करनी” नामक सचित्र कहानी पर से परिवर्धित कर लिखी गई है, यह कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त किया जाता है। आशा है कि वाचकरण इसे पठ बर मित्र मडल में इस मडली के उपदेश का प्रचार करंगे उपर्युक्तानुसार साहित्य छपाने में धनसहायता के लिये भी प्रार्थना है।

निवेदक

वी. जी. स्टेशन रोड हैद्रावाद (दक्षिण.) } 	लालजी भेघजी ऑ. सेक्रेटरी.
---	------------------------------

सर्वनाश

या

एक ही प्याला

?

(१)

मोहमयी मुवा नगरी में गोपालराव नाम के गृहस्थ रहते थे पूर्णजों की प्रात की हुई स्थावर मिलकत की वार्षिक आमदानी सिवाय सबा सौ रुपये मासिक बेतन था अर्गत् आर्पिक हालत अच्छी थी आप की पत्नी रमाचार्दि रूप-गुणवती आनाकिता नारी भी आप का एकलीता पुत्र रमराव होनहार नवयुवक अभी आर्ट्स कॉलेज में अभ्यास कर रहा था तरण रगराव का विवाह कुलवती मुशीला लड़की से किया गया था जिस का नाम था इदिरा इन्होंने उर्फ लम्ही अपने नामानुसार लम्ही का अवतार थीं उनका विवाह दिया गया था जिस का नाम था इदिरा इन्होंने सुन्दरी की गोद एक लड़का व एक लड़की से हरीभरी होने से पुत्रवती बहू पर रमाचार्दि का अधिक प्रेम था पीत्रपौत्री की बालकीटा देख कर बृद्धा रमाचार्दि छाड़ी न समार्ती व उस का समय वात्सल्य रस में व्यतीत हो जाता था इस प्रकार गोपालराव का मुख्य बुद्धि मानों प्रेम का शातिधाम था

जिस किसी को निर्धनता गरीबी का दुख हो, किसी को अपने मन के अनुकूल छी न मिले हो, किसी को पुत्र

का लाभ न हो अथवा पुत्रवृद्धि के कारण वर में सास-बहू की लड़ाई हो; किसी को पौत्र पौत्री नसीब न हुए हों इस प्रकार आधि व्याधि उपाधि पीड़ित कोई दुःखी प्राणी जब हमारे चरित्र नायक गोपालराव का कुटुंबसुख देखते तब उन के मुख से यह शब्द एकाएक निकल जाते थे कि “इस गृहस्थ के गृहस्थाश्रम को धन्य है” परमेश्वर किंवा कुदरत की कृपा से पुण्यवान प्राणी संसार में भी स्वर्गतुल्य सुखों का भोग कर सकते हैं इस का उस प्रेक्षक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता था; हमारे इस कथन की सत्यता जांचने के लिये पाठकगण कृपया सामने के पृष्ठ पर ‘सुखी कुटुंब’ का चित्र नंबर १ देखें।

(२)

परंतु संसार परिवर्तनशील है. भाग्य का चक्र हमेशाँ वृमते रहता है. सदाकाल सुख किस का रहा है? गोपालराव इस के अपबादरूप क्यों कर हो सकते? किसी ने ठीक कहा है कि ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ गोपालराव नवीन रौशनी के याने सुधारक पंथी सद्गृहस्थ थे. धर्मवंधनों को बहम समझ कर कभी के त्याग चुके थे. आहार विहार एवं खानपान में स्वतंत्रता का प्रतिपादन बड़े जोर से अपनी वात-चीत में बारंबार किया करते थे. यद्यपि भर्मी तक उन के घर में मद्यपान किंवा मांसाहार का प्रत्यक्ष प्रवेश न हुआ था तथापि श्रीमान् को राध में इन चीजों का उपयोग करने में कुछ भी बुराई न थी! इस जमाने में प्रचलित छोटे २ व्यसनों का याने चाय-सिगरेट आदि का यथेच्छ उपभोग किया करते थे. जौवन की इन अनियमितता के कारण कुछ

(चित्र नंबर १)



सुन्दी युद्ध

(चित्र नंबर २)



एक ही प्याला.

दिन हुए अजीर्ण व्याधि आप की सताने लगी बदहनमी से बचने का उपाय आप के कुछ मित्रोंने कोई उत्तेजक पेय याने गुणवी नशेदार पीना रोजाना पीनेकी सिफारिश की उनका अभिप्राय था कि उत्तम प्रकार की ब्रान्डी या हिस्की जैसी दास यदि नित्य थोटी २ माफकसर ली जाय तो तदुरुस्तीको फायदा होगा इस के अनुमोदन में किसी एक टॉप्टर साहब ने अपनी समति प्रगट कर दी कि ऐसा करने से आराम रहेगा इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि एक दिन मित्रमठलो के आग्रहवश भोलाशिकार बन के गोपालराव ने मद्यपान का श्रीगणेशा शुरु कर ही दिया एक ही प्याला पिकाने वाले मित्रों में गोपालराव दोनों हातों से निषेध करते हुवे चित्र नवर २ में पाये जाते हैं ।

(३)

जिस ने विषेक को त्याग दिया उस का सर्वज्ञाश अवश्यमाविष्ट है गोपालराव का दाढ़ का व्यसन व्यसनी मित्रों की सगति में प्रति दिन गढ़ने लगा धीरे २ उस दुर्घटना ने आप पर ऐसा अविकार जमाया कि निल मध्य सेवन किये गिना जैन न पाते मित्रों के आग्रहयुक्त आमत्रणों से आप उन के यहा मिजवानी पार्टीयों में जाया करते थे दाढ़ भी वहा रहती थी कैँडिगार मित्रों को अपने घर पर पार्टी में बुलाते ये उन के स्वागत म कैट बोतलें खलास की जाती थीं इन मिजवानीयों की रातों में गोपालराव के घर में सब मित्रों द्वारा जो गढ़पड़ धीगामस्ती व नाच कृद गाना रोना मचाया जाता था उस से सारा घर कॉप ऊठता था विचारी रमावार्डि

अपने पति की यह विपरीत अवस्था देख, मन ही मन किस प्रकार सिसक जाती इस की कल्पना कीजिये। उस के कोमल हृदय में गहरी चौट आई किन्तु लाचार। अनेक बार विनंति करने पर भी पतिदेव ने उस की एक न मानी! औंधे घडे पर पानी! ऐसी पति की दुर्दशा देख वह अबला फूट २ कर रोती, आंसूओं की धारा वहाती; इवर गोपालराव अपने मतवाले मित्रों सहित मद्यपान के मजे में मस्त रहा करते थे। पूर्ण व्यसनावीन दशा में उन के मित्रों का नृत्य सामने के पृष्ठ पर वित्र नंबर ३ में देख कर आप अवश्य दुःखी होंगे।

(४)

जिस घर के बड़िल याने मुख्य पुरुष दुराचार के तरफ झुकते हैं उन का अनुकरण छोटे बचे बौरा किया करते हैं। उन की बूरी चाल का बूरा संस्कार दूसरों पर पड़ जाता है। गोपालराव की उपर्युक्त चेष्टाओं का उन के पुत्र रंगराव पर विपरीत परिणाम हुआ। पिताजी नित्य मित्र मंडल में इतनी बोतलें स्वाहा कर जाते हैं इतनी इस दारु में क्या माधुरी होगी यह सज्जन प्रश्न तरुण रंगराव के चंचल मस्तिष्क में वारंवार घूमने लगा। एक बार दारु का स्वाद चखने के लिये वह उत्कंठित हो गया व चुपचाप कोई न देख सके ऐसे एकांत की ताक मेरहने लगा। एकांत मिलते ही थोड़ासा चखने का उस ने निश्चय कर लिया। दुर्भाग्यवश उसे एक दिन ऐसा प्रसंग मिल गया। घर में दूसरा कोई नहीं है ऐसा देख उस ने आलमारी खोली व एक बोतल में से एक ही प्याला भर के थोड़ा सा चखने के लिये उंगली डुबोकर चाट देखा ! स्वरदार

(चित्र नंबर ३)



पूर्ण व्यसनाधार्थीन् दशा में

(चित्र नंबर ४)



प्रथम आस्वादन.

रगराव । क्या तूने कभी नहीं सुना कि दारु पीने से बुद्धिनाश होता है ? क्यम तूने अपनी आखों से नहीं देखा कि दारु पीनेवालों की केसी-दुर्दशा होती है ? त पढ़ा-लिखा समझदार होते हुवे इस समय तेरी सुधबुध, कहा गई ? सम्हल जा । अब पतन से अपने आप को बचा ले । क्या ! तेरी पत्नी इंदिरा व तेरे बालकों के लिये तेरे दिल में कुछ भी दया नहीं है ? होशियार ! इस एक ही प्याले को सर्श करने का कुविचार कभी मत कर, परतु अरे । कापते हुवे हाय से उसने वह प्याला उठा लिया, इतना हि नहीं, उस अविचारी मूर्ख ने पी भी ढाला ॥ (चित्र नम्र ४) देखें

(५)

आम फलत परिवार सो, मधुक फलत पत सोय ।
ता को रस साजन पिये, काहे न निर्जन होय ? ॥

चोरी छुपी से दारु पीते २ रगराव का व्यसन धीरे २ प्रबल होते चला प्रारभ में वह अपनी पत्नी इंदिरा से छुपा कर पिया करता था किन्तु ऐसा कहा तक चले ? अत मैं एक दिन इंदिरा ने देख लिया कि रगराव मेन पर बेठे मथ का प्याला भर रहा है । पनी ने देख लिया यह मालुम होते ही वह निर्जनता धारण कर कहने लगा “मेरी तबीयत के सुधार के लिये दवा के तौर पर एक ही प्याला लेता हु” ऐसा कहे कर चात को टाल दी

दुर्भागी इंदिरा ! तेरे पति को दुर्भाग्य ने घेर लिया है उस को बचाने के लिये तू अपने अन करण की दुसी आह उसे मुताने का व्यथी प्रयत्न कर रही है । देवि ! इस

में संदेह नहीं कि तू अपना कर्तव्य पाकन कर रही हो किन्तु भोली ! तेरे सदुपदेशक हित बचन सुनने के लिये अभाग रंगराव के कान कहाँ हैं ? इस कि बुद्धि मद्य के प्याले में छूब चुकी है ! अब तेरे लिये एक उपाय बाकी है कि उस द्वयालु परम पिता परमात्मा की प्रार्थना कर कि वह प्रभु तेरे रंगराव को असत् से सन्मार्ग पर के जाये, घोर अंधेरे में से उजियाले में प्रयाण कराये : प्राणनाथ के समीप निष्पक्ष प्रार्थनायें करती हुई गृहदेवी इंदिरा को चित्र नंवर ५ में देखिये.

(६)

मद्य पी कर मतवाला बना हुआ रंगराव मध्य रात्रि के शुमार पर बाज़ार से घर को लौट रहा था. वेहृद पीने के कारण उस का पैर जमीन पर न टिकता था. उस का मस्तिष्क घूम रहा था. एकाएक उसे चकरी आ गई और वह धाढ़ सा भूमि पर गिर पड़ा. भला हुआ जो पास में बहेती हुई नाली की किनार पर पत्थरों से कपाल झटते बच गया ! इधर गटार की बाजु में बेहोश पड़े हुए रंगराव और जीवरहित शरीर याने मुर्दा इस में कुछ विशेष भेड़ नहीं दिखता यह वाचकगण देख सकते हैं. औरे ! मद्यपान के कारण इत मनुष्य देह की कैसी ढुरेशा ! मृत शरीर पर ज्यों गीध कौवे लोचने के लिये दूट पड़ते हैं उसी प्रकार बेहोश शराबी के खीसे पार्काट चोर डाकूओं द्वारा टटोले जाते हैं, वे उसे उल्टापुल्टा कर धन हरण कर लेते हैं. परम कृपालु परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धिका दान दिया है जिससे भला बुरा जान सके किन्तु अविचार व प्रमाद से जब बुद्धि को तिळांजलि दी जाती है, मद्य के प्याले में

(चित्र नंबर ९)



निष्कल प्राधनाये

(चित्र नंबर ६)



धैहोशी की हालत.

जन बुद्धि को डुगे दी जाती है तो परम पिता परमात्मा की आज्ञा उल्लङ्घन का पाप होता है जिसकी शिक्षा पाने फल-स्वरूप यों बुद्धिरहित जड़ देह को ऐसी दुर्दशा चोर डाकूओंके द्वारा होना स्वाभाविक है शराबी के चेतनारहित शरीर को चोर छूट सकते हैं, रोग अपना सहारक पज्जा आसानी से ढालते हैं कारण जिस देह में विवेक बुद्धि रूपी दीपक नहीं, जहा सार विचार सहित सुमति का निवास नहीं ऐसे अधेरे उनाड़ घर में चूटे घूस का होना कोई आर्थर्य नहीं। बेशुद्ध होकर पड़ा हुआ रगराव लुट रहा है यह तो ठीक, परतु ऐसी बेहोशी की हालत पाने के लिये, घर के दाम गँवाके लोकों में अप्रतिष्ठा कमाने के लिये उसने आज तक अपने घर की बहुतसी अमूल्य चीजें दारगाहों की दुकान पर या सावकार के यदा गिरवी रख चुका है यह कैसी दुखद घटना है प्रत्यक्ष अपनी जन्मदात्री माता और पत्नी व बालकों के मुख में मे अब का कौर व अग पर से ओढ़ने का बख्त खीच कर बेचने में उसने शरम नहीं की रगराव के देह की दुर्दशा बेहोशी की हालत में चित्र नवर ६ से दिखती है

(७)

अरे यह कौन अभागा औरत को पीट रहा है? वही सुधारक शिरोमणि गोपालराव का ठाकटा पुत्र रगराव जिसने अपने मर्यादी पिता का उत्तुकरण कर 'प्राप से बेटा मवाया' प्रत्यक्ष कर दिखाया व अपने मर्जनाश को आमत्रण दिया रगराव का व्यसन उत्तरोत्तर बढ़ते ही गया जिस प्रकार किसी ऊचे पहाड़ की चोटी पर से लुटकता हुआ बड़ा पत्थर उतार की ओर अधिकाधिक बेग से गिरता हुआ किसी से नहीं रोका जा सकता किन्तु उसे रोकने की चेष्टा करने वाले का कपाल फोड़ कर उसे भी अपने साथ ले गिराता है उसी प्रकार रगराव अब ऐसी हद तक पहुँच गया था कि उसका सुगर

असंभवसा प्रतीत होने लगा। आगं वर्णित हो चुका है कि वर की बहुतसी चीजें, औरत के जैवर भी बेच के पी चुका था। अब बेचने के क्षिये घर में वाकी ही क्या था? अर्धात् पत्नी के गले का सौभाग्यचिन्ह—मंगलसूत्र पर पतिदेव रूपी शनि महाराज की नज़र पड़ी। मंगलसूत्र तोड़ देने के लिये इंदिरा को फरमाया गया! हिन्दु धर्मानुसार सौभाग्यवती स्त्री अपना सौभाग्यचिन्ह—मंगलसूत्र नहीं तोड़ सकती। इस लिये इंदिरा ने नम्रतासे पतिदेव को बहुतेरी विनंतियाँ कीं परंतु लात मार के उसे गिरा दी गई व उस विचारी का गला बोट कर जवरदस्ती मंगलसूत्र तोड़ ही लिया, और गुस्से से अनेक प्रकार की गंदी गालिया ढेते हुवे उसे बेतकी छड़ी से जानवर के समान पीटने लगा।

वाचक गण! जहां हार्मनियम वाजा का संगीत सुनाई देता था आज उसी वर में औरत व बच्चों का यह रोना चीखना कैसा? लक्ष्मी के समान लाड में पली हुई इंदिरा आज जानवरों के जैसी बेत की छड़ीयों से पीटी जा रही है इस का क्या कारण है? यह किस का प्रताप है? सज्जनो! यह उस एक ही प्याले की करतूत है जिसे पहिले दर्दाई के तौर पर पिया गया था! यह उस एक ही प्याले का पराक्रम है जिस के कारण रंगराव के बच्चे आज सून्ही रोटी के लिये तरसते हुवे नंगे भूखे रो रहे हैं। चित्र नंवर ७ से उस हतभागी कुटुंब को देखें।

(८)

उत्तेजक पेय या गुलाबी नशा समझ कर पिया हुआ एक ही प्याला! इस प्याले में यह मतवाला मधरसे हैं या उन निराधार विधवाओं व अनाथ बालकों के आंसूओं से यह प्याला छलाछल भरा हुआ है? इस एक ही प्याले में श्रीकृष्ण का यदुवंश झूव गया, इस एक ही प्याले में नित्य कई कुटुंब झूव रह हैं, फिर भी इस की मोहनी नहीं छूटती! कैसी

(चित्र नंबर ७)



दत्तभागी उद्दय

इंदिरा के सीनेपिरोने के काम की मजबूरी का मिला था. उस में से आठ आने का अनाज लाकर घर में डाला व बाकी के आठ आने के कर रंगराव ने बाजार के तरफ चल दिया!

सायंकाल का समय था. रंगराव सीधा दारुवाले की दुकान पर गया. उस ने आठ आनी दे कर अखीर का एक ही प्याला लिया व पी गया. बाचकगण, रंगराव को क्या मालूम कि यह उस का अखीर का एक ही प्याला था ? !

प्याला पी कर मतवाला रंगराव, विना उद्देश सड़क पर से गुजरने लगा. विशाल रस्ता उस के चलने के लिये बस न था. वह इस बाजु से उस बाजु, दोरी तूटे हुवे पतंग के माफक गोते लगा रहा था। कि सामने से आती हुई मोटरकार के साथ अथड पड़ा. मोटर उसे गिरा कर पलायन हो गई. रात का समय था, रस्ता चलनेवाले थोड़े थे. रंगराव खून से भरा हुआ बेहोश पड़ रहा था. धीरे २ लोक जमा हो गये. किसी दयालु पुरुष ने पानी मँगवाया व रंगराव के मस्तक पर छिनक के उसे शुद्धि में लाने का यत्न किया. इतने में पोलिस आ गई व रंगराव को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. राहदारियोंमें से किसीने रंगराव को नहीं पहिचाना; यदि पहिचान सकते तो उस के घर पर समाचार दिये जाते : किन्तु कोई क्यों न हो, मनुष्य के जैसा ज्ञानवान प्राणी, दारु के व्यसन के आधीन हो ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होता है यह प्रत्यक्ष देख सब प्रेक्षकगण दारु का तिरस्कार एवं दारुवाज के लिये दया का भाव व्यक्त करने लगे (चित्र नंबर ९).

(१०)

मध्य रात्रि हो गई; अभी रंगराव घर नहीं आया देख, उस की पत्नी इंदिरा व मातृश्री रमाबाई को अतिशय चिंता होने लगी. मित्रों के यहां कहीं मिजबानी में गया होगा समझ कर राह बहुत देखी. अभी २ रंगराव नित्य रातको बड़ी देरी से घर आया करता था परंतु आज के जितनी देरी कभी न हुई थी.

(चित्र नंबर ९)



मध्यपात का परिणाम

कर बिलख २ कर रोने लगे परंतु 'पछताये क्या होत जब
चिह्निया चुग गई खेत ?'

गोपालराव को समस्त संसार शून्य दिखने लगा.
किसी प्रकार इस दुःखी जीवन का अत कर देने का उन्होंने
निश्चय कर लिया. उन की पत्नी रमावाई सेवासुश्रुता निमित्त
हमेशां ठाजिर रहा करती थी. एक रात को रमावाई को कुछ
नींद आ गई देख कर गोपालराव ने अपना निश्चय पूर्ण करने
का अवसर पा लिया. सभीप में मेन पर झीझी में जहरी ढवा
जो सिर्फ लगाने की ढवा थी उसे पी लिया. उस कातिल
जहर ने गोपालराव का जीवन—दीपक बुझा दिया !

रमावाई जागी तो क्या देखती है ? पति मीठी नींद में
गांत सो रहे हैं ! बहुत रातों से नींद नहीं आयी, आज कुछ
सो गये होंगे समझ कर कुछ समय ठहर गई ! अखीर धीरज
न रही ! पति को हिला कर जगा रही है परंतु पति कहा ?
मध्यान के महालोक में अपनी करनी का फल चाखने के
लिये पति ने कभी को चल दिया था.

अभागिणी रमावाई का सौभाग्यसूर्य अस्त हो गया. उस
की आंखों में अंधेरा छा गया. गोपालराव की मृत्युगम्भा के
पास बैठ कर रोती हुई उस विचारी विधवा की दया देख कर
केसी भी कठिन छाती के पुरुष को दया आयेगी. गरमी से लोहा
भी पिवल जाता है फिर मनुष्य की क्या कथा ! चित्र नंवर १ ।

(१२)

गोपालराव के मरण से एक समय के मुखी परंतु वर्त-
मान में अभागी कुटुब का आधारस्तंभ बैठ गया. पुत्र की
अकाल मृत्यु के बाद पति की आत्महत्या इन एक कें बाद
एक आनेवाली आपत्तियों की परंपरा से रमावाई का चित्त
भ्रमित सा होगया. फिर भी धैर्य से रहीसही जिंदगी के दिन
कष्ट से गुजार रही थी. रंगराव की विधवा इंदिरा व उसके
वेटावेटी की जोड़ी उसके अधिकारमय जीवनमार्ग में आशा
का एक मात्र किरण था. रंगराव का वेटा मधुकर कल बड़ा

(विश्व नवर ११)



कदम दद्य

(चित्र नंवर १२)



दुःखमय अंत.

हो जायगा इसी आशात्तु के सहारे रमावाई जीर्ह हो थीं

परतू कृत देव को यह कव मजर था ? वह इदिरा को मल हृदय की लटकी थी पतिकी अकालमृत्यु व ससरे की आत्महत्या जैसी दुखों की परपरा से उम का धैर्य गल गया बरफ की तुफान धुक्क वर्षा को कमलिनी के सह सकती ? अखोर उस ने भपने छोटे २ बच्चों व बृद्धा सास को भाग्य के भरोसे छोड़ना ठान लिया एक अधेरी ममसाम रात्रि में एकान्त देख कर घर के कुरे में इदिरा ने आत्मसमर्पण कर दिया , आत्महत्या कर ली

इदिरे ! तुने यह क्या किया ! तेरी बृद्धा सास रमावाई की न सही, तेरे कोमल चालकों की भी तुझे दया न आई ? किन्तु बेटी तेरा क्या उपाय ? जिम ने कभी दुख के दिन देखे न ये, जो पिता के गर में व पति के मकान में गृहदेवता तुत्य मान सन्मान से पली थी, वह ऐसे कठोर दुखों की परपरा को कैसे सह सकती ?

भारतगासी भाईयो व बहेनो ! मद्यपी गोपान्नराव के भोलेपन पर आप को दया आती है ? छाकटे रगराव के लिये आपके दयालु अत करण में रुणाभाव उत्पन्न होता है ? दुर्मागी विधनाये रमा इदिरा व उन अनाय चालकों की पुकार सुन आपका दिल पसीनता है ? तो आओ ! उन सब अनथों के मूरुरूप उस एक ही प्याले का यहिट्कार करो ! आप उस मोहक प्याले के फैने में कभी न फैसो, व और भाईयों को इसकी मोहनी से छुड़ाओ ! यदो हुमको अपनी मौं बहेनों के सुख की धोड़ी भी परवा है, रमा इदिरा की दुखी पुकार से तुम्हारे अत करण में दयारम उत्पन्न हुआ है, तो इम पुण्यभूमि से मद्यरान का दुर्यसन नष्ट होने के लिये समस्त भारतवासियों को सन्देश प्रदान करो, मत्य नान का प्रचार करो, इस चिप्य पर चोथ देनेवाली पुस्तके परिकाये प्रकाशित कर के नवीन सुतानों को मग्यपान में उनका ज्ञान प्रदान करो, जिससे मद्यपान के नारण होनेवाला गेसा दुखमय अन कभी न देखना पड़े चित्रनवर ? २

गायन

गायन

खाना खराव कर दिया, विलकुल शराबने;
जो कुछ कि न देखा था, दिवाया शराब ने ॥१॥
इच्छत के बदले जिल्हते इस के सवब मिली
मुझलिस बने मर्ज़ बनाया शराब ने ॥२॥
हुक्कुल की तरह बाग में लेते थे ब्रह्म गुल;
मंडास नालियों निराया शराब ने ॥३॥
मेंदाने जंगमें थे कभी जो कि शहस्रार;
कीचड की नालियों में गिराया शराब ने ॥४॥


x x x x x

पी कर शराब ब्यों न करे, शोरोशर बशर;
पहले तो शर बशर में है, और फिर शराब में ॥५॥



जीवरक्षा ज्ञान प्रचारक ग्रंथमाला

सूचिपत्र



विकल्प प्रस्तक का नाम	हिन्दी	गुजराती	मराठी	बंगाली	तेलुगु	ଓଡ଼ିଆ	ମୁଣ୍ଡା	मुख्य
पुत्र बलि या पशुबलि १	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
देवीभत्तों से अपील	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
पञ्चिक से अपील	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
नाग पूजा या नागपीड़ा २	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
जीवरक्षा भजनावली	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
दयाजनक इत्य	”	”	”	”	”	”	”	२ आने
नियमोप नियम	”	”	”	”	”	”	”	अमूल्य
अहिंसा संगीत रत्नावली	”	”	”	”	”	”	”	१ आना
रूपरेखा	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
सर्वनाश या एक ही प्याला ३	”	”	”	”	”	”	”	१ आना
मुवर्ण पिंजर	”	”	”	”	”	”	”	१ आना
मिजलस या मोतने मार्गे	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
खद प्राणी नी सेवा	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
आहार मु आरोग्य मु	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
देवीभाषा (सात्त्विक पूजा प्रकाश)	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
मनुष्य योग्य स्ताभाविक आहार	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
ग्राम देवता	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
अहिंसा	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
त्रिधिअन्स व मांस भग्न	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
गाई की कहानी	”	”	”	”	”	”	”	॥ आना
जानवरों की परिआद	”	”	”	”	”	”	”	१५ आना

